

वसुधरा राजे सिंधिया की  
धार्मिक देव दर्शन यात्रा का  
दूसरा फेज 8 मार्च  
को शुरू होगा

अखिलेश की पहले पलायन-  
दंगाइयों पर चुप्पी  
और अब आतंकवाद  
पर खामोशी



# NCR

## समाचार

यूक्रेन और रूस के बिच फंसे  
भारतीय, मोदी जी का कहना  
नहीं होगा किसी का भी  
बाल बांका

हमने आईपीएल नीलामी में  
आधा काम कर लिया, अब  
खिताब की जिम्मेदारी  
खिलाड़ियों पर: वाडिया



इस्माईल खान

www.ncrsamacharlive.in

BY C.R.O. TEAM

twitter-@ncrsamacharlive

भारत का न

साप्ताहिक  
समाचार पत्र

श्रीदेवी की पुण्यतिथि पर, बेटी जान्हवी कपूर ने कहा 'नफरत का एक और साल तुम्हारे बिना जीवन में जोड़ा गया

12

## संगम विहार सर्वे में 'आप' पार्टी के निगम पार्षद 'जितेंद्र सिंह' से खफा दिख रही जनता, भाजपा दे रही टफकर



नमिता चौहान / एनसीआर समाचार

एक तरफ जहां अरविन्द केजरीवाल को दिल्ली का मसीहा कहा जाता है वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अरविन्द केजरीवाल के कामों से संतुष्ट नहीं हैं। यहाँ जिनकी बात हो रही है वो है आम जनता। आम जनता सिर्फ कहने के लिए आम जनता है, लेकिन सच तो ये है की कुर्सी पर बिठाने की ताकत सिर्फ और सिर्फ इन्हीं के हाथों में है। ये चाहें तो सरकार बना भी सकती है और बिगाड़ भी। कुछ ऐसा ही देखने को मिला संगम विहार में भी आने वाले MCD चुनाव के सर्वे के दौरान।

संगम विहार 83s की जनता आम आदमी पार्टी के कामों से खुश नहीं। एनसीआर समाचार के सर्वे में जनता ने अपने अंदर का सारा गुबार निकाला। सबसे अहम मुद्दा जो वहाँ से निकलकर सामने आ रहा है, वो है शिक्षा व्यवस्था का, क्योंकि आज तक संगम विहार में कोई स्कूल नहीं बनाया गया। यहाँ सिर्फ एक ही स्कूल है जो 5वीं तक के विद्यार्थियों के लिए है। जनता का क्रोध निगम पार्षद जितेंद्र सिंह के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल पर भी फूटा। जनता का कहना है की आज तक साफ सफाई की समस्या का समाधान

नहीं हुआ, न ही सोनिया विहार का पानी उनके क्षेत्र में पहुँचा। 5 साल बीत गए लेकिन संगम विहार की परेशानियाँ खत्म नहीं हुईं, इसलिए जनता आक्रोश दिखा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इस बार के चुनाव में आम आदमी की शिकस्त निश्चित है। केजरीवाल के राज में दारू के ठेके खुले, मुफ्त दारू मिली, बरातघर भी बने, लेकिन कुछ नहीं बना तो वह है बच्चों के लिए एक बेहतर स्कूल। ऐसा कहना है संगम विहार की जनता का। चुनाव के दिन अब दूर नहीं जो काम करेगा सरकार उसी की बनेगी और जो कन्नी काटेगी वो मुँह की खायेगा।

## मोदी ने बालाकोट एयर स्ट्राइक को किया याद

# भारत का पराक्रम घोर परिवारवादियों को पसंद नहीं आता: प्रधानमंत्री मोदी

एजेंसी

बस्ती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बस्ती पहुँचे थे जहाँ उन्होंने एक विशाल चुनावी जनसभा को संबोधित किया। बस्ती में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बालाकोट एयर स्ट्राइक को याद करते हुए अखिलेश यादव और उनकी पार्टी पर जबरदस्त तरीके से निशाना साधा। मोदी ने कहा कि आज 5वें चरण का मतदान हो रहा है। आज का मतदान यूपी में भाजपा-एनडीए की प्रचंड बहुमत वाली सरकार पर एक और ठप्पा लगाने वाला है। यूपी को दंगामुक्त बनाए रखने के लिए, यूपी को गुंडामुक्त बनाए रखने के लिए, यूपी के विकास के लिए, लोगों का भरपूर आशीर्वाद हमें मिल रहा है। उन्होंने कहा कि आज चंद्रशेखर आजाद के बलिदान दिवस पर देश अपने सपूत को याद कर रहा है। कल बालाकोट एयर स्ट्राइक के तीन साल पूरे होने पर देश



मोदी ने कहा कि भारत का ये पराक्रम, दिल्ली और यूपी में बैठे कुछ घोर परिवारवादियों को पसंद नहीं आता। ये लोग आज भी हमारी सेनाओं से सबूत मांगते हैं, उनके सामर्थ्य पर विश्वास नहीं करते। इसलिए ऐसे लोगों से यूपी की जनता को बहुत सतर्क रहना है।

ने अपने वायुसेना के पराक्रम को भी याद किया। हमारे शूरवीरों ने देश को

चुनौती देने वालों को उनके घर में ही घुसकर मारा था। इसके साथ ही विपक्ष

कि जो लोग देश की सेनाओं की जरूरत को हमेशा नजरअंदाज करते रहे, वो परिवारवादी देश को मजबूत नहीं कर सकते।

जिन लोगों का दिल, देश में बम धमके करने वाले आतंकियों के लिए धड़कता है, वो कभी देश को सशक्त नहीं बनाएंगे। उन्होंने कहा कि देश तभी ताकतवर होगा, जब देश के राज्य ताकतवर होंगे, जब उत्तर प्रदेश ताकतवर होगा। लेकिन घोर परिवारवादियों का तो एक ही फॉर्मूला है- पैसा परिवार की तिजोरी में, कानून जेब में और जनता इनके पैरों पर। कबीर जी घोर परिवारवादियों के लिए बहुत पहले कह गए थे। दुर्बल को न सताए, जाकी मोटी हाथ। गरीब की इसी हाथ ने 2014 में इन्हें झटक दिया, 2017 में पटक दिया, 2019 में साफ कर दिया। इसलिए ऐसे लोगों से यूपी की जनता को बहुत सतर्क रहना है। मोदी ने कहा

## समाज के डर से माँ ने कचरे में फेंका नवजात बच्चा संगम विहार निवासी नूर आलम ने पहुंचाया अस्पताल

नमिता चौहान / एनसीआर समाचार

संगम विहार गली नंबर 8 की एक ऐसी घटना सामने आई है जिसे सुनकर आपको अपने कानों पर यकीन नहीं होगा। आज तक आपने यही सुना होगा की एक से दो बेटियाँ हो जाये तो लोग उसे मारने की कोशिश करते हैं या फेंक देते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ये सुना है की किसी ने अपने नवजात बेटे को फेंक दिया हो वो भी तब जबकि वो एकदम स्वस्थ हो। जिस घटना का जिक्र यहाँ हम कर रहे हैं वह काल्पनिक नहीं बल्कि सच है। संगम विहार गली नंबर 8 के पास एक बड़ी सी खाई है जहाँ आस पास के लोग अपने घरों का कचरा फेंकते हैं। जिस खाई की हम बात कर रहे हैं वो खाई कई सारे पेड़ पीधों से भरी हुई है और पूरे इलाके में मशहूर भी है। ये वो जगह है जहाँ लोग अपने घरों का कचरा फेंकते हैं वहीं किसी माँ ने अपना बच्चा फेंक दिया। एक तरफ जहाँ लोग एक ओल्लाद की उम्मीद लेकर कई मीलों तक नंगे पांव चलकर मंदिरों में



माथा टेकते हैं ताकि भगवान उनकी मुग्ध पूरी कर दे। वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जो नवजात बच्चों को कचरे में फेंक देते हैं। एनसीआर समाचार की संवाददाता ने जब वहाँ के लोगों से बात की तो ज्यादातर लोगों का यही कहना था की हो न हो जरूर उस महिला की शादी नहीं हुई होगी इसलिए उसने अपने नवजात बेटे को यूँ कचरे में फेंक दिया। इतना ही नहीं वहाँ के एक शख्स ने बताया की सुबह के करीब 9 बजे वहाँ बच्चे को देखा गया, वो भी तब जब एक कचरा बिनने वाले ने वहाँ काम करने वाले

मजदूरों को उस बच्चे के बारे में बताया। उसी जगह रहने वाले एक व्यक्ति नूर आलम ने उस बच्चे को कचरे से निकाल कर मस्जिदिया अस्पताल हमदर्द में भर्ती कराया, साथ ही पुलिस को भी इस घटना के बारे में सूचित किया, जिसके बाद उस बच्चे को मस्जिदिया से एम्बु रेफर कर दिया गया। एम्बुएचओ द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक अभी उस बच्चे की हालत में काफी सुधार है और जल्द ही उसे किसी न किसी संस्था के हवाले कर दिया जायेगा जहाँ उस बच्चे की अच्छे से देख रेख की जाएगी।

## दिवन टावर को ध्वस्त करने का कार्य प्रगति पर



नमिता चौहान / एनसीआर समाचार

दिवन टावर के नाम से प्रसिद्ध नोएडा सेक्टर 93 की बिल्डिंग जिसका निर्माण कार्य सिर्फ इसलिए पूरा नहीं होने दिया गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार ये टावर अवैध रूप से बनाया गए है। आपको बता दें कि इस टावर का निर्माण 20000 करोड़ की लागत से शुरू किया गया था, जो की दिल्ली एनसीआर में पहला ऐसा टावर बनने जा रहा था, जिसमें 7 स्टार फैसिलिटीज दी जाने वाली थी, लेकिन अब इस टावर को निर्माण से पहले ही तोड़ने की शुरुआत हो चुकी है। सन 1988 में इसका निर्माण कार्य शुरू किया गया था और 2022 में इसको तोड़ने का काम शुरू

किया गया है। इस टावर पर लम्बे समय से केस चल रहा था जिसके परिणाम स्वरूप इस टावर को अवैध बताकर तोड़ने का काम शुरू किया जा चुका है। बता दें की इस टावर को तोड़ने में 18 करोड़ की लागत सरकार के तरफ से दी गयी है। ये एक सबक है उन सभी बिल्डर्स के लिए जो अवैध रूप से बिल्डिंग का निर्माण करते हैं। इस काम के लिए 200 मजदूरों और कुछ इंजीनियर्स की टीम बुलाई गयी है। उम्मीद जताई जा रही है की अगले एक महीने के अंदर इस टावर को गिरा दिया जायेगा। इसको गिराने के लिए ट्रक भरकर बारूद लाए गए हैं ताकि आसानी से इस कार्य को पूर्ण किया जा सके।

## यूपी को माफियाओं से मुक्त रखने के लिए भाजपा जरूरी, सपा-बसपा का होगा सूपड़ा साफ: शाह

एजेंसी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार जारी है। अब तक 4 चरणों की चुनाव हो चुके हैं जबकि पांचवें चरण का चुनाव लगातार जारी है। इन सब के बीच आज अमित शाह ने एक बार फिर से समाजवादी पार्टी और बसपा पर निशाना साधा है। अमित शाह ने कहा कि उत्तर प्रदेश को माफियाओं और बाहुबलियों से मुक्त रखने के लिए भाजपा सरकार जरूरी है। इसके साथ ही अमित शाह ने दावा किया कि अब तक के हुए चार चरण के चुनाव में सपा और बसपा का सूपड़ा साफ हो चुका है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में चार चरण के चुनाव समाप्त हो चुके हैं, पांचवा चरण का चुनाव होने जा रहा है। चार चरण के चुनाव में सपा-बसपा सूपड़ा साफ हो गया है। 300 से ज्यादा सीटों के साथ भाजपा की सरकार बनने का रास्ता चार चरण ने प्रशस्त कर दिया है। गृह मंत्री ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि



अखिलेश ने काफी सारी चीजों में यूपी को नंबर वन बनाया है- डकैतों में उत्तर प्रदेश नंबर वन था। हत्या में उत्तर प्रदेश नंबर वन था। बलाकारों के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर वन था। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आज अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, आजम खान, ये सब जेल में हैं। गलती से भी अगर आपने साइकिल की सवारी की, तो क्या ये जेल में रहेंगे? अगर उत्तर प्रदेश को माफियाओं-बाहुबलियों से मुक्त करना है, तो ये सिर्फ भाजपा की। शाह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 1.67 करोड़ गरीब माताओं को हमने गैस का कनेक्शन

मुफ्त दिया है। 2.54 करोड़ किसानों को हर साल 6,000 रुपये उनके बैंक खातों में भेजा है। अमित शाह ने कहा कि मैं जिस-जिस जनपद में जाता था तो वहाँ के लोग कहते थे कि हम मच्छर से परेशान हैं और माफिया से भी परेशान हैं। नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता अभियान चलाकर और शौचालय देकर मच्छरों से मुक्ति दिलाई और योगी आदित्यनाथ ने माफियाओं से पूर्वांचल को मुक्ति दिलाने का काम किया। शाह ने कहा कि भाजपा घोषणा पत्र में हमने कहा था कि हर जिले में जिन्होंने भी सरकार की और गरीबों की भूमि कब्जायी है, उसे वापस लाने का काम करेंगे।

## संक्षिप्त समाचार

### कुंडा में सपा प्रत्याशी गुलशन यादव पर हमला, राजा भैया पर लगाया आरोप

कुंडा। प्रतापगढ़ का कुंडा सीट हमेशा सुर्खियों में रहता है। कुंडा सीट से रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया लगातार चुनाव जीतते रहे हैं। इन सबके बीच इस बार कुंडा में समाजवादी पार्टी ने एक मजबूत उम्मीदवार उतारा है। कुंडा में राजा भैया के खिलाफ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी गुलशन यादव चुनावी मैदान में हैं। इन सबके बीच प्रतापगढ़ जिले के धाना कोतवाली कुंडा के पहाड़पुर बनेही में सुबह 11:00 बजे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी गुलशन यादव के काफिले पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। इस हमले में उनके वाहन क्षतिग्रस्त हो गए हैं और उन्हें मामूली चोट भी आई है। खुद पुलिस उपाधीक्षक (क्षेत्रधिकारी) कुंडा अजीत कुमार ने इस घटना की पुष्टि कर दी है। अजीत कुमार ने बताया कि गुलशन यादव क्षमण पर निकले थे और जैसे ही वह पहाड़पुर बनेही मतदान केंद्र से आगे निकले घाट लगाए कुछ लोगों ने उन पर हमला कर दिया जिसमें उनके वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। गुलशन यादव ने हमले के बाद राजा भैया के समर्थकों पर बड़ा आरोप लगाया है। गुलशन यादव ने दावा किया कि राजा भैया के समर्थकों ने उनपर हमला किया है। आपको बता दें कि कुंडा राजा भैया का गढ़ कहा जाता है। राजा भैया जनसत्ता पार्टी के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं। गुलशन यादव उनके पुराने सहयोगी रहे हैं जो इस बार राजा भैया के खिलाफ चुनावी मैदान में हैं। समाजवादी पार्टी ने पिछले 15 वर्षों से इस सीट पर अपना उम्मीदवार नहीं उतारा था।



## खानपुर में हुए सर्वे में जनता ने 'आम आदमी पार्टी' और केजरीवाल के काम का किया समर्थन

नमिता चौहान / एनसीआर समाचार

खानपुर में हुए NCR समाचार के एक सर्वे में ज्यादातर लोगों ने आम आदमी पार्टी के समर्थन में वोट की। जिस दिन ये सर्वे हुआ उसी दिन खानपुर वार्ड 81s की एक महिला शाहजबी काजी जो की 'आम आदमी पार्टी' से चुनाव लड़ने और जीतने की तैयारी कर रही हैं। उनके कार्यालय के उद्घाटन के दौरान NCR समाचार की संवाददाता ने उनसे भी बात की और जानना चाहा की आम आदमी पार्टी से वो क्या उम्मीद रखती हैं और अगर उन्हें पार्टी की तरफ से टिकट मिल जाती है तो वो जनता के लिए किस तरह से कार्य करेंगी? वहाँ के सभी लोगों का शाहजबी को लेकर यही कहना था कि वो एक शिक्षित महिला हैं और जब वो पार्टी से टिकट लेकर चुनाव लड़ेंगी तो वो जरूर जीतेंगी, क्योंकि आम आदमी की पार्टी



काम और शिक्षा के लिए जानती जाती हैं और यही वजह है की लोग उन्हें इतना पसंद करते हैं। ठीक उन्हीं की तरह शाहजबी भी बिना नेता बने समाज के लिए बेहतरीन कार्य कर रही हैं और अगर वो निगम पार्षद बन जाती है तो और भी बेहतरीन तरीके से सभी कामों को कर पाएंगी। शाहजबी के साथ साथ उनके समर्थन में वहाँ आए सभी लोगों ने कई बातें कही। लाम्हा सभी लोगों का यही कहना था की आम आदमी पार्टी का कार्य केवल खानपुर में ही नहीं

बल्कि पूरी दिल्ली में ही बेहतरीन है और अगर इस बार MCD के चुनाव में आम आदमी पार्टी जीती है तो अभी से ज्यादा काम होंगे। राजू पार्क में स्थित सैंफियाना मस्जिद से निकलती जमातियों की भीड़ से भी बात करने की कोशिश की गई ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के मत जाने जा सके। उस भीड़ की 95 प्रतिशत जनता ने आम आदमी का समर्थन करते हुए बीजेपी की अवहेलना की। उनका कहना था की बीजेपी की सरकार होने के बावजूद भी सारे काम आम आदमी

पार्टी की तरफ से किये जा रहे हैं, तो क्या फायदा ऐसी सरकार का जो काम ही नहीं करती। जो सरकार काम करती है हम उसे ही लाना चाहेंगे। इस क्षेत्र के सभी लोगों ने चाहे वो युवा हो, महिला हो या पुरुष सभी ने आम आदमी पार्टी के काम का समर्थन किया, केजरीवाल के काम को सराहा और ये उम्मीद भी जताई की इस बार के चुनाव में आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। विपक्ष चाहकर भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनने से रोक नहीं पाएंगे।

एनसीआर समाचार, साप्ताहिक समाचार पत्र में विज्ञापन के लिए संपर्क करें।  
कार्यालय: 12/276, संगम विहार नई दिल्ली-62  
फोन: 8888883968, 9811111715

## चुनावी नतीजों से पहले कांग्रेस आलाकमान की बड़ी बैठक

एजेंसी

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि 5 राज्यों के चुनाव और चुनाव के बाद क्या करना है उस पर चर्चा हुई। संविधान और लोकतंत्र पर खतरा है ऐसे मौहाल में आज देश जी रहा है। आप जानते हैं कि देश में क्या हो रहा है। कांग्रेस आज एकमात्र विपक्षी पार्टी है, लोगों को उम्मीद है। गहलोत ने यह भी कहा कि पुरानी

पेशन योजना के संबंध में हमारा निर्णय सोच समझ कर लिया गया था, मानवीय आधार पर यह निर्णय लिया गया था। यदि कोई सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद सुरक्षित नहीं है, तो वह क्या बचाएगा? वह पेंशन के बारे में सोचता रहेगा। वह क्या काम करेगा? उनमें सेवानिवृत्ति के बाद के संबंध में विश्वास पैदा किया जाना चाहिए।

एनसीआर समाचार पत्र के स्वामित्व/ प्रकाशन परिवर्तन के संबंध में आवश्यक सूचना  
एनसीआर समाचार के समस्त पाठकों तथा पत्र के साथ जुड़े समस्त पत्रकारों, व्यावसायिक संयोजक, सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं/संस्थानों को यह सूचित किया जाता है कि गत वर्षों से श्री बलबीर सिंह के नेतृत्व व स्वामित्व में चले आ रहे वर्तमान एनसीआर समाचार पत्र का प्रकाशन व स्वामित्व मो. इनीफ, पत्र श्री इस्माईल खान मास्टरजी, संगम विहार के स्वामित्व व नेतृत्व में हो रहा है। अतः भविष्य में समस्त प्रकार की व्यावसायिक, कानूनी एवं सामाजिक गतिविधियों के संचालन हेतु मो. इनीफ/ नये कार्यालय जी 12/276, संगम विहार, नई दिल्ली - 110062, दूरभाष (मोबाईल) 8888883968, 9811111715 से सम्पर्क करें।

**संक्षिप्त समाचार**

**फाल्गुन की अमावस्या को सीकर खातनोड़ी हनुमान जी का मेला**

**दीपक कौशिक / NCR समाचार**

सीकर जिला, स्थित खातनोड़ी बालाजी धाम हर वर्ष की भांति फाल्गुन मास अमावस्या को मेला लगेगा, मेले से 1 दिन



पहले 1 मार्च को बालाजी महाराज के भजन होंगे, बालाजी मंदिर लगभग 400 वर्ष पुराना है बताया जाता है कि यहां जो भी श्रद्धालु बालाजी महाराज को श्रद्धा पूर्वक मानते हैं उनकी मनोकामना पूरी होती है पहाड़ियों के बीच बसा यह मंदिर 2 जिलों सीकर एवम जयपुर की सेनाओं के बीच है। प्रत्येक मंगलवार एवं शनिवार को सैकड़ों की संख्या में भगत यहां दर्शन करने के लिए आते हैं हर वर्ष मेले में लाखों की संख्या में भक्त आते हैं भामाशाह एवं भक्तों के द्वारा भंडारे की व्यवस्था की जाती है, इसके साथ ही नवनिर्मित राम दरबार का भी मंदिर भामाशाह ने बनवाया है, मेले पर राजस्थान सहित हरियाणा, पंजाब, गुजरात, दिल्ली सहित अन्य प्रदेशों से भी भगत यहां आते हैं।

**सागर जिला कार्यालय पर जिला स्तरीय समर्पण निधि अभियान की बैठक**



**मुकेश हरयाणी / NCR समाचार**

बैठक में जिले के प्रभारी मंत्री अरविन्द्र भदौरिया, मध्य प्रदेश शासन के मंत्री गोपाल भार्गव इस अभियान के जिले के प्रभारी व मध्य प्रदेश शासन के मंत्री भूपेन्द्र सिंह, सागर सांसद राज बहादुर सिंह, जिला अध्यक्ष गौरव सिरौटिया, जिले के प्रभारी आशीष दुबे, समर्पण निधि अभियान के सभी सदस्य उपस्थित रहे।

**मां और पिता पर कलयुगी बेटे ने चलाई गोली, जायदाद के लिए उठाया बड़ा कदम**

**बुलंदशहर**। जिले के खुर्जा जंक्शन चौकी क्षेत्र में गोली लगने से एक महिला की मौत हो गई और उसका पति गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस सूत्रों ने रविवार को बताया कि दंपति के एक बेटे को इस घटना को अंजाम देने के संदेह में हिरासत में लिया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने बताया कि मृतका की पहचान विमला नगर कॉलोनी निवासी मंजू देवी (65) के रूप में हुई है। उन्होंने कहा कि मंजू के पति ओमप्रकाश के सिर के पिछले हिस्से में गोली लगी है जिन्हें मेरठ स्थित एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस सूत्रों ने पड़ोसियों के हवाले से बताया कि ओमप्रकाश ने अपनी जमीन 12.5 लाख रुपये में बेची थी तथा इस पैसे से उन्होंने कहीं और जमीन खरीदी एवं शेष पैसा अपने दो बेटों और बहुओं में से एक पर खर्च कर कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इससे दूररा बेटा यतेंद्र नाराज हो गया और वह बुजुर्ग दंपति के साथ नियमित रूप से झगड़ा करता था। पुलिस ने कहा कि आगे की जांच जारी है।



**अंत्योदय की भावना के साथ जनहित में कदम बढ़ा रही है सरकार: मनोहर लाल चंडीगढ़**

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि घर घर जनमानस की आवश्यकता है, ऐसे में लोगों के घर के प्रति भावनात्मक लगाव के मद्देनजर बेहतर गुणवत्तापरक घर की उपलब्धता मुहैया कराना डेवलपर का कर्तव्य है। मुख्यमंत्री शनिवार को गुरुग्राम में आयोजित दो दिवसीय आर्बन डेवलपमेंट कॉन्फ्लेव के समापन अवसर पर बतौर मुख्यातिथि संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने डेवेलपर्स को प्रेरित किया कि आपके लिए भले ही बिल्डिंग निर्माण कार्य व्यवसाय है लेकिन बिल्डिंग में आशियाना लेने वाले परिवार आपके भवन को घर बनाते हैं जिससे उनका पारिवारिक जुड़ाव होता है। उन्होंने कहा कि हर परिवार के सिर पर छत देने में लिए केंद्र व प्रदेश सरकार विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से अपना दायित्व प्रभावी रूप से निभा रही है।

**इस बार का चुनाव घोर परिवारवादियों और घनघोर राष्ट्रभक्तों के बीच : मोदी**

**एजेंसी**

**देवरिया**। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर लगातार प्रचार कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज वह देवरिया पहुंचे थे जहां उन्होंने एक बार फिर से परिवारवाद के बहाने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। मोदी ने कहा कि इन चुनावों में मुझे अनेक बार उत्तर प्रदेश आने का मौका मिला है। यूपी में इस बार जिस तरह का चुनाव हो रहा है उसे ये घोर परिवारवादी समझ ही नहीं पा रहे हैं। इस बार का चुनाव घोर परिवारवादियों और घनघोर राष्ट्रभक्तों के बीच है। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में परिवारवादियों के खिलाफ दलित, शोषित, वंचित सब के सब एकजुट हैं। सामान्य वर्ग ने भी उन्हें पटकनी देनी की टान ली है। मोदी ने कहा कि योगी सरकार का ही प्रयास है कि इस क्षेत्र में दिमागी बुखार काबू में आया है। ज्यदा से ज्यदा बच्चों का जीवन बच रहा है। कुछ समय पहले मुझे यूपी में 9 मंडिकल कालेजों का एक साथ

**प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि पूरी दुनिया को, पूरी मानवजाति को कोरोना महामारी ने अपनी चपेट में लिया। संकट के इस समय परिवारवादियों ने आपकी सहायता करने के बजाए, आपको डराना, चिंता में रखने का काम किया।**

लोकार्पण करने का मौका मिला था। देवरिया का महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कालेज भी इसमें शामिल है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि पूरी दुनिया को, पूरी मानवजाति को कोरोना महामारी ने अपनी चपेट में लिया। संकट के इस समय परिवारवादियों ने आपकी सहायता करने के बजाए, आपको डराना, चिंता में रखने का काम किया। मोदी ने कहा कि ये डबल इंजन की सरकार है जो यूपी के 9 करोड़ से अधिक पिछड़ों को, 3 करोड़ दलित भाई-बहनों को और सामान्य वर्ग के 3



करोड़ परिवारों को मुफ्त राशन दे रही है। मुश्किल के समय में अपना ही साथ देता है। जो परया होता है वो इन घोर परिवारवादियों की तरह घर में बैठ जाता है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि चीनी मिलों को इन परिवारवादियों के शासन में बंद करा दिया गया। देवरिया का हमारा गन्ना किसान कभी नहीं भूल सकता है कैसे वो अपनी उपज, विचौलियों को बेचने के लिए मजबूर था। गन्ने की पच्ची के लिए कभी लाठी तो कभी अपमान सहना पड़ता था। भाजपा नेता ने कहा कि योगी

आदित्यनाथ की सरकार में नई चीनी मिलें खोली जा रही हैं, चीनी मिलों को आर्थिक हालत सुधारी जा रही है। गन्ना किसानों की आय बढ़े इसके लिए इथेनॉल ब्लेंडिंग का काम भी तेजी से बढ़ाया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि पहले गोरखपुर में जो खाद कारखाना बंद हुआ उसे शुरू कराने के लिए सांसद के तौर पर योगी जी ने बहुत मेहनत की, लेकिन परिवारवादियों ने ये काम होने नहीं दिया। आज गोरखपुर का फर्टिलाइजर प्लांट यहां का गौरव बढ़ा रहा है, किसानों की दिक्कतें कम कर रहा है। मोदी ने कहा कि हमारी सरकार पानी की बाढ़ और अवैध कब्जे की बाढ़ दोनों को रोकने का काम कर रही है। भाजपा सरकार अब ऐसी व्यवस्था बना रही है कि अब कोई अपराधी किसी गरीब के घर की तरफ आंख उठाकर नहीं देख पाए। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार का मंत्र है- सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास।

**2011 से कर रहा था स्वामी प्रसाद मौर्य का इंतजार, पहले आ जाते तो बुरे दिन नहीं देखने पड़ते:अखिलेश**

**एजेंसी**

**लखनऊ**। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर आरोप-प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। इन सब के बीच आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव फाजिलनगर पहुंचे थे। फाजिलनगर से समाजवादी पार्टी ने हाल में ही भाजपा छोड़ पार्टी में शामिल होने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य को टिकट दिया है।

स्वामी प्रसाद मौर्य परंपरागत रूप से पडरौना से ही चुनाव लड़ते थे। लेकिन इस बार उनकी सीट को बदलकर फाजिलनगर कर दिया गया है। फाजिलनगर चुनाव प्रचार में अखिलेश यादव ने कहा कि मैं तो स्वामी प्रसाद मौर्य का इंतजार 2011 से ही कर रहा था। अगर वह उस समय आ गए होते तो हमें 5 साल बुरे दिन नहीं देखने पड़ते। अगर यह 2017 में आए होते तो आज उत्तर प्रदेश आगे दिखाई देता। अखिलेश ने कहा कि मुझे पता है कि फाजिलनगर के लोग किसी की गर्मी



निकाल देगे। न केवल गर्मी निकालेंगे बल्कि स्वामी प्रसाद मौर्य के आने के बाद बीजेपी की भाप निकल जाएगी। भाजपा पर हमला करते हुए अखिलेश ने कहा कि वे परेशान हैं।

वे उस दिन को याद नहीं कर सकते जब स्वामी प्रसाद मौर्य हमारे साथ शामिल हुए थे। मैं 2011 से इंतजार कर रहा था। अगर वह बसपा छोड़ने के बाद हमारे साथ शामिल होते, तो हमें 5 साल के लिए बुरे दिन देखने की जरूरत नहीं होती। 2017 में हमारे साथ आए होते तो यूपी आज आगे होता। पहले जब हम विधानसभा में एक दूसरे के सामने बैठते थे तो वह (स्वामी प्रसाद मौर्य) विपक्ष की ओर से बोलते थे।

**यूकेन से सुरक्षित निकाले गए कर्नाटक के 30 छात्र, सरकार ने दी जानकारी**

**एजेंसी**

**बेंगलुरु**। कर्नाटक सरकार ने रविवार को कहा कि राज्य के करीब 30 छात्रों को युद्धग्रस्त यूक्रेन से सुरक्षित निकाल लिया गया है। कर्नाटक राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (केएसडीएमए) ने कहा कि अब तक प्राप्त अभिवेदन के अनुसार, लगभग 397 लोग यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जिनमें से 129 लोग बेंगलुरु से हैं। केएसडीएमए के नोडल अधिकारी और आयुक्त मनोज राजन ने एक बयान में कहा, यूक्रेन के बीच में स्थित भारतीय दूतावास ने फंसे हुए भारतीय नागरिकों को निकालना शुरू कर दिया है। ऑपरेशन गंगा के तहत संचालित निकासी उड़ानों के जरिये यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को



सीमावर्ती देशों- रोमानिया, बुडापेस्ट, बुखारेस्ट, आदि के माध्यम से निकालने का काम शुरू कर दिया गया है। कर्नाटक के लगभग 30 छात्रों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। इस बीच, 12 छात्रों का पहला समूह आज सुबह 8.40 बजे मुंबई से बेंगलुरु अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पहुंचा। केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी, राज्य के राजस्व मंत्री आर अशोक और नोडल अधिकारी राजन ने यहां हवाई अड्डे पर पहुंचने वाले छात्रों का स्वागत किया।

**रोजगार दिवस पर 268 हितग्राहियों को 6742 लाख रुपए का ऋण वितरण स्वीकृत पत्र प्रदान**

**ब्रज कुमार राठौर / NCR समाचार**

जिला मुख्यालय के BK SN शासकीय महाविद्यालय में आयोजित हुए रोजगार दिवस पर 268 हितग्राहियों को 6 करोड़ 74 लाख 20000 रुपए के ऋण विक्रांत स्वीकृत पत्र प्रदान किए गए।

इस मौके पर प्रदेश के स्कूल शिक्षा स्वतंत्र प्रभार एवं सामान्य प्रशासन राज्यमंत्री इंद्र सिंह परमार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे कार्यक्रम में कलेक्टर श्री दिनेश जैन श्री अंबाराम कराडा पूर्व विधायक श्री इंद्र सिंह गोली, श्री श्याम टेलर, नगर अध्यक्ष नवीन राठौर, विजय सिंह, बेस विपुल कसेरा, श्री आकाश शर्मा, श्री विजय जोशी, सहित गणमान्य नागरिक



उपस्थित थे, रोजगार दिवस पर आयोजित हुए रोजगार मेले में शासन की विभिन्न योजनाओं के तहत बैंकों द्वारा 268 हितग्राहियों को 6 करोड़ 74 लाख ₹20000 के ऋण स्वीकृत पत्र वितरण किए गए, इसी तरह रोजगार

मेले में 10 कंपनियों ने हिस्सा लिया जिनके द्वारा 125 व्यक्तियों को रोजगार ऑफर पर दिया गया। रोजगार मेले में श्याम सिंघोरिया देवास नवभारत फर्टिलाइजर भोपाल SGS मेन पावर एंड प्लेसमेंट सर्विस इंदौर एडवांटेज

आई. सेक्ट भोपाल वजीर एडवाइजर भोपाल मैजिक ग्री बायोटेक इंदौर बेनमून फार्मा रिसर्च देवास सिद्धिविनायक प्लेसमेंट इंदौर आयशर पीथमपुर आयशर शाजापुर ने हिस्सा लिया कार्यक्रम के प्रारंभ में कलेक्टर श्री जैन ने स्वागत उद्बोधन देते हुए जिले में रोजगार मेले के द्वारा उपलब्ध कराए गए स्वरोजगार और रोजगार की जानकारी दी।

कार्यक्रम के दौरान शहडोल में राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा दिए गए उद्बोधन का सीधा प्रसारण किया गया कार्यक्रम के अंत में जिला रोजगार अधिकारी जितेंद्र निगवाल ने सभी का आभार माना।

**नारी शक्ति का प्रतीक छात्राएं पढ़ेंगी तब समाज में अंधकार से उजाला की ज्योति जगाएगी**

**संजय कुमार / NCR समाचार**

सीमावर्ती क्षेत्र के रा.मा.वि.आगन शाह का तला में साइकिल वितरण समारोह में श्रीमान मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी धनाऊ चतरा राम पंवार ने कहा नारी शक्ति का प्रतीक छात्राएं पढ़ेंगी तब समाज में अंधकार से उजाला की ज्योति जगाएगी। श्रीमान पंवार ने कहा राज्य सरकार द्वारा छात्राओं के लिए कई कल्याणकारी योजना लागू की है, जिसका फायदा उठाने के लिए ज्यदातर बालिकाओं को पढ़ाना होगा।



संस्कंध व्यक्ति अचलाराम धाघल ने कहा कि कई बालिकाएं छात्रियों और मोहल्लो से पैदल आती थी उनके लिए साइकिल योजना वरदान साबित हो रही है। इस की तीन बालिकाएं एक

पंचायत समिति सदस्य सिंधु देवी ने छात्राओं को माला पहनाकर राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली साइकिल का वितरण किया। वार्ड पंच पारस कंवर ने छात्राओं को अधिक से अधिक विद्यालय आने के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर S.M.C अध्यक्ष अमोलखराम कागा, उपसरपंच आम्बा राम, SDMC के पीरदान सिंह, जीवराज सिंह, मोहनलाल, शक्ति सिंह, चरन सिंह, विद्यालय स्टाफ श्रीमती शकुंतला शर्मा, साइकिल प्रभारी बलराम जाट, पंचत सिंह, राजेंद्र गौड़, ओमप्रकाश शर्मा, पवन कुमार लोधा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सुपानी देवी, आशा चंद्रा देवी एवं समाजसेवी खीमसिंह, तगसिंह, आदि मौजूद रहे।

**गहलोत सरकार यूकेन में फंसे छात्रों को घर वापसी लाने तक का खर्चा उठाएगी**

**महावीर घोषी / NCR समाचार**

गहलोत सरकार निजी खर्च से वतन वापस आने वाले राजस्थानियों के टिकट की राशि का पुनर्भरण करेगी। साथ में दिल्ली, मुंबई तथा अन्य एयरपोर्ट्स पर आने वाले राजस्थानियों को घर तक पहुंचाने की सुविधा राज्य सरकार करारपी। सीएम गहलोत ने ट्वीट करके राजस्थान फाउंडेशन के आयुक्त धीरज श्रीवास्तव को निर्देश जारी किए हैं। उल्लेखनीय है कि रूस द्वारा यूक्रेन पर हमला करने की वजह से विभिन्न पाठ्यक्रमों की पढ़ाई करने गए छात्रों को यूक्रेन में छात्र फंसे हुए हैं। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि यूक्रेन और रूस के बीच बने युद्ध के हालात के दौरान विदेश मंत्रालय की एडवाइजरी के बाद निजी खर्च से वतन वापस आने वाले राजस्थानियों के टिकट की राशि का पुनर्भरण



किया जाएगा। दिल्ली, मुंबई और अन्य एयरपोर्ट्स पर आने वाले राजस्थानियों को घर तक पहुंचाने की सुविधा राजस्थान सरकार की ओर से करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए राजस्थान फाउंडेशन को-ऑर्डिनेट करेगा, सीएम गहलोत ने कहा कि यूक्रेन से अपने खर्च पर वापस आने वाले स्टूडेंट का पुनर्भरण सरकार की तरफ से किया जाएगा।

**चंद्रशेखर आजाद की 91वीं पुण्यतिथि पर उनको शत-शत नमन**




**अंशुप्रिया / NCR समाचार**

**नई दिल्ली**

आज हम उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें याद करने के लिए उनके कुछ प्रेरणादायक उद्धरण साझा कर रहे हैं। आज हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद की 91वां पुण्यतिथि है। उनका जन्म 23 जुलाई, 1906 को अलीराजपुर रियासत के भावरा गाँव में पंडित सीताराम तिवारी और जागरण देवी के यहाँ हुआ था। 27 फरवरी, 1931 को इलाहाबाद के अलफ्रेड पार्क में उनकी मृत्यु हो गई, जब वे अपना और सुखदेव राज का बचाव कर रहे थे। उस समय सुखदेव

राज भाग गया, लेकिन चंद्रशेखर आजाद नहीं गया। दुश्मनों द्वारा जिंदा पकड़े जाने की अपनी प्रतिज्ञा पर खरे उतरते हुए उन्होंने अपनी आखिरी गोली से खुद को गोली मार ली। वह भगत सिंह के करीबी सहयोगी थे। 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन डकैती का हिस्सा बनने के बाद वह लोकप्रिय हो गए। उन्होंने 1928 में HRA को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA) में बदल दिया था। साथ ही, उन्होंने सहायक पुलिस अधीक्षक, जॉन सैंडर्स की हत्या कर दी थी। चंद्रशेखर आजाद का कहना: अगर आपका खून नहीं रोंता है, तो यह पानी है जो आपको



नस में बहता है। मैं एक ऐसे धर्म में विश्वास करता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का प्रचार करता है। दुश्मनों को अपने से बेहतर करते हुए हम आजाद हैं और आजाद रहेंगे, मैंने को तोड़े क्योंकि सफलता आपके और आपके बीच की लड़ाई है, एक विमान

जमीन पर हमेशा सुरक्षित रहता है, लेकिन यह उसके लिए नहीं बना है। महान ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए धर्म में हमेशा कुछ सार्थक जोखिम उठाएं। ऐसी जवानी किसी काम की नहीं जो अपनी मातृभूमि के काम न आ जाए, यदि कोई राष्ट्र के प्रति समर्पित नहीं है तो उसका जीवन व्यर्थ है। मेरा नाम आजाद मेरे पिता का नाम स्वाधीन और मेरा घर जेल है, दुश्मनों की गोलियों का सामना करेंगे हम आजाद हैं और आजाद रहेंगे, मैंने ऐसे धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्र, सामंत और भाईचारा सिखाता है।

**श्रमजीवी पत्रकार संघ की जिलास्तरीय बैठक संपन्न**



**ब्रज कुमार राठौर / NCR समाचार**

शुजालपुर गुलाना आज शुजालपुर के गुलाना में श्रमजीवी पत्रकार संघ की जिला कार्यकारिणी की वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में श्रमजीवी पत्रकार संघ के जिलाध्यक्ष मनोज जैन पत्रकार, अभिषेक सक्सेना, उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में जिले कार्यकारिणी सहित सभी ब्लॉक अध्यक्षों की घोषणा की गई, इसके साथ ही सभी पत्रकार साथियों ने जिलाध्यक्ष मनोज जैन का जन्मदिन मनाते हुए उनका पुष्प मालाओं से स्वागत किया। इस कार्यक्रम में पत्रकार पुरूषोत्तम पारवानी ने मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पत्रकारों की सहायक योजनाओं के बारे में विस्तार से पत्रकारों को बताया। इसके बाद सहभोज के साथ इस कार्यक्रम का समापन किया गया।

**'शाहजबी काजी' संग कुछ युवाओं ने बच्चों की शिक्षा और कला को निखारने के लिए उठाया कदम**



**नमिता चौहान / एनसीआर समाचार**

साकेत पुष्प विहार की झुग्गियों में कुछ लड़कों ने निकलकर झुग्गी में रहने वाले बच्चों की शिक्षा और कला को निखारने के लिए कदम उठाया। झुग्गियों में रहने वाले बच्चे अक्सर आपको गली, नुकड़, सड़क पर यूँ ही 2-4 रुपयों के लिए भटकते हुए दिख जायेंगे, जिस कारण कई बार वो रोड एक्सीडेंट का शिकार भी हो जाते हैं। इन्हीं दुर्घटनाओं से बच्चों को बचाने और उनका भविष्य सुधारने के लिए कुछ युवाओं ने पहल की है। आपको बता दें कि इन युवाओं के पीछे सबसे

बड़ा हाथ है एक समाज सेविका 'शाहजबी काजी' का, जो इन युवाओं को फण्ड भी देती है और साथ ही खुद भी समाज सेवा से पीछे नहीं हटती। बहुत कम ही ऐसे लोग होते हैं जो झुग्गी में रहने वाले बच्चों के लिए कुछ सोचते हैं उनके लिए कुछ करते हैं, क्योंकि इस भागदौड़ भरी जिंदगी में किसी के पास इतना समय नहीं है की कोई अपना समय निकलकर दूसरों के लिए कुछ करे। ज्यदातर लोग कुछ न कुछ सामान लाते हैं और बांटकर चले जाते हैं, कोई भी अपना निजी वक्त किसी के बेहतर भविष्य के लिए नहीं निकालता।

**संक्षिप्त समाचार**

**डॉ. कुँवर विजय शाह के आदेश, वन विभाग का भवन निर्माण नवम्बर तक हर हाल में पूरा किया जाये**

**देवेन्द्र कुमार जैन / NCR समाचार**

वन मंत्री डॉ. कुँवर विजय शाह ने कहा है कि भोपाल में बन रहे वन विभाग के भवन का कार्य इस वर्ष नवम्बर तक हर हाल में पूर्ण किया जाये। वन मंत्री डॉ. शाह मंत्रालय में विभागीय निर्माण कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। वन मंत्री डॉ. शाह ने भवन निर्माण कार्य की धीमी गति पर असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य की धीमी गति से शासन पर अनावश्यक रूप से अतिरिक्त वित्तीय भार आता है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक और निर्माणाधीन भवन के प्रभारी श्री सुनील अग्रवाल ने बताया कि तुलसी नगर लिंक रोड दो में प्रस्तावित भवन के लिये 158 करोड़ रुपये की मंजूरी विभाग को मिली है। अब तक लगभग 64 करोड़ रुपये के कार्य किये जा चुके हैं। श्री अग्रवाल ने आश्चर्य व्यक्त किया कि तय अवधि में निर्माण एजेंसी म.प्र. पर्यटन विकास बोर्ड द्वारा यह कार्य पूरा करा लिया जायेगा। प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन दल प्रमुख श्री R.K. Gupta सहित विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद थे।



**काँग्रेस का घर चलो घर घर चलो अभियान**

**नूर मोहम्मद शेख / एनसीआर समाचार**

खतेगांव विधानसभा 173 के अजनास ब्लॉक के मालसगोद, उमरिया कंजीपुरा में मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ सिंह के निर्देश अनुसार घर चलो घर घर चलो अभियान के अंतर्गत कांग्रेस जन घर घर पहुँच कर कांग्रेस द्वारा 15 माह में किये गये कार्यों से अवगत कराया। साथ ही बढ़ती महंगाई, किसानों और आम जन महंगाई से ग्रस्त है इस बारे में विस्तार से चर्चा की। इस अवसर पर विधानसभा प्रत्याशी 2018 डॉ. ओम पटेल, घर चलो घर घर चलो ब्लॉक संयोजक श्री महेश जी दीक्षित, सेक्टर प्रभारी रामगोपाल जी कुड़िया किसान कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष चिमना जी बाता, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष अजय जी गुर्जर, विनोद जी चावडा नूर भाई जनपद सदस्य नरेन्द्र जी राजावत किसान कांग्रेस अजनास ब्लॉक अध्यक्ष सन्धी जी गुर्जर। पिछड़ा वर्ग ब्लॉक अध्यक्ष मुकेश पटेल खारदा पप्पु पटेल ईश्वर सिंह दरबार अनिल जी जानी कमलेश राठौर सत्यनारायण ग्वाला कपिल जानी संकर बलाइडा देवलाल मुंडेल सहित कांग्रेस जन सम्मिलित हुए उक्त जानकारी अजनास ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष राजेश बिश्नोई ने दी।



**भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के अध्यक्ष शैलू पंडित पर हुआ हमला**

**अभिषेक शर्मा / NCR समाचार**

सतो हलवाई पर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष शैलू पंडित कर रहे थे, अपने कुछ साथियों के साथ नाश्ता कर रहे थे, ठीक उसी समय कुछ मुस्लिम समाज के लोगों ने हमला किया। कर दिया हमला उसी समय शाहगंज बाजार में अफरा-तफरी मचने लगी। बता दे की कुछ साल पहले एक महिला के मरने को लेकर मुस्लिम पक्ष से हुआ था झगड़ा उसी झगड़े को आज अंजाम दिया गया है, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष शैलू पंडित पर हमले के बाद उनकी गाड़ी भी कर दी क्षतिग्रस्त।



**चार निजी प्रयोगशालाओं को जीनोम परीक्षण के लिए मिली मंजूरी**

**ताजुद्दीन अत्तरवाले / NCR समाचार**

बेंगलुरु केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कोविड-19 नमूनों की जीनोम अनुक्रमण करने के लिए देश भर की छह निजी प्रयोगशालाओं को मंजूरी दी है। इनमें से चार बेंगलुरु के हैं। भारतीय SARS-Cov-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम (INSACOG) ने स्ट्रैंड लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड को मंजूरी दे दी है। लिमिटेड, जीनोटाइपिक टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, मेडजेनोम, और यूरोफिन्स जीनोमिक्स इंडिया लिमिटेड कैरिंगडेक्स, महाजन इमेजिंग लिमिटेड, नई दिल्ली, और न्यूबर्ग सुप्राटेक रेफरेंस लैब्स लिमिटेड, अहमदाबाद, अन्य दो प्रयोगशालाएँ हैं जिन्हें अनुमोदित किया गया है।

**कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत चेकिंग के दौरान की गई कार्यवाही**

**प्रियम शुक्ला / NCR समाचार**

जनपद में लाकडाउन के दृष्टिगत सरकार द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुपालन के क्रम में कोशांबी पुलिस अधीक्षक कोशांबी के निर्देशानुसार जनपद स्तर पर विभिन्न थानों द्वारा अनावश्यक रूप से बाहर घूमने / मास्क न लगाने एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वालों के विरुद्ध 50 बैरिस्टर / नाकों एवं थाना क्षेत्रों में पुलिस द्वारा सघन चेकिंग की गई, चेकिंग के दौरान दो-पहिया / चार पहिया वाहनों को चेक किया गया, जिनमें 09 वाहनों का इ-चालान किया गया।

**दुष्कर्म वांछित अभियुक्त गिरफ्तार**

**प्रियम शुक्ला / NCR समाचार**

कोशांबी जनपद थाना चरवा पुलिस उप निरीक्षक आदित्य कुमार मय हमराद पुलिस बल द्वारा मु0आ0सं0 186/2021 धारा 376 (3) /363/366 भादवि व 7/8 पाकसो एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त कमल त्रिपाठी पुत्र दिनेश त्रिपाठी निवासी जलालपुर थाना चरवा जनपद कोशांबी उम्र करीब 26 वर्ष को चौराडीह बाजार से समय करीब 11.30 बजे गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही के पश्चात अभियुक्त को चालान कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

**वसुंधरा राजे सिंधिया की धार्मिक देव दर्शन यात्रा का दूसरा फेज 8 मार्च को शुरू होगा**

**महावीर घोषी / NCR समाचार**

राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया का जन्मदिन अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को आता है। इस साल राजे अपना 69वां जन्मदिन मनाएंगीं, जन्मदिन हाड़ौती के केशोरायपाटन मंदिर (बूंदी) में मनाया जायेगा।

भारतीय जनता पार्टी (BJP) के कोटा-बूंदी के कार्यकर्ताओं की बैठक गुरुवार कुन्हाड़ी स्थित एक निजी रिसोर्ट में आयोजित की गई थी, जिसमें बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे, बैठक में मुख्य अतिथि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी थे। वसुंधरा राजे का जन्म 8 मार्च 1953 को मुंबई में हुआ था। वसुंधरा राजे ग्वालियर राजधराने से संबंध रखती हैं और माधव राव सिंधिया की बहन हैं इनके पिता जीवाजी राव सिंधिया ग्वालियर के महाराज थे। इनकी शादी 17 नवंबर



1972 को धौलपुर के जाट राजधराने से संबंध रखने वाले हेमंत सिंह से हुई थी। लेकिन एक साल बाद ही दोनों अलग हो गए। उसके बाद वसुंधरा राजे ने 1984 में राजनीति में कदम रखा। इसके बाद वो धौलपुर विधानसभा से चुनकर आई थीं। वसुंधरा राजे भाजपा में कई बड़े पदों पर भी रही हैं। इससे पहले 2003 से 2008 तक वसुंधरा राजे राजस्थान की मुख्यमंत्री रहे चुकी हैं।

लोकसभा में भाजपा को भारी बहुमत मिला। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वसुंधरा राजे को विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री का पद दिया गया था। वसुंधरा राजे झालावार विधानसभा से चुनकर आई थीं। वसुंधरा राजे भाजपा में कई बड़े पदों पर भी रही हैं। इससे पहले 2003 से 2008 तक वसुंधरा राजे राजस्थान की मुख्यमंत्री रहे चुकी हैं।

**जिला के कलेक्टर का कहना अब सर्दी खतम हो चुकी है और मौसम भी अच्छा है इसलिए हमें दिन रात काम करना चाहिए**

**मुकेश हरयाणी / NCR समाचार**

सागर। अब सर्दी खतम हो गई है, और मौसम भी साफ है इसलिए दिन-रात काम किया जाए। स्टोन पिचिंग के काम में गति लाने के लिए अभी और टीमें बढ़ाने की जरूरत है। उक्त निर्देश गुरुवार को कलेक्टर सह अध्यक्ष SSSL दीपक आर्य ने निर्माण एजेंसी को दिए। वे नगर निगम आयुक्त सह कार्यकारी निर्देशक SSCL आरपी अहिरवार और स्मार्ट सिटी CEO राहुल सिंह राजपूत के साथ लाखा बंजारा झील कायाकल्प परियोजना की समीक्षा कर रहे थे। समीक्षा के दौरान कलेक्टर सह अध्यक्ष SSCL दीपक आर्य ने झील में चल रहे प्रत्येक काम की प्रगति की जानकारी ली और तय समय-सीमा में सभी काम पूरे करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अब मौसम में गर्मी बढ़ रही है। काम की



गति बढ़ाने के लिए दिन के साथ रात में भी काम करना होगा। उन्होंने कहा कि इंबैकमेंट में स्टोन पिचिंग के काम में बहुत समय लगता है इसलिए इस काम को समय-सीमा में पूरा करने के लिए दिन-रात काम किया जाए और टीमों बढ़ाकर अलग-अलग स्थानों पर एक साथ काम शुरू करें। उन्होंने

इस दौरान निर्माण एजेंसी के प्रतिनिधि ने बताया कि इंबैकमेंट का काम लगभग पूरा हो गया था। जो थोड़ा काम बचा है, उसे भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा। इस पर कलेक्टर श्री आर्य ने निर्देश दिए कि जहां-जहां इंबैकमेंट का काम पूरा होता जाए, वहां घाट निर्माण का काम भी शुरू कर दें। कलेक्टर सह अध्यक्ष SSCL श्री दीपक आर्य ने सख्त निर्देश दिए कि काम में गति लाई जाए और समय-सीमा में सभी काम पूरे होने चाहिए। किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि कोई रुकावट या परेशानी आए तो तत्काल अधिकारियों के संज्ञान में लाएं, जिससे तुरंत समाधान किया जा सके और काम न रुके, बैठक के दौरान स्मार्ट सिटी और पीएमसी के इंजीनियर्स और निर्माण एजेंसी के प्रतिनिधि मौजूद थे।

**दिनेश जैन ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र व्यवस्थाओं का लिया जायजा**

**ब्रज कुमार राठौर / NCR समाचार**

कलेक्टर श्री दिनेश जैन ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कालापीपल का आकस्मिक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का लिया जायजा और सुधार के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए निरीक्षण के दौरान उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कालापीपल में दवाइयों की पर्याप्त व्यवस्था एवं वितरण के बारे में जानकारी ली, यहां उन्होंने मरीजों को कंप्यूटराईज्ड, ओपीडी, पर्चों, के वितरण करने के निर्देश दिए। अस्पताल में आने वाले मरीजों की संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त की कोविड-19 केयर सेंटर के निरीक्षण के दौरान उन्होंने BMO को मरीजों के लिए बनाए गए वार्ड में ऑक्सीजन पाइप लाइन को चेक करने

के निर्देश दिए साथ ही उन्होंने बच्चों के लिए बनाए जा रहे ICU वार्ड जनरल वार्ड लेब एक्सरे रूम आदि का निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश दिए साथ ही अस्पताल में साफ-सफाई रखने एवं डस्टबिन का उपयोग करने के निर्देश दिए। मरीजों से बात कर उनका हाल-चाल जाना कलेक्टर श्री जैन ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कालापीपल में इलाज कराने आई ग्राम रामपुरा की हरकू बाई से उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली हरकूबाई ने बताया कि अस्पताल में उनका इलाज अच्छा हो रहा है इसी तरह ग्राम गुनपीपली के राधेश्याम ने बताया कि वह अपनी बहू की डिलीवरी के लिए अस्पताल आए थे उन्हें स्वास्थ्य केंद्र में बेहतर सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं।

**मूर्ति लगाने के अवैध कार्यों पर डीसी सुनील ने नगर निगम को दिया नोटिस**

**ताजुद्दीन अतरवाले / NCR समाचार**

विजयपुरा शहर के इटागी पेट्रोल पंप संकलन में स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थापित करने के लिए कुछ अज्ञात लोगों को मंच विकसित करने की अनुमति देने के लिए जिला प्रशासन ने विजयपुरा नगर निगम के आयुक्त को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अज्ञात लोगों ने इटागी प्मूल स्टेशन जंक्शन पर एक नई डामर सड़क खोद ली है और एक मूर्ति स्थापित करने के लिए एक बुनियादी ढांचा विकसित किया है। दिलचस्प बात यह है कि न तो नगर निगम और न ही लोक निर्माण विभाग (PWD) द्वारा



काम कराया जा रहा है। यह बात जिला प्रशासन के संज्ञान में तभी आई जब लोगों के एक समूह ने उपायुक्त के पास एक शिकायत देकर अपने समुदाय के एक नेता की प्रतिमा स्थापित करने की अनुमति देने का अनुरोध किया। DC यह पढ़कर हैरान रह गए कि अधिकारी प्रतिमा स्थापित करने के लिए नए काम कर रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ है। उपायुक्त पी.सुनील

**पल्स पोलियो अभियान शुरू, 2 लाख बच्चों को पिलाई जाएगी दो बूंद जिंदगी की**



**मुकेश हरयाणी / NCR समाचार**

सागर/27 फरवरी से 1 मार्च तक संचालित होने वाले पल्स पोलियो अभियान में जिले के 2 लाख बच्चों को दो बूंद जिंदगी की पिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पल्स पोलियो की खुरकत ज़ीरो से 5 वर्ष आयु तक के बच्चों को पिलाई जाएगी। इसी अनुक्रम में स्वास्थ्य विभाग,सागर द्वारा पल्स पोलियो अभियान अन्तर्गत जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। जागरूकता रैली को संसद राजबहादुर सिंह, ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली सिविल लाइन से प्रारंभ

होकर गोपालगंज, तीन मड़िया, परकोटा, तीन बत्ती, कटरा मस्जिद एवं राधा टॉकीज होते हुए CMHO कार्यालय में समाप्त हुई। इस अवसर पर डॉ सुरेश बौद्ध CMHO, डॉ.एस आर रोशन, डॉ नीना मिडियन, डॉ. ज्योति चौहान सिविल सर्जन, डॉ. सुनील जैन, डॉ. मुन्ना लाल जैन, डॉ. विपिन खटीक, डॉ.आशीष शास्त्री, उमाकांत चौबे, हेमराज अहिरवार,आर.के.जड़िया, प्रदीप तिवारी, एम एल रोहतसस एवं श्री सुशील यादव सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

**पैंशनरों को दी गई अहम जानकारी**



**ज्ञान चव्वा / NCR समाचार**

पैंशनर्स को अहम जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI की मुख्य ब्रांच में मैनेजर लवकेश कुमार ने मीटिंग कर पैंशनरों की अहम जानकारी दी। इस दौरान पैंशनरों OTP संबंधी A,T,M कार्ड के सही प्रयोग व संपाल, अपने खाते के पैसे FD के रूप में रखने संबंधी जानकारी दी गई। इस दौरान अध्यक्ष महावीर प्रसाद शर्मा, रणजीत सिंह ,वीर राम, बाबू राम, हरबंस लाल, हरचरण सिंह, राजेंद्र बठाला, जगसीर सिंह, जोगेंद्र सिंह, राम सरूप व मनजीत सिंह उपस्थित थे।

**बिना अनुमति नहीं होगा किसी भी तरह का कोई आयोजन**

**जसपाल सिंह ठाकुर / NCR समाचार**

जबलपुर जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी ने कोविड-19 के संक्रमण तथा महाशिवरात्रि, होलिकात्सव, रंगपंचमी, चैत्र नवरात्रि एवं अम्बेडकर जयंती जैसे आगामी त्योहारों के महेंज-एर दण्ड प्रक्रिया सँज्ञता की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। प्रतिबंधात्मक आदेश में सभी प्रकार के आयोजनों के लिये प्रशासनिक अधिकारियों से पूर्व अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य किया गया है। आदेश में कहा गया है कि अनुमति प्राप्त नहीं होने पर आयोजनों को अवैधानिक घोषित करते हुये आयोजनकर्ताओं पर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।आदेश में संपूर्ण जिले के मोटर साइकिल रैली के आयोजन को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है।

जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेश के मुताबिक सभी प्रकार के आयोजनों में ऐसे नारे अथवा शब्दों का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा। जिनसे किसी भी धर्म, जाति या वर्ग की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचती हो। ऐसा पाये जाने की दशा में संबंधित जूटिकर्ता के साथ-साथ कार्यक्रम के आयोजकों का उत्तरदायित्व निर्धारित किया उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्यवाही की जायेगी। आदेश में मकान एवं दुकान मालिकों के लिये घरेलू एवं व्यावसायिक नौकरों की सूचना संबंधित पुलिस थाने में देना अनिवार्य किया गया है। इसी प्रकार होटल, लॉज एवं धर्मशाला में रुकने वाले व्यक्तियों से पहचान पत्र लेने एवं विहित प्रारूप में इसकी सूचना संबंधित पुलिस थाने में देने की अनिवार्यता होटल, धर्मशाला एवं लॉज मालिकों के लिये की गई है।

**संक्षिप्त समाचार**

**शारदा मंदिर पर संत शिरोमणि गाडगे महाराज की जयंती मनाई गई**

**मुकेश हरयानी / NCR समाचार**  
सागर छावनी क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 7 में शारदा मंदिर पर संत शिरोमणि गाडगे महाराज जी की जयंती मनाई गई, जिसमें बड़ी संख्या में सजातीय बंधुओं उपस्थित रहे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ऑल इंडिया कैटोनमेट बोर्ड एसोसिएशन के उपाध्यक्ष श्री वीरेंद्र पटेल छावनी परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष श्री शेखर चौधरी जी रहे कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वीरेंद्र पटेल ने गाडगे महाराज के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि महाराज जी हमें एक शीश देकर गए हैं जो हमें यह दिखाती है कि शिक्षा के बिना विकसित राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता है शिक्षा से ही वर्तमान के साथ भविष्य में सुरक्षित हो सकता है, महाराज जी का कहना था, एक वक्त भूखे रह लेना परंतु शिक्षित जरूर होना एवं सफाई पर भी जोर दिया जिसका पालन हम सब को करना चाहिए इस अवसर पर वीरेंद्र पटेल शेखर चौधरी विनोद कनौजिया रवि कनौजिया प्रमोद कनौजिया संजू कनौजिया संदीप कनौजिया राजेश कनौजिया किशोर कनौजिया प्रवीण कनौजिया अशोक रजक विजय रजक आदि बड़ी संख्या में समाज के मुखिया महिलाएं उपस्थित रहे।



**सबौर प्रखंड के ग्राम पंचायत में आम जनसभा का हुआ आयोजन**

**शिवेश श्रीवास्तव / एनसीआर समाचार**  
कल दिनांक 23/2/2022 भागलपुर जिले के सबौर प्रखंड के ग्राम पंचायत ममलखा में आम सभा का आयोजन किया गया, जिसका नेतृत्व मुखिया श्री अभिषेक अरनव जी के सांख्यिक में हुआ और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। वहां उपस्थित सभी वार्ड मेंबर पंचायत समिति और सरपंच एवं ग्रामीण जनता उपस्थित रहे।



**हरदोई SP राजेश द्विवेदी द्वारा निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने हेतु अर्ध सैनिक एवं पुलिस बल को ब्रीफ किया गया**

**शाहवाज हुसैन / NCR समाचार**  
मतदान प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं सफुशल संपन्न कराने के लिए आज दिनांक 23.02.2022 को पुलिस लाइन हरदोई में जिला अधिकारी अविनाश कुमार व पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी द्वारा मतदान प्रक्रिया में लगने वाले समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी को इयूटी के लिए ब्रीफ किया गया। मतदान प्रक्रिया के लिए अर्ध सैनिक बल की 125 कंपनी, 1प्लाटून सिविल पुलिस के विभिन्न जनपदों से आए 622 निरीक्षक/उपनिरीक्षक 6470 आरक्षी/मुख्य आरक्षी तथा 5226 होमगार्ड की इयूटी लगाई गई जनपद को 18 जून व 194 सेक्टर में विभाजित किया गया। जनपद की 8 विधानसभाओं में 2114 मतदान केंद्र तथा 3449 बूथ है जिन पर सैनिक पुलिस बल की इयूटी लगा दी गई है।



**स्व. हरिनारायण की पुण्यतिथि पर पुष्पांजली**

**मुकेश हरयानी / एनसीआर समाचार**  
किशनपुरा नदीश्वर धाम पर स्वर्गीय हरिनारायण वकील साहब की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर हजारों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि के रूप में पधारे मध्य प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव, पूर्व सांसद लक्ष्मीनारायण यादव, सांसद राजबहादुर सिंह, विधायक प्रदीप लारिया, पृथ्वीपुर विधायक शिशुपाल यादव, गुलाबसिंग राजपूत, वहीं अन्य मुख्य अतिथियों ने स्व. हरिनारायण की फोटो पर पुष्पांजलि अर्पित की और कहा कि हरिनारायण जी ने अपना सारा जीवन समाज और लोगों की भलाई में निकाल दिया था। वहीं श्वेता यादव ने अपने पिता स्व. हरिनारायण यादव की पुण्यतिथि पर हरिनारायण वैरिटेबिल सोसाइटी की स्थापना की तथा वरिष्ठ जनों का सम्मान किया।



**जिले के पांच स्थानों पर महाशिवरात्रि मेला आयोजन के लिए अनुदान राशि स्वीकृत**

**ब्रज कुमार राठौर / NCR समाचार**  
मध्य प्रदेश तीर्थ स्थान मेला प्राधिकरण द्वारा जिले के पांच स्थानों पर महाशिवरात्रि मेला आयोजन की व्यवस्थाओं के लिए ₹460000 का अनुदान राशि स्वीकृत की गई, प्राप्त जानकारी के अनुसार शुजालपुर के जटाशंकर महादेव मेले के लिए ₹200000 लाख जनपद पंचायत मोहन बड़ोदिया के कुमारिया खास श्री मनकामेश्वर महादेव मंदिर एवं कालापौल ग्राम अली सरिया के भोले झूंगरी महाशिवरात्रि मेले के लिए ₹80 /80 हजार रुपये पोलाय कला के ग्राम फजलपुर के हिमालय ईश्वर मंदिर तथा पोलाय कला के ग्राम सेमली चाचा के हटकेश्वर महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि मेला आयोजन के लिए 50-50 हजार रुपए की अनुदान राशि सुकृत की गई।



**चोर ऊचककों के साथे में उगता अन्न**

**गजेंद्र कुमार शर्मा / NCR समाचार**  
रंगपुर पंचायत में लगने वाले गांव में ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है, गांवडी, गंगाईचा नॉर्दन बाई पास के समीप स्थित हैं, इस वजह से यहाँ कोटा शहर के अलावा बहुत दूर-दूर तक के यात्रियों का आवागमन तेजी से बढ़ा है। इसके चलते खेतों में सामानों की चोरी की वारदातें बढ़ी हैं। किसानों की माने तो हालात ये हैं कि खेत में कोई उपकरण नहीं रख सकते यदि गलती से रह भी गया तो अगले दिन मिलेगा नहीं।

**इंदौर विकास प्राधिकरण की बैठक संपन्न**

**देवराम ठाकुर / NCR समाचार**

इंदौर महानगर के विकास से संबंधित मुद्दों पर चर्चा एवं नगर के सुनियोजित विकास के लिए इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा हेतु आज इंदौर विकास प्राधिकरण के सभाकक्ष में बैठक आयोजित की गई। बैठक में जल संसाधन मंत्री श्री तुलसी सिलावट, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री सुश्री उषा ठाकुर, आईडीए के अध्यक्ष श्री जयपाल सिंह चावड़ा, विधायकगण श्री महेंद्र हांडिया, श्रीमती मालिनी गौड़ एवं श्री आकाश विजयवर्मा, श्रीमती कविता पाटीदार, श्री राजेश सोनकर, श्री गौरव रणदिवे, श्री सुदर्शन गुप्ता, श्री मधु वर्मा, श्री जीतू जिराती, कलेक्टर श्री मनीष सिंह, नगर निगम आयुक्त सुश्री प्रतिभा पाल, आईडीए के सीईओ श्री विवेक श्रोत्रिय एवं अन्य जनप्रतिनिधि तथा अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा इंदौर शहर के विकास के लिए की गई 11 ओवर ब्रिज बनाने की घोषणा के अनुरूप इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक में आईडीए के सीईओ श्री विवेक श्रोत्रिय द्वारा शहर में निर्माण हेतु चिन्हित किए गए 11 ओवर ब्रिज की



**इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक में आईडीए के सीईओ श्री विवेक श्रोत्रिय द्वारा शहर में निर्माण हेतु चिन्हित किए गए 11 ओवर ब्रिज की जानकारी दी गई तथा इंदौर में किए जा रहे मेट्रो निर्माण से इन फ्लाई ओवर ब्रिज के इंटीग्रेशन के संबंध में भी बताया गया।**

जानकारी दी गई तथा इंदौर में किए जा रहे मेट्रो निर्माण से इन फ्लाई ओवर ब्रिज के इंटीग्रेशन के संबंध में भी बताया गया। इस दौरान उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने लगभग 300 करोड़ रुपए की लागत से चार स्थानों पर निर्मित किए जा रहे फ्लाई ओवर ब्रिज जिनमें टट्या मामा चौराहा, लव कुश चौराहा, महाराणा प्रताप महु नाका एवं खजराना चौराहा शामिल हैं के

निर्माण विकल्पों पर विचार विमर्श किया गया। चर्चा उपरांत चारों फ्लाईओवर ब्रिज के लिए विकल्पों का चयन कर जनप्रतिनिधियों द्वारा ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए विस्तृत प्रस्ताव बनाने और बोर्ड को प्रस्तावों की मंजूरी हेतु भेजने के निर्देश दिए गये। बोर्ड की मंजूरी उपरांत ओवर ब्रिज के निर्माण हेतु टेंडर प्लोट किए जाएंगे। बैठक के दौरान

ओवरब्रिज के निर्माण के दौरान तकनीकी सुष्टि से आ रही कठिनाइयों, यातायात व्यवस्था आदि विषयों पर चर्चा की गई। बैठक में इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्यों को जनता की सुविधा और सुगमता अनुरूप किए जाने हेतु जनप्रतिनिधियों द्वारा विभिन्न सुझाव भी दिए गए। आईडीए अध्यक्ष श्री चावड़ा ने जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर कलेक्टर श्री मनीष सिंह एवं नगर निगम आयुक्त सुश्री प्रतिभा पाल द्वारा इंदौर को पूरे भारत में स्वच्छता के क्षेत्र में सम्मान दिलाने हेतु किए गए कार्यों के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं भी दीं।

**वन्य-प्राणी अंगीकरण योजना में स्टेट बैंक ने 2 वन्य-प्राणियों को एक साल के लिए लिया गोद**

**देवेन्द्र कुमार जैन / NCR समाचार**

वन विहार नेशनल पार्क एंड जू, भोपाल में वन्य-प्राणी, अंगीकरण अभिनव योजना" में एक बार फिर से पुनः पर्यावरण तथा वन्य-प्राणियों के संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित कर बुधवार को एक साथ एक नर बाघ 'पन्ना' और मादा बाघ 'रिद्धी' को भारतीय स्टेट बैंक के स्थानीय प्रधान कार्यालय द्वारा एक वर्ष के लिये गोद लिया गया है। वन विहार उद्यान के संचालक श्री एच.सी. गुप्ता को भारतीय स्टेट बैंक समूह के मुख्य महाप्रबंधक श्री विनोद कुमार मिश्रा, ने दोनों वन्य-प्राणियों के लिये आवश्यक राशि एक लाख रुपये का चेक प्रदत्त किया। इसके पहले भारतीय स्टेट बैंक द्वारा 31 जनवरी, 2010 को पहली बार



मादा बाघ 'सीता' को एक साल के लिये गोद लिया गया था। इसके बाद स्टेट बैंक समूह द्वारा इन दोनों वन्य-प्राणी सहित 15 वन्य-प्राणियों को गोद लिया जा चुका है। इस तरह 82 वन्य-प्राणियों को गोद लिया जा चुका है। इससे वन विहार को 65 लाख 37 हजार 580 रुपये की आय प्राप्त हो चुकी है। उल्लेखनीय है कि वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में वन्य-प्राणी अंगीकरण योजना एक जनवरी, 2019 से प्रारंभ की गई थी।

**आंगनवाड़ी केंद्र पर हो रहा भोजन की गुणवत्ता की जांच**

**ब्रज कुमार राठौर / एनसीआर समाचार**

कलेक्टर शाजापुर श्री दिनेश जैन ने शाजापुर परियोजना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली आंगनवाड़ी केंद्र पांडू खोरा को गोद लेकर इसके विकास की जिम्मेदारी ली है। कलेक्टर श्री जैन ने इस आंगनवाड़ी केंद्र का भ्रमण कर यहां के बच्चों के लिए 10 प्लास्टिक की कुर्सियां एवं चार टेबल भेंट किए। कलेक्टर ने कुर्सी टेबल भेंट करते हुए कहा कि बच्चों को इन पर भोजन कराएं तथा आंगनवाड़ी की अन्य शैक्षणिक गतिविधियां संचालित करें। उल्लेखनीय है कि इस आंगनवाड़ी में 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के 20 बच्चों प्रवेशित है। इस मौके पर कलेक्टर ने बच्चों एवं उपस्थित माताओं से आंगनवाड़ी केंद्र में दिए जाने वाले नाश्ते एवं भोजन की गुणवत्ता की जानकारी ली। कलेक्टर ने कहा कि बच्चों की माताएं समूह द्वारा



तैयार किए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता की जांच करते रहें। कलेक्टर ने आंगनवाड़ी केंद्र की कार्यकर्ता श्रीमती रेखा यादव से कहा कि जिस भी भोजन की आवश्यकता हो वह तय करके भी उन्हें दे दे। इस आंगनवाड़ी केंद्र में 4 कुपोषित बच्चे हैं जिनमें 3 कम वजन के एवं 1अति कम वजन का बच्चा शामिल है। इन बच्चों के पोषण

आहार पर विशेष नजर रखने के कलेक्टर ने निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि एक अति कम वजन की बालिका के पिता प्रभु लाल नायक जो कि स्वयं दिव्यांग है। उनके यहां अपनी ओर से 1 किलो दूध प्रतिदिन देगे ताकि कुपोषित बालिका के साथ साथ अन्य बालिकाओं को भी दूध प्राप्त हो जाए। कलेक्टर श्री जैन ने आंगनवाड़ी केंद्र

की बाउंड्री वाल को ऊंचा उठाने तथा वॉल पेंटिंग कराने के लिए भी कहा पिछले बाद इस आंगनवाड़ी केंद्र के भ्रमण के दौरान कलेक्टर ने आंगनवाड़ी केंद्र की पुताई एवं नलकूप खनन के लिए कहा था जो कि पूरा हो चुका है। इस दौरान सीडीपीओ सुश्री नेहा चौहान सुपरवाइजर सुश्री प्रीति गुप्ता भी मौजूद थी।

**विवक हिल फाउंडेशन पुणे द्वारा बागली क्षेत्र को मिली बड़ी सौगात**

**राजेंद्र योगी / NCR समाचार**

उक्त चलित चिकित्सालय आरोग्य यान से आदिवासी बहुल क्षेत्र में कई हद तक स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ सीधा पीड़ित व्यक्ति के घर तक पहुंचेगा। जिस का संचालन सेवा भारतीय उप समिति जटाशंकर द्वारा किया जाना है। उक्त चलित चिकित्सालय आरोग्य यान का मुख्य उद्देश्य हर गरीब व जरूरतमंद व्यक्ति को स्वास्थ्य सुविधा का लाभ देना है। उसी उद्देश्य से पुणे से संचालित उक्त फाउंडेशन द्वारा बागली क्षेत्र को यह सौगात दी गई है जिसका लोकार्पण बागली नगर के गांधी चौक चौराहे पर



फाउंडेशन की अध्यक्ष श्रीमती अनुपमा काटकर की उपस्थिति में किया गया। भैया जी दाणी सेवा न्यास एवं सेवा भारती उप समिति जटाशंकर बागली के तत्वाधान में विवक हिल फाउंडेशन द्वारा बागली क्षेत्र के आदिवासी

बहुमूल्य क्षेत्र में गरीब वर्ग को स्वास्थ्य सुविधाओं का सीधा लाभ मिलेगा। लोकार्पण समारोह कार्यक्रम में विवक हिल फाउंडेशन की अध्यक्ष श्रीमती अनुपमा काटकर एवं मैनेजर अजय शिर्के, बागली SDM शोभाराम

सोलंकी एवं स्वयंसेवक संघ के जिला कारवाह धर्मेन्द्र सिंह सेंधव उपस्थित रहे जिनकी उपस्थिति में कार्यक्रम आयोजित कर सेवा भारती मंडल द्वारा आदिवासी नृत्य कर उक्त चलित चिकित्सालय आरोग्य यान का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ अभिभावक प्रवीण चौधरी राजेंद्र जी बागली थाना प्रभारी दीपक सिंह यादव शिक्षक राकेश नागोरी धर्मेन्द्र आचार्य पत्रकार मुकेश गोस्वामी रवि पाटीदार राजेंद्र योगी सोमेश उपाध्याय श्रीमती अरुणा त्रिपाठी सहित वरिष्ठ समाजसेवी एवं कार्यकर्ता गण उपस्थित रहे।

**17 पेटी अवैध शराब सहित आरोपी पुलिस कि गिरफ्त में**

**देवेन्द्र कुमार जैन / NCR समाचार**

वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में अवैध शराब क्रय-विक्रय एवं परिवहन पर अंकुश लगाने के लिये विशेष अभियान चलाया जा रहा है इस अभियान के अंतर्गत में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन एवं ACP मिसरोद के निर्देशन, थाना प्रभारी मिसरोद के नेतृत्व में विशेष पुलिस टीम का गठन कर अवैध शराब तस्कन की गिरफ्तार कर 17 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद करने में सफलता प्राप्त हुई है। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है 23 फरवरी को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक एम.जी. ग्लोस्टर कार मे दो व्यक्ति नर्मदापुरम की तरफ से अवैध शराब लेकर आ रहे है मुखबिर सूचना विश्वसनीय होने से तत्काल बरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया जिनहोने त्वरित कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया, जो वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन एवं ACP मिसरोद के मार्गदर्शन में तथा थाना प्रभारी मिसरोद के नेतृत्व में फोंस के धाना के सामने पुलिस ने



चैकिंग लगायी चैकिंग के दौरान मुखबिर के द्वारा बताया एम.जी. ग्लोस्टर कार नर्मदापुरम की तरफ से आ रही थी। जिसे रुकवाने का प्रयास किया, तभी चालक ने गाडी भगाने का प्रयास किया जिसे पुलिस द्वारा सूझबूझ से घेराबंदी कर रोककर चालक और उसके साथ बैठे व्यक्ति तथा कार को पुलिस अभिरक्षा में लेकर गाड़ी के अंदर चैक करने पर 17 पेटी अंग्रेजी मदिरा (16 पेटी बियर, 01 पेटी ह्विस्की) से भरी हुयी थी आरोपियों से मौके पर कार एवं शराब जप्त कर आरोपियों को गिरफ्तार कर धारा 34 के तहत आवकारी अधिनियम का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

**देवेन्द्र कुमार जैन / एनसीआर समाचार**

भोपाल क्षेत्र में लगातार हो रही चोरी नाकेबाजी की घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु क्राइम ब्रांच भोपाल की एक विशेष टीम को लगाया गया था। टीम को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि थाना कमलानगर के सुनार की दुकान में चोरी करने वाला वैदलूल उर्फ गुलाम नाम का लड़का भोपाल टाकिज के पास सोने चांदी का सामान सस्ते दामों में बेचने की फिराक में खड़ा है। सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर क्राइम ब्रांच की एक टीम भोपाल टाकीज पहुंचकर संदेही के हलिये के आधार पर तलाश की गई जो कब्रिस्तान के पास संदेही दिखा जिसे घेराबंदी कर पकड़ा। नाम पता पृछा तो अफना नाम बेहलूल (ईरानी) उर्फ गुलाममिर्ज पिता युसुफ मिर्जा उम्र 30 साल नि.म.नं 61 अमन कालोनी का बताया जिसकी तलाशी लेने पर सोने चांदी के जेवरात मिले जिसके संबंध में सख्ती से

**कालू खेड़ी तालाब में संदिग्ध अवस्था में मिला युवक का शव**

**राजेंद्र योगी / NCR समाचार**

देवास गुरुवार सुबह बीएनपी थाना पुलिस को सूचना मिली कि किसी अज्ञात व्यक्ति का शव कालू खेड़ी तालाब में तैर रहा है उचित सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंच कर शव को तालाब से बाहर निकाला। कुछ देर बाद मृतक की पहचान हुई उसके बाद शव को जिला चिकित्सालय भेजा गया था वही इसकी शिनाख्त चेतन पिता अरुण सोलंकी देवास, शिमला कॉलोनी निवासी के रूप में हुई वही शव का पोस्टमार्टम कर पुलिस द्वारा परिजनों को सौंप दिया गया। वहीं इस मामले को लेकर पुलिस ने मार्ग कायम कर प्रकरण को जांच में लिया है इधर परिजनों ने बताया कि युवक की बीते दिनों ही शादी हुई थी जिसके बाद वह घर से लापता हो गया था जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट कोतवाली थाने में दर्ज कराई गई थी। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराए जाने के बावजूद पुलिस ने तलाश नहीं की मृतक के चाचा सुनील सोलंकी ने बताया कि चेतन जगराता भजन मंडली में ढोलक बजाता था गत



18 फरवरी को उसकी शादी हुई थी जिसके बाद 21 फरवरी को वह सुबह करीब 4:00 से 5:00 के बीच में घर से बाहर किसी को बताया वह कहीं चला गया था। जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट कोतवाली थाने पर की गई थी परिजनों ने बताया कि चेतन की शादी के बाद सभी लोग खुश थे यह नहीं सोचा था कि आज वह हमें इस हाल में मिलेगा पुलिस ने मार्ग कायम कर प्रकरण को पुलिस ने मार्ग कायम कर प्रकरण को जांच में लिया है। पुलिस ने बताया कि मृतक के पास से मोबाइल गले का पेंडल हाथ की अंगुली बरामद की गई है, पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है वहीं परिजनों का पुलिस पर आरोप लगाते हुए 3 दिन पूर्व गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की उसे खोजा नहीं गया परिजनों में पुलिस कार्यवाही को लेकर नाराजगी है।

**नगर परिषद बागली में मुख्यमंत्री के वर्युअल कार्यक्रम का हुआ आयोजन**

**राजेंद्र योगी / NCR समाचार**

बागली मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज बुधवार 23 फरवरी को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरीरूढ़ में नवनिर्मित 50 हजार आवासों में हितग्राहियों को गृह प्रवेश करवाएंगे यह आवास 1925 करोड़ रुपये की लागत से बनाये गये है, इसके साथ ही 1155 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले 30 हजार नवीन आवासों का भूमि पूजन भी करेंगे कार्यक्रम में ही मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आवास योजना के 26 हजार 500 हितग्राहियों के खाते में 250 करोड़ रूपये अंतरित किए गए। सीएम शिवराज सिंह चौहान का

वर्युअल कार्यक्रम भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कनवेशन सेंटर में दोपहर 3 बजे से हुआ कार्यक्रम को नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह और राज्य मंत्री ओपीएणएस भदौरिया द्वारा संबोधित किया गया प्रशासनिक अधिकारी द्वारा नगर परिषद बागली में वार्ड क्रमांक 3 में हितग्राही श्री दिलीप भाटी के प्लाट पर भूमि पूजन के साथ नगर परिषद सीएम श्री महेश शर्मा, मुरली राठौर, प्रमोद शर्मा वीरेंद्र गुर्जर पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष सुश्री श्यामा तोमर की उपस्थिति में भूमि पूजन किया गया।

**शातिर चोर गिरफ्तार, 5.75 लाख के कीमती जेवरात बरामद**



पृछताछ करने बताया कि आज से लगभग 5 महीने पहले थाना कमला नगर में मुस्कान ज्वैलर्स की दुकान पर सोने के जेवर चोरी की थी जो सामान आज बेचने आया था। आरोपी बेहलूल (ईरानी) उर्फ गुलाम मिर्ज पिता युसुफ मिर्जा से विस्तृत पृछताछ पर उसने कोलार की मां कालका ज्वैलर्स की दुकान से सोने के जेवर चोरी करना बताया। आरोपी द्वारा चोरी किये

गये सोने चांदी के आभूषण को थाना कमला नगर व थाना कोलार की सहायता से बरामद किया गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी द्वारा सुनार को बातों में उलझाकर व दूसरे जेवर दिखाने के बहाने चकमा देकर हाथ की सफाई दिखाकर सोने के जेवर चुरा लिए। हाथ की सफाई इतने शातिराना अंदाज में किया की दुकानदार को इसका अहसास भी नहीं हुआ।

**संक्षिप्त समाचार**

**पटना के मसौढ़ी रहमत गंज मोहल्ले में**

**कचरा ही कचरा**

**अनिल कुमार भारती / NCR समाचार**

आजकल मोहल्ले में भी इतना कचरा हो रहा है कि नगर परिषद के कर्मचारी को भी नहीं नजर आ रहा है इधर मोहल्ले वाले को काफी कठिनाइयों झेलना पड़ रहा है और गंदगी से इन्फेक्शन भी फैल रहा है इधर सरकारी कर्मचारियों का सिर्फ बोल-बाला ही चलता है और ना ही वार्ड पार्थद भी कोई ठोस कदम उठा रहे हैं इधर रास्ते में राहगीर को भी काफी परेशानियां झेलना पड़ रहा है और मोहल्ले वाले को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है

**पंचमढी में आयोजित रग्बी टूर्नामेंट में दिखाया दम**

**अंसार खान / NCR समाचार**

कालापील टच रग्बी स्टेड टूर्नामेंट जो पंचमढी में आयोजित हो रहा है जिसमें शाजापुर जिले की टीम ने अपना अच्छा प्रदर्शन करते हुए देवास को 1000 से हराया बेतूल को 1500 से हराया जबलपुर को 1000 मंदसौर को 3000 से हराया और क्वार्टर फाइनल के लीये टिम ने अपनी जगह बनाई बघाई के रूप में मध्य प्रदेश सेक्रेटरी अबरार अहमद शेख सेक्रेटरी टेक्नीशियन डायरेक्टर सदीप यादव मध्य प्रदेश कोच अर्जुन पाटीदार अनिल मेवाडा और पवन अहिरवार ने उन सभी बच्चों को उज्ज्वल भविष्य की सुभकामनाएं की और सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दिए।

**बहरोड-कुण्ड सड़क का हुआ शिलान्यास गण्डला में विधायक जी का हुआ स्वागत**

**सुनील कुमार / NCR समाचार**

46.4 कि.मी. लम्बी बहरोड की लाइफ लाइन बहरोड कुण्ड रोड का शुभारंभ बहरोड विधायक व जनता के द्वारा किया गया, गन्धला बस स्टैंड पर बहरोड-कुण्ड रोड SH-111 व माजरी कला-नीमरामा SH-111A का मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर शिलान्यास किया विधायक श्री बलजीत यादव जी ने कहा कि ये सड़क मुझे विरासत में मिली थी विधायक बनते ही इस रोड का निर्माण शुरू करना था पर विपक्षी पार्टी ने अडंगा लगा कर इस रोड को रुकवा दिया, अब जाकर के इस रोड का शिलान्यास किया गया लेकिन विपक्षी पार्टी तो ये कहने लग गयी थी कि विधायक के कार्यकाल में नही बनने देगे उपस्थित गणमान्य लोग बहरोड नगरपालिका चेयरमैन श्री सीताराम जी व उप चेयरमैन जी व उपप्रधान जी व राठ की जनता जनार्दन उपस्थित लोग थे।

**राजकीय लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय में विश्व मातृभाषा दिवस मनाया**

**दीपक कौशिक / NCR समाचार**

राजकीय LBS कॉलेज कोटपूतली में सोमवार को हिंदी विभाग की ओर से प्राचार्य डॉ रे. मधुशु की अध्यक्षता में विश्व मातृभाषा दिवस मनाया गया। प्राचार्य डॉक्टर मधुशु ने कहा कि मातृभाषा से ही संपूर्ण मौलिक चिंतन होता है। हमें अपनी मातृभाषा पर गर्व करते हुए उसका प्रचार प्रसार करना चाहिए हिंदी विभाग के सहायक आचार्य डॉक्टर सत्यवीर सिंह ने मातृभाषा पर प्रकाश डालते हुए कहा की हमें हमारी भाषा को सामाजिक एवं सांस्कृतिक महत्त्व देते हुए इसकी रक्षा एवं सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है। इस मौके पर अंतरराष्ट्रीय हिंदी की प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता हुई, काफी संख्या में विद्यार्थियों ने भाग लिया, मंच संचालन डॉक्टर दुर्गा गहन ने किया देशराज यादव ने धन्यवाद ज्ञापित किया।

**PM मोदी का कोटा राजस्थान चम्बल हादसे का ट्वीट कर बड़ा ऐलान किया**

**महावीर / NCR समाचार**

राजस्थान के कोटा में चंबल नदी में कार गिरने के हादसे पर पीएम मोदी ने बड़ा ऐलान किया है। प्रधानमंत्री ने इस हादसे में जान गंवाने प्रत्येक व्यक्ति के परिवार / परिजन को दो-दो लाख रुपये की राशि देने की घोषणा की है। रविवार को सुबह एक कार के चंबल नदी में गिर जाने से दूल्हे समेत नौ लोगों की मौत हो गयी थी। चम्बल पुलिसिया पर झपकी लगने के कारण कार पर से नियंत्रण खो बैठा था और वह नदी में गिर गयी थी। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत पहले ही रविवार के इस हादसे में जान गंवाने वालों के परिजन 2-2 लाख रुपये की तथा जिन परिवारों के दो या अधिक सदस्यों की मौत हुई है, उनके लिए पांच-पांच लाख रुपये की वित्तीय सहायता की घोषणा कर चुके हैं।

**खून से पत्र लिख रक्षामंत्री को भेजा**

**योगेंद्र पाल / NCR समाचार**

अहीर रेंजिमेंट के गठन को लेकर रविवार को सरताज शुप के PRO कुलदीप यादव ने केंद्रीय रक्षामंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखा, कुलदीप यादव ने कहा की अहीर समाज भारत का एक विशाल जनसंख्या वाला समाज है करोड़ों की आबादी और सदैव राष्ट्रहित और रक्षा के लिए आगे आने वाले यादवों की भारतीय फ़ौज मे कोई रेंजिमेंट नहीं है यादव जाती के वीर योद्धाओं ने भारत की आजादी के लिए हुए संग्राम मे बड़ चढ़ कर भाग लिया और बलिदान दिया। लेकिन ब्रिटिश शासन के दौरान यादवों की कोई रेंजिमेंट नहीं बनाई गई। हमारे पुरखो ने देश के लिए लड़ाई लड़ी है किन्तु आज दशकों बाद अहीर रेंजिमेंट नहीं बनी। सेना मे कुछ जातियों की अपनी रेंजिमेंट है तो यादवों की क्यों नहीं है, अहीर रेंजिमेंट मांग नहीं हमारा अधिकार है यह करोड़ों यादवों के सम्मान की बात है।

**सेना भर्ती के संबंध में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नाम कोटपुतली तहसीलदार को SDM ऑफिस में ज्ञापन दिया**

**प्रमोद कुमार बंसल / NCR समाचार**

पूर्व संसदीय सचिव (राजस्थान सरकार) रामस्वरूप कसबाना एवं छात्र नेता दीपक गुर्जर के नेतृत्व में कोटपूतली में सेना भर्ती जल्द होने के संबंध में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नाम कोटपुतली तहसीलदार को SDM ऑफिस में ज्ञापन दिया। ज्ञापन में निम्न बातों का उल्लेख किया गया, 1.3 साल से सेना भर्ती में एवरेज हुए विद्यार्थियों को छूट मिले। 2. सेना भर्ती का एक डेढ़ साल से फिजिकल हो गया लिखित परीक्षा हेतु। छात्र नेता दीपक गुर्जर के नेतृत्व में ज्ञापन दिया मौजूद पूर्व संसदीय सचिव रामस्वरूप जी इंडियन डिफेंस Academy संचालक राकेश गुर्जर सक्सेस Academy कोटपूतली संचालक विक्रम सिंह गुर्जर त्रिभारण डिफेंस Academy महेश इंटरराज अक्षय जीओड देशराज सिराधवा सचिन दायमा शंकर तवर मनोज जाट अमन कसाना सत्या सुंदरपुरा अजीत यादव मोक्षू शर्मा राजेश रावत कपिल आर्य अतर सिंह आदि युवा छात्र मौजूद थे।

**जबलपुर पुलिस ने सुलझायी हत्याकांड की गुत्थी**

**जसपाल सिंह / एनसीआर समाचार**

जबलपुर पुलिस के लिए चुनौती बना एटीएम केस वैन लूट एवं हत्या का केस सुलझा लिया गया है। बेहद सनसनीखेंज घटना का खुलासा भी हाई लेवल पुलसिंग के द्वारा किया गया, जिसमें आरक्षक से लेकर एडीजी तक 13 दिन तक लगातार जुटे रहे। इस केस में एक सुरक्षा गार्ड की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी एवं दो कैशियरों को गोली मारकर घायल कर कैश पेटी लूट ली गई थी। इस रूट में भागे दोनों मोटर सायकिल सवार लुटेरों जो सगे भाई हैं, चारागसी में पकड़े गये। इनसे लूटे रूपये 32 लाख 98 हजार रूपये एवं घटना में प्रयुक्त मोटर सायकिल जब्त की गई है एवं घटना में प्रयुक्त पिस्टल एवं कैश पेटी की बरामदगी के लिए आरोपियों को पुलिस रिमांड पर लिया जा रहा है।

बया थी लूट एवं हत्या की सनसनीखेंज वारदात 11-2-22 को बैंक ऑफ महाराष्ट्र तिलहरी ए.टी.एम के पास गोली चलने की सूचना पर थाना प्रभारी गोरबाजार

सहदेव राम साहू स्टाफ के साथ पहुंचे, जहां पता चला कि घायलों को उपचार के लिए सिटी अस्पताल ले जाया गया है। अस्पताल पहुंची पुलिस को अभिलाष यादव निवासी भरतीपुर इलाहाबाद बैंक के पास ओमती ने बताया था कि एस.आई.एस.कंपनी भोपाल का ए.टी.एम कैश वाहन चलाता है। दिनांक 11-2-2022 को पेन्टीनाका होकर गोरबाजार तिलहरी स्थित बैंक ऑफ महाराष्ट्रा के पास गाड़ी खड़ी किया, गन मैन राजबहादुर पटेल आगे वाली सीट पर उसके बाजू में बैठा था। दोनों कैशियर राजबहादुर सिंह, एवं श्रेयांस ताम्रकार वैन से उतरकर एक कैश पेटी लेकर बैंक ऑफ महाराष्ट्र तिलहरी के ए.टी.एम में कैश डालने के लिये जा रहे थे दो अज्ञात लुटेरों ने कैशियर राज बहादुर सिंह निवासी मटवारा भिठौनी शहपुरा एवं श्रेयांस ताम्रकार उम्र 28 वर्ष निवासी शाही नाका गढ़ा को गोली मारकर घायल कर दिया तथा कैश वाहन में बैठे गनमैन राजबहादुर पटेल



निवासी पान उमरिया जिला कटनी हाल निवासी साई मंदिर जवाहर नगर थाना आधारताल की गोली मारकर हत्या कर कैश की 1 पेटी लूट कर ले गये। घटना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया तथा सरहदी जिलों को घटित हुई घटना से अवगत कराते हुये शहर एवं देहात में नाकाबंदी प्वांईट लगाये गये। पुलिस अधीक्षक जबलपुर सिद्धार्थ बहुगुणा के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर गोपाल खण्डेल, नगर पुलिस अधीक्षक गोरखपुर अलोक शर्मा, उप पुलिस अधीक्षक अनाक पंकज मिश्रा,

उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय, नगर पुलिस अधीक्षक गढ़ा तुषार सिंह नगर पुलिस अधीक्षक गोलहरपुर अखिलेश गौर तथा एफ.एस.एल डाक्टर सुनीता तिवारी, फोटोग्राफर आदि मौके पर पहुंचे। कैश वाहन के चालक अभिलाष यादव की रिपोर्ट पर थाना गोरबाजार में अपराध क्रमांक 39/2022 धारा 302,307,394,397,34 भा.द.वि, 25,27 आर्यां एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। घटित हुई घटना की गंभीरता को देखते हुए उप पुलिस महानिरीक्षक जबलपुर

रेंज जबलपुर आर.आर. सिंह परिहार एवं अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक जबलपुर जौन जबलपुर उमेश जोगा भी मौके पर पहुंचे, घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण करते हुये मौके पर उपस्थित अधिकारियों को अज्ञात मोटर सायकिल सवार लुटेरों की पतासाजी के सम्बंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिये, विशेष टीमें गठित कर आरोपियों की पतासाजी हेतु लगायी गयी है। आर्थिक तंगी को दूर करने वारदात को दिया अंजाम दोनों आरोपी भाई मनोज पाल एवं सुनील पाल जो कि बचपन से जबलपुर में आर्मी स्कूल में पढ़े लिखे हैं, एवं जबलपुर की भौगोलिक स्थित से अच्छी तरह वाकिफ हैं, इन दोनों ने 2017 में पारिवारिक विवाद एवं आर्थिक तंगी के कारण जबलपुर छोड़ दिया एवं गुजरात में काम करने लगे, जहां काम करते हुये रातों-रात पैसा कमाने और आर्थिक तंगी दूर करने के

लिये बैंक-एटीएम लूटने का प्लान बनाया, जबलपुर चूँकि इनके लिये सबसे बेहतर विकल्प था, इसलिये योजना के अनुसार दोनों नवम्बर 2021 में गुजरात से जबलपुर आये एवं गुप्त रूप से कैट क्षेत्र में महावीर कम्पाउंड अंतर्गत रिटायर्ड जेल अधिकारी के यहां किराये का कमरा लेकर रहने लगे। इस दौरान उन्होंने अपने बचाव के लिये किसी भी प्रकार के पहचान पत्र, किसी भी स्थान पर उपलब्ध नहीं कराये एवं मोबाईल का प्रयोग भी कहीं नहीं किया। घटना दिनांक 11-2-2022 को आरोपी योजना के अनुसार आर.सी. ग्राउंड से सुबह 10 बजे पहले बैंक के एटीएम गये, तत्पश्चात तिलहरी स्थित पैट्रोलपंप पर पैट्रोल डलवाया और गोरबाजार के पास कैशवैन का इंतजार करने लगे, जैसे ही दोपहर 2-15 बजे के आसपास कैश वैन आते हुये दिखी तो ये वैन का पीछा करने लगे और वैन को ओवरटेक करते हुए वैन के पहुंचने के कुछ सैकंड पूर्व ही एटीएम पहुंच गये और अपनी-अपनी जगह ले ली।

**75वीं आजादी का अमृत महोत्सव धूमधाम से मनाया समृद्ध भारत की ओर कार्यक्रम के अंतर्गत किया मीडिया कर्मियों का सम्मान**



**अंसार खान / NCR समाचार**

बरेली नगर के समीपस्थ ग्राम में स्थित प्रजापति ब्रह्माकुमारी विश्वविद्यालय में 75वें आजादी का अमृत महोत्सव बनाया गया की भारत का नागरिक होने के नाते यह आवश्यक है कि हम सभी व्यक्तिगत स्तर पर अपने देश के लिए कुछ अच्छा कर सकें उदाहरणार्थ भातुत्व भावना एवं शांति की वृद्धि करें आर्थिक विकास के लिए प्रयास करें मूल आधारित एवं शांति को वृद्धि करें आर्थिक विकास के

प्रयास करें मूल्य आधारित शिक्षा अपनाएं स्वच्छता रखें सभी सामाजिक समस्याओं का निदान करें सभी के प्रति सम्मान रखें पत्रकारिता से समृद्ध भारत की ओर कार्यक्रम के अंतर्गत मीडिया कर्मियों का सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कर्मी उपस्थित रहे कार्यक्रम में दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई जिसमें भोपाल से पधारे अतिथियों का भी फूल मालाओं से स्वागत किया गया।

**दून विधानसभा में गरजे पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद आनंद शर्मा**

**विपुल / NCR समाचार**

पूर्व एम.एल.ए और उपाध्यक्ष कांग्रेस हिमाचल प्रदेश राम कुमार के नेतृत्व में आज बहुत बड़ी रैली का आगाज किया गया रैली में पूर्व मंत्री एवं केंद्रीय राज्यसभ सांसद आनंद शर्मा पहुंचे शर्मा ने कहा कि भारत सरकार ने बच्चों के भविष्य खिलवाड़ किया है कहां की 2014 से ही भारत की नींव नहीं बनी थी मैं प्रधानमंत्री मोदी को याद दिलाना चाहता हूँ कि यह वही भारत है जब आजाद हुआ था तो कांग्रेस ने इसका नेतृत्व किया था और जिस चंद्रयान मंगलयान की बात प्रधानमंत्री आज करते हैं वह कांग्रेस के ही शासनकाल में अपनी खोज कर चुका था आनंद शर्मा ने यह भी कहा कि भारत सरकार अपने मार्ग से भटक चुकी है क्या करना है क्या नहीं करना है मोदी सरकार के मंत्रियों को भी पता नहीं चलता है लेकिन आप भारत के लोगों को और



हिमाचल के लोगों को यह पता चल चुका है कि यह डबल इंजन सरकार सिर्फ लोगों का टाइम पास कर रही है विकास तो कहीं दिख नहीं रहा है जो कि विकास को पहले ही कांग्रेस करवा चुकी है। रामकुमार पूर्व विधायक ने अभी यह कहा कि सरकार चाहे भारत की हो चाहे हिमाचल की हो जो युवाओं के साथ कर रही है कांग्रेस पार्टी सहन नहीं करेगी, उन्होंने कहा कि भाजपा का विधायक होते भी लोग मुसीबतों का सामना कर रहे हैं पूर्व विधायक राम कुमार ने कहा कि यह सहन नहीं होगा हिमाचल में

सरकार बनेगी और पुनः ठप्प पड़ा विकास को जोर दिया जाएगा और लोगों को प्रगतिशील सरकार मिलेगी। रामकुमार ने आड़े हाथों लिया वर्तमान विधायक को सिर्फ अपने रिश्तेदारों और दोस्तों मित्रों का ही करवा रहे हैं विकास और लोग हो रहे हैं परेशान। वही इस चुनावी सभा में भाजपा के अधिक कार्यकर्ताओं ने भाजपा छोड़ कांग्रेस का दामन भी थामा और रामकुमार ने उनका स्वागत किया और कहा कि अब जनता भाजपा से हो चुकी है त्रस्त और सरकार अब चंद दिनों की रही है

मेहमान जो 4 साल में नहीं हो पाया विकास 7 महीनों में क्या करेगी सरकार विकास। बातों ही बातों में आने वाली सरकार में रामकुमार को मंत्री पद से नवाजा कांग्रेस के सीनियर विधायक रहे हैं रामकुमार पूर्व विधायक राम कुमार ने आनंद शर्मा से अलग-अलग जगह कुछ मांगे रखी जौंक राज्यसभा सांसद नाते आनंद शर्मा ने घोषणा भी की कम से कम 10 लाख से बनने वाले ग्राउंड और तीन सामुदायिक भवन की बजट घोषणा की और यह भी कहा कि हिमाचल में अगर सरकार बनती है तो रामकुमार जी को मंत्री पद से भी नवाजा जाएगा और लोगों से केंद्रीय पूर्व मंत्री आनंद शर्मा और राज्यसभा सांसद कह गए कि बदलाव हिमाचल में होने वाला है लोग अपना समर्थन दें ताकि हिमाचल को अच्छी सरकार मिले और ठप पड़े विकास को देवारा सुचारू रूप से चलाया जाए।

**बारात से लौटती कार खाई में गिरी, 14 लोगों की मौत**

**अंशुप्रिया /NCR समाचार**

उत्तराखंड से एक बड़ी सड़क हादसे की खबर सामने आई है जिसमें बताया जा रहा है कि प्रदेश के चंपावत जिले के डांडा क्षेत्र में सोमवार रात बरात से लौट रही कार का एक्सीडेंट हुआ इसकी वजह से वो कार खाई में जा गिरी मौके पे पुलिस व रेस्क्यू टीम घटनास्थल पर पहुंची। और वहा से सभी लोगों को निकला गया जिसमें बारात में आय लोगों में से 14 की मौत हो गई। इके शव खाई से निकाले गई है और 2 गंभीर रूप से घायल है उनके इलाज के लिए उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया। आपको बता दे कि सूत्रों से पता चला है की उस कार में सवार लोग टनकपुर के पंचमुखी धर्मशाला में हुई शादी में शामिल हुए थे,



**प्रधानमंत्री मोदी ने जताया शोक**

रात में वह से शादी से घर लौट रहे थे, आधी रात लगभग 3 बजे के करीब कार बेकाबू होने की वजह से खाई में जा गिरी जिसके बाद वहां पे अफरा-तफरी मच गई, जिसके बाद पता चला की इसमें 16

बेटे मनोज सिंह की शादी में शामिल होने के लिए ये लोग पहुंचे थे, मरने वाले 14 लोगों में स सबसे ज्यादा लक्ष्मण सिंह के रिश्तेदार थे। साथ ही इस हादसे में गाड़ी चालक भी गंभीर रूप से घायल हुआ है, वह मौजूद मृतक और घायल लोगों के परिवार वालों को सूचना दे दी गई है और आहें की कार्यवाही में पुलिसअभी भी जुडी हुई है। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इस सड़क हादसे में अपना शोक जताया है, वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में एक दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के परिवार वालों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपये और घायलों लोगों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है।

**डीएमके ने चेन्नई में 49 वार्ड जीते अन्य जगहों पर मारी बढ़त हासिल की**

**अंशुप्रिया /NCR समाचार**

तमिलनाडु में कुल 649 शहरी स्थानीय निकाय हैं जिनमें 21 निगम, 138 नगरपालिकाएँ और 489 नगरपालिकाएँ शामिल हैं। वार्डों की कुल संख्या 12,838 है। इन वार्डों के लिए 19 तारीख को एक ही चरण में चुनाव हुए थे। तमिलनाडु में 60.7 फीसदी वोट पड़े, नगर पालिकाओं में मतदान प्रतिशत, हालांकि नगर पालिकाओं में थोड़ा अधिक था, महानगरीय क्षेत्रों में सुस्त के रूप में देखा गया, विशेष रूप से चेन्नई में यह 50 प्रतिशत से भी कम था। इसी सिलसिले में नगरीय स्थानीय चुनाव में मतगणना आज सुबह 8 बजे से शुरू होगी। इसके बाद मतगणना केंद्रों पर पुलिस सुरक्षा के बड़े बंदोबस्त किए गए हैं। इसके अलावा, जिस कमरे में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन रखी जाती



**मारी मात्रा में दूसरे दिन भी 20 फीसद लोअर सर्किट पर धानी सर्विसेज टप**

**अंशुप्रिया /NCR समाचार**

धानी सर्विसेज के शेयर लगातार दूसरे दिन 20 फीसदी निचले सर्किट में 82.80 रुपये पर बंद हुए, जो अब मंगलवार के कारोबार में बी.एस.ई पर इसका 52 सप्ताह का निचला स्तर है। वित्तीय सेवा कंपनी का शेयर पिछले दो कारोबारी दिनों में 38 फीसदी और इस अवधि के दौरान 2 मार्च, 2021 को अपने 52 सप्ताह के उच्च स्तर 380 रुपये से 78 फीसदी गिर गया है। दोपहर 01:05 बजे तक धानी सर्विसेज की कुल इक्विटी के 11 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करने वाले संयुक्त 67.78 मिलियन इक्विटी शेयरों ने हाथ बदल दिया था। आंकड़ों से पता चलता है कि एन.एस.ई और बी.एस.ई पर 2.52 मिलियन शेयरों के ऑर्डर लंबित थे। इसकी तुलना में एन.एस.ई.पी.एस.ई संसेक्स 1.6 फीसदी की गिरावट के साथ 56,785 अंक पर था। वहीं 7 फरवरी, 2022 के बाद से, धानी



सर्विसेज के बाजार मूल्य में 46 प्रतिशत की गिरावट आई है, जब इमली कैपिटल पी.टी.ई।लिमिटेड ने बी.एस.ई पर ब्लॉक डील के माध्यम से कंपनी के 10 मिलियन शेयर 153 रुपये प्रति शेयर की कीमत पर बेचे, एक्सचेंज डेटा दिखाता है, जबकि बी.ओ.एफ.सिक्वोरिटीज यूरोप एस.ए ने धानी सर्विसेज के 9.75 मिलियन शेयर खरीदे थे। शुक्रवार, 18 फरवरी, 2022 को, धनी सर्विसेज ने स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किया कि जैस्मीन कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स पी.टी.ई। लिमिटेड और इमली कैपिटल पी.टी.ई।

Ltd ने सामूहिक रूप से अपनी हिस्सेदारी 2 प्रतिशत अंक (12.14 मिलियन इक्विटी शेयर) घटाकर 6.27 प्रतिशत कर दी थी जो पहले 8.27 प्रतिशत थी। कंपनी ने कहा कि इन संस्थाओं ने इन शेयरों को 4 फरवरी, 2022 और 17 फरवरी, 2022 के बीच बेचा था। कंपनी का नाम 6 अक्टूबर, 2020 से 'इंडियाबुल्स वेंचर्स लिमिटेड' से बदलकर 'धनी सर्विसेज लिमिटेड' कर दिया गया है ताकि इसके धनी ऐप के माध्यम से प्रौद्योगिकी सक्षम सदस्यता आधारित स्वास्थ्य सेवा और लेनदेन

वित्त सेवाएं प्रदान करने के अपने व्यवसाय को संरक्षित किया जा सके। धानी सर्विसेज, अपनी विभिन्न अन्य सहायक कंपनियों के माध्यम से, संपत्ति पुनर्निर्माण, स्टॉक ब्रोकिंग आदि सहित विविध व्यावसायिक गतिविधियों में लगी हुई है। इसके अलावा, यह सेवाओं का गुलदस्ता प्रदान करने के व्यवसाय में सीधे या अपनी विभिन्न सहायक कंपनियों के माध्यम से उद्यम कर सकती है, घरेलू और / या अंतरराष्ट्रीय बाजारों में उपलब्ध व्यावसायिक अवसर। धानी सर्विसेज की प्रमुख सहायक कंपनियों में धानी लोन्स एंड सर्विसेज (पूर्व में इंडियाबुल्स कंज्यूमर फाइनेंस लिमिटेड), इंडिया बुल्स एसेट रिस्कस्ट्रक्शन कंपनी, धनी स्टॉक्स (पहले नाम इंडियाबुल्स सिक्वोरिटीज था), इंडियाबुल्स इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, ऑक्सिसिया सॉफ्ट सॉल्यूशंस और इंडियाबुल्स डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज शामिल हैं।

**संक्षिप्त समाचार**

**जनपद में कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत चेकिंग के दौरान की गई कार्यवाही**

**प्रियम शुक्ला / NCR समाचार**  
कोशांम्बी जनपद में कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत चेकिंग के दौरान की गई कार्यवाही जनपद में लॉकडाउन के दृष्टिगत सरकार द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुपालन के क्रम में पुलिस अधीक्षक कौशांम्बी निर्देशानुसार जनपद स्तर पर विभिन्न धानों द्वारा अनावश्यक रूप से बाहर घूमने, मास्क ना लगाने, एवं सोशल डिस्टेंसिंग, का पालन ना करने वालों के विरुद्ध 50 बैरियल / नाको एवं धाना क्षेत्रों में पुलिस द्वारा शक्त चेकिंग की गई चेकिंग के दौरान दो पहिया, चार पहिया, वाहनों को चेक किया गया जिनमें 52 वाहनों का ई-चालान किया गया एवं 03 वालों का चालान कर 1500 रुपए सम्मन शुल्क वसूला गया।

**जन सुनवाई में विभिन्न शिकायतों के 74 आवेदन प्राप्त**

**ब्रज कुमार राठौर / NCR समाचार**  
मुख्यमंत्री जन सुनवाई कार्यक्रम के तहत आज संपन्न हुई जन सुनवाई में कुल 74 आवेदन प्राप्त हुए जन सुनवाई डिप्टी कलेक्टर श्री अजीत श्रीवास्तव नेकी इस दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे, जन सुनवाई मुख्य रूप से वृद्धावस्था पेंशन बी.पी.एल सूची में नाम दर्ज कराने आर्थिक सहायता राशि प्रदान करने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने सहित अन्य आवेदकों द्वारा विभिन्न प्रकार की शिकायतों एवं समस्याओं के आवेदन दिए गए।

**शिक्षा मंत्री राजेंद्र सिंह यादव ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया एवं आभार जताया**

**दीपक कौशिक / NCR समाचार**  
राजस्थान सरकार ने आज अपना चौथा बजट पेश किया जिसमें कोटपूतली नगर पालिका को क्रमोन्नत कर नगर परिषद बनाने की घोषणा तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (बनेटी) को क्रमोन्नत कर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की घोषणा एवं पावटा (जयपुर) में म्यूसिफ मजिस्ट्रेट न्यायालय की स्वीकृति माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा की गई। क्षेत्र की तीनों घोषणाओं पर क्षेत्रीय विधायक एवं उच्च शिक्षा मंत्री राजेंद्र सिंह यादव ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया एवं धन्यवाद दिया बताया कि जिले की मांग सरकार से जारी रहेगी।

**प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत 1 लाख हितग्राहियों को लाभ वितरित किया**

**मुकेश हरयाणी / NCR समाचार**  
सागर नरयावली विधानसभा क्षेत्र के उपनगरीय क्षेत्र मकरोनिया नगर पालिका के वार्ड नंबर 18 के प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को गृह प्रवेश कराया और इस कार्यक्रम में वर्तुअल रूप से उपस्थित रहे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, ने हितग्राहियों के खाते में वनवित्तक के माध्यम से प्रथम किस्त, द्वितीय किस्त, एवं तीसरी किस्त, की राशि हितग्राहियों के खाते में डाली गई, इस कार्यक्रम में मकरोनिया मंडल अध्यक्ष कपिल सिंह कुशवाहा पूर्व पार्षद गण नगर पालिका विधायक प्रतिनिधि भाजपा कार्यकर्ता नगर पालिका कर्मचारी अधिकारीगण एवं वार्ड के निवासी और हितग्राही बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

**सैनी महापंचायत संगठन 25 फरवरी को विधानसभा घेराव करेगी**

**महेश कुमार सैनी / NCR समाचार**  
11 सूत्रीय सामाजिक मांगों को लेकर 25 फरवरी को राजस्थान विधानसभा सैनी समाज द्वारा घेराव किया जाएगा, सैनी समाज की मुख्य मांगे फुले बागवानी कल्याण बोर्ड महात्मा फुले फाउंडेशन का निर्माण सैनी समाज को अलग से 12% आरक्षण लागू हो। हर शहर के कस्ट्चे में फुटपाथ पर लगे फल सब्जी के टेलो का स्थाई कारण हो भारतीय सेनाओं में सैनी रेजिमेंट के लिए राज्य सरकार प्रस्ताव बनाकर केंद्र सरकार को भेजें विश्वविद्यालयों में महात्मा ज्योति राव फूले व माता सावित्रीबाई फुले के नाम से शोध पीठ की स्थापना आदि की गई वर्षों से सैनी समाज मांग करता रहा है लेकिन सरकारें उनपर ध्यान नहीं दे रही।

**मतदान करने आए हुए लोग आक्रोशित**

**मनीष कुमार / NCR समाचार**  
रायबरेली से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां जनता सुबह से लाइन में कड़ी होकर अपने मतदान करने का इंतजार कर रहे थे और जब उनकी बारी आई तो उन्हें वहां कुछ अलग ही नजारा देखने को मिलता है। मतदान के लिए आने के बाद जब लोगो ने अपनी पर्ची देखी तो उन्हें मुर्दा दिखाया गया मतदान के लिस्ट से उनका नाम डिलीट दिखाया गया, वहा के लोग निराश होकर लौटते नजर आए। तो वही कुछ लोग वोट न देने के कारण दिखाया अपना गुस्सा।

**अंशुल सिंह परिहार को सोशल मीडिया विभाग का जिला संयोजक नियुक्त किया है**

**मुकेश हरयाणी / NCR समाचार**  
सागर भारतीय जनता पार्टी सागर जिला अध्यक्ष गौरव सिरोटिया ने अंशुल सिंह परिहार को सोशल मीडिया विभाग का जिला संयोजक नियुक्त किया है। तथा अंशुल सिंह परिहार जी ने बताया कि मैं अपनी कार्यकारिणी 1 महीने के अंदर-अंदर घोषित कर दूँगा एवं पार्टी के प्रति तन मन धन कार्य करूँगा।

**सूरज कुंड मेला, 20 मार्च से 5 अप्रैल तक**

**नमिता चौहान / एनसीआर समाचार**  
सूरज कुंड का मेला विश्व का सबसे बड़ा मेला है जो बहुत जल्द शुरू होने जा रहा है। आपको बता दें कि 35वें सूरजकुंड के मेले का शुभारम्भ 20 मार्च से हो जायेगा। 20 मार्च से 5 अप्रैल तक आप इस मेले में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले भी 2 बार तारीखें तय की गयी थी, लेकिन कुछ कारणों से इसे आगे बढ़ा दिया गया। अगर आप भी सूरजकुंड का मेला देखना पसंद करते हैं तो तैयार हो जाइये अपने परिवार और दोस्तों के साथ 2 साल बाद इस मेले को एक बार फिर से देखने और इसका आनंद लेने के लिए। इस मेले में आये दर्शकों की सुविधा के लिए यह पर गेट नंबर 1 से एंट्री करते ही एक लाइन से कई सारे नक्शे दिए गए है जिससे की किसी को कोई परेशानी न हो और घूमने आये व्यक्ति आसानी से पूरे मेले में घूम सके। इस बार वर्ष 2022 में सूरजकुंड के मेले की थीम अलग रखी गयी है। आखिरी बार इसे 2020 में लगाया गया था, इसके बाद कोरोना की वजह से 2021 में इसे नहीं लगाया गया।

**सीएम गहलोत ने सत्र 2022 का बजट घोषित किया**

**प्रमोद बंसल / NCR समाचार**

1500 करोड़ की स्मार्ट सिटी योजना की नगर पालिका नगर परिषद व नगर निगम क्षेत्र में सड़कों को मरम्मत की घोषणा, प्रत्येक विधानसभा में सड़कों के लिए 10 करोड़ की घोषणा। 500 मद्रसों में स्मार्ट क्लास रूम बनने, मुख्यमंत्री ने, अल्पसंख्यकों के लिए पिटारा खोला, 7 अल्पसंख्यक बालक बालिका आवासीय भवन बनने, सावित्रीबाई बालिका छात्रावास खोले जाएंगे बालिका शिक्षा की बढ़ोतरी के लिए प्रदेश में जोधपुर में जनजाति आवासीय विद्यालय की स्थापना होगी, मुख्यमंत्री पुनर्वास योजना लागू की जाएगी, मुख्यमंत्री गहलोत ने, जामडोली में बाबा आम्टे विश्व विद्यालय बनेगा दिव्यांगों के लिए, मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना की संख्या 5000, इंदिरा रसोई की संख्या अब 1000 होगी, EWS परिवारों के लिए 100 करोड़ की घोषणा, SC-ST विकास कोष की राशि 500 करोड़, राजस्थान विधानसभा में SC, ST फंड



का बिल पेश किया जाएगा, CISF की तर्ज पर आर आई SF का गठन किया जाएगा। जहां दो हजार कर्मियों की भर्ती होगी, जयपुर, उदयपुर, कोटा में राजीव गांधी नॉलेज हब बनेगी, इस पर 2-2 करोड़ रुपए की लागत आएगी, किसी अन्य राज्य में नौकरी कर रहे हैं पदक विजेता खिलाड़ी को राजस्थान में नियुक्ति देने का प्रावधान, SOG में एंटी चींटिंग सेल का गठन होगा प्रतियोगी परीक्षाओं की भर्ती परीक्षाओं में चैटिंग को रोकने के लिए, शिक्षक पदों

की संख्या 32 हजार से बढ़ाकर 62000 की, अब जुलाई 2022 में होगी रीट की परीक्षा, पुराने अर्थर्थियों से आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा, बीकानेर भरतपुर और कोटा में विज्ञान केंद्र स्थापित होंगे, महिलाओं के लिए CM वकं फ्रॉम होम योजना की घोषणा, दिल्ली में नेहरू यूथ होस्टल बनेगा, राजीव गांधी नॉलेज हब बनेंगे, कर्मचारियों को खेल प्रतियोगिता में ऑन ड्यूटी व प्रमोशन का तोहफा, जोधपुर में 10 करोड़ की लागत से नया

खेल सेंटर बनेगा, Sms स्टेडियम में सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक का निर्माण, टॉक में मल्टीपरपज इनडोर स्टेडियम बनेगा, पैरा खेल एकेडमी बनाएगी, सामान्य खिलाड़ियों की तरह पैरा खिलाड़ियों को जमीन मिलेगी, सावित्रीबाई फुले वाचनालय खुलेंगे। 15000 छात्रों को दी जाएगी कोचिंग,विभिन्न संवर्ग में उच्च शिक्षण के क्षेत्र में कई निजी शिक्षण कॉलेजों की सीमांत, JLN मार्ग पर स्थित सभी शैक्षणिक संस्थानों को हब के रूप में

विकासित किया जाएगा, 3820 सेकेंडरी विद्यालयों को सीनियर सेकेंडरी विद्यालयों में क्रमोन्नत किया जाएगा, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बालिका विद्यालयों को क्रमोन्नत किया जाएगा, इंग्लिश मीडियम स्कूलों के लिए अलग से कैडर बनेगा, 10,000 अंग्रेजी माध्यम के शिक्षकों की भर्ती होगी, 2000 इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जाएंगे, राजस्थान पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का गठन प्रस्तावित, जयपुर में रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट खुलेगा, 200 नए खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की होगी भर्ती, 19 ब्लॉक में आयुष चिकित्सालय स्थापित होंगे, प्रत्येक जिले में कैंसर डायग्नोसिस वेन उपलब्ध होंगी, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की घोषणा, कोरोना काल में शिक्षा में नुकसान की भरपाई के लिए 3 महीने का ब्रिज कोर्स विद्यार्थियों के लिए होगा, 50 यूनिट तक बिजली फ्री मिलेगी, 118 लाख घरेलू उपभोक्ता को लाभ, 100 यूनिट तक बिजली खर्च करने वालों को 50 यूनिट फ्री, 150 यूनिट तक 3 प्रति यूनिट अनुदान, 150 से 200 यूनिट तक 2 प्रति यूनिट अनुदान दिया जाएगा।

उपलब्ध होगा, कई जिलों के जिला अस्पतालों को दिया बिस्तरों की बढ़ोतरी का तोहफा, प्रदेश के 18 जिलों में नर्सिंग कॉलेज का तोहफा, SMS अस्पताल में 5 नए विभाग खुलेंगे, महिला चिकित्सालय और जनना अस्पताल का विस्तारिकरण होगा, कोटा और बीकानेर मेंडिकल कॉलेज में पीजी छात्रावासों का तोहफा, जोधपुर में नया डेंटल कॉलेज बनेगा, 1000 नए उप स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 600 करोड़, प्रत्येक जिले में कैंसर डायग्नोसिस वेन उपलब्ध होंगी, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की घोषणा, कोरोना काल में शिक्षा में नुकसान की भरपाई के लिए 3 महीने का ब्रिज कोर्स विद्यार्थियों के लिए होगा, 50 यूनिट तक बिजली फ्री मिलेगी, 118 लाख घरेलू उपभोक्ता को लाभ, 100 यूनिट तक बिजली खर्च करने वालों को 50 यूनिट फ्री, 150 यूनिट तक 3 प्रति यूनिट अनुदान, 150 से 200 यूनिट तक 2 प्रति यूनिट अनुदान दिया जाएगा।

**मनी लॉड्रिंग मामले में ईडी ने नवाब मलिक को किया गिरफ्तार**

**अंशुप्रिया /NCR समाचार**

मनी लॉन्रिंग के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता नवाब मलिक को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। ED के अधिकारी सुबह 07 बजे उनके आवास पर पहुंचने के बाद मलिक से केंद्रीय एजेंसी ने 06 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की, उसे जल्द ही मनी लॉन्रिंग एक्ट कोर्ट की स्पेशल प्रिवेशन के सामने पेश किया जाएगा। वह ED कार्यालय से बाहर चले गए और नारे लगाते हुए कहा, हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे और हम सभी का पर्दाफाश करेंगे। इस मामले में अंडरवर्ल्ड डॉन दारुद इब्राहिम और अल्पसंख्यक विकास मंत्री और महाराष्ट्र के औकाफ के बीच कथित जमीन और पैसे का लेनदेन शामिल है। इसी मामले में विशेष अदालत ने 18 फरवरी को दारुद के भाई इकबाल कासकर को सात दिनों के लिए ED की हिरासत में भेज दिया था। ED का मामला राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा इस साल 3 फरवरी को दारुद के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी पर



आधारित है, जिसे संयुक्त राष्ट्र पाठ 'वैश्विक आतंकवादी' के रूप में नामित किया गया है, जिसे आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के लिए गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत सूचीबद्ध किया गया। तस्करि, नाकों आतंकवाद, अंडरवर्ल्ड आपराधिक सिंडिकेट, मनी लॉन्रिंग, आतंकी फंड, जुटाने के लिए संपत्ति का अनधिकृत कब्जा / अधिग्रहण और लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और अल कायदा सहित अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी संगठन के सहयोग से काम कर रहा है।

**ऐशबाग पुलिस की गिरफ्त में आए शक्तिर मोबाईल-वाहन चोर**

**देवेन्द्र कुमार जैन /NCR समाचार**

ऐशबाग पुलिस द्वारा शक्तिर मोबाइल व वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश कर लगभग 8 लाख रुपये का माल बरामद करने में सफलता प्राप्त हुई है। घटना का विवरण इस प्रकार है वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश के पालन में निरीक्षक मनीष राज सिंह भदौरिया के नेतृत्व दिनांक 21.02.2022 को इलाका भ्रमण के दौरान भोपाल अकेडमी स्कूल के पीछे, नव निर्माणाधीन कालोनी में 4 लडके संदिग्ध अवस्था में खड़े दिखाई दिये। जिन्हें ऐशबाग पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर पकड़ा गया, पूछताछ करने पर पहले व्यक्ति ने अपना नाम 1.अंकुश नील 2.देवेन्द्र सेन उर्फ NRI बाला 3.अभिषेक कुशावह 4. अतुल अहिरवार का होना बताया। चारों से



मौके पर तकनीकी संसाधन वीडिपी पोर्टल एवं फेस फोरेन्सिक का उपयोग कर पूछताछ करने पर उनसे मिले एक्टिवा वाहन एवं मोबाईल थाना ऐशबाग की चोरी का होना पाया गया। मौके पर जल्दी कार्यवाही प्रचलत चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर थाने लाया गया तथा पुनः पूछताछ करने पर कुल 28 नग मोबाइल, 3 दोपहिया वाहन, 1 एलईडी टीवी कुल कीमती सामान करीबन 8,00,000/- रूपये का

बरामद करने में सफलता प्राप्त हुई। जप्त मोबाईल एवं वाहन शहर के विभिन्न थानों निशातपुरा, छोला, टीला, मंगलवारा, जहांगीराबाद, ऐशबाग, हबीबनगर, बागसेवनिया एवं अन्य थानों से उक्त चारों बदमाशों द्वारा चोरी किये गये, जिसे बेचने की फिराक में घूम रहे थे। पुलिस द्वारा पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई। आरोपियों से पूछताछ पर इनका पूर्व का अपराधिक रिकार्ड विभिन्न थानों में होना पाया गया।

**हरियाणा ने उच्च न्यायालय के समक्ष फरलो पर रिहा करने के कदम का बचाव किया**

**अंशुप्रिया / NCR समाचार**

हरियाणा राज्य ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को फरलो (7 फरवरी से 27 फरवरी तक तीन सप्ताह की अवधि के लिए) पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष रिहा करने के अपने कदम का बचाव करते हुए कहा कि वह कट्टर कैदी नहीं है। हरियाणा सरकार पंजाब विधानसभा चुनाव के बीच में फरलो पर रिहा करने के सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली उच्च न्यायालय के समक्ष दायर पेश याचिका पर प्रतिक्रिया दे रही थी। हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिजरन (अस्थायी रिहाई) अधिनियम, 1988 की धारा 5-ए के उल्लंघन में उनकी रिहाई को चुनौती



दी गई है। याचिका में विशेष रूप से यह तर्क दिया गया है कि उनकी रिहाई से चुनाव प्रक्रिया और पंजाब राज्य की शांति भी प्रभावित होगी। हाईकोर्ट ने 18 फरवरी 2022 को इस मामले में सुनवाई के बाद हरियाणा राज्य सरकार से जवाब मांगा था, अब, राज्य सरकार ने उन्हें फरलो पर रिहा करने के अपने कदम को सही ठहराते हुए जवाब दाखिल किया है। रोहतक जेल के अधीक्षक के माध्यम से जवाब दाखिल किया गया है जिसमें कहा गया है कि

गुरमीत एक 'कट्टर कैदी' नहीं है, और उसने कोई जेल अपराध नहीं किया है। इसके अलावा, यह भी कहा गया है कि वह दो हत्या के मामलों में एक हमलावर नहीं था जिसमें उसे दोषी पाया गया था और उसने वास्तविक हत्याओं को अंजाम नहीं दिया था क्योंकि उसे अपने सह-अभियुक्तों के साथ आपराधिक साजिश रचने का दोषी ठहराया गया था। गौरतलब है कि गुरमीत वर्तमान में सिरसा स्थित अपने आश्रम में दो महिला शिष्यों से बलात्कार के आरोप में 20 साल की जेल की सजा काट रहा है। पिछले साल गुरमीत को पंचकूला की CBI कोर्ट ने रंजीत सिंह हत्याकांड में उम्रकैद की सजा सुनाई थी। 2019 में,

उन्हें 16 साल पहले एक पत्रकार की हत्या के लिए भी दोषी ठहराया गया था। कल ही, उन्हें र्खाखिलस्तान समर्थक तत्वों से उनके जीवन के लिए एक उच्च-स्तरीय खतरे के कारण, फरलो पर उनकी 21 दिनों की रिहाई के दौरान जेड-प्लस सुरक्षा कवर दिया गया था। गुरमीत ने 17 जनवरी को इस आधार पर 42 दिन के पैरोल के लिए आवेदन किया था कि उसे अपनी बीमार मां की देखभाल करनी है और अपने रिश्तेदारों से मिलना है। तत्पश्चात, उनकी रिहाई के संबंध में हरियाणा के महाधिवक्ता की सकारात्मक राय के अनुसार, उन्हें राज्य सरकार द्वारा 7 फरवरी को 3 सप्ताह की अवधि के लिए रिहा कर दिया गया था।

**केलाखेड़ा पुलिस ने अवैध शराब की भट्टियों को तोड़ा, करीब 5000 लीटर लहन किया नष्ट**



**साकिर खान /NCR समाचार**

पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा चलाए जा रहे नशामुक्त अभियान के तहत मादक पदार्थों एवं नसे की बढ़ती प्रवृत्ति पर प्रभावी अंकुश लगाए जाने अवैध तरीके से नशीले पदार्थों का क्रय विक्रय करने वालों के विरुद्ध प्रभावी चेकिंग अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक काशीपुर महोदय व पुलिस अधीक्षक अपराध महोदय के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी बाजपुर महोदय के पर्यवेक्षण में केलाखेड़ा पुलिस द्वारा

दिनांक 21/2/ 2022 को थाना केलाखेड़ा द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों / वस्तु /अवैध शराब की कसीदगी की चेकिंग में ग्राम रमपूरा काजी, गुलाब का मजरा, केलाखेड़ा में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया जिसमें पुलिस द्वारा 5000 लीटर लहन नष्ट किया गया, अनेकों शराब की भट्टियों को नष्ट किया व 40 लीटर अवैध कच्ची शराब व शराब कसीदगी के उपकरण बरामदगी के आधार पर थाना केलाखेड़ा में FIR नंबर 27/ 22 धारा 60/ 60 ( 2 ) BX ACT पंजीकृत किया गया।

**नई बहु ने परिवार को खिलाराया नशीला पदार्थ, जेवर व रुपए लेकर हुई फरार**



**प्रमोद कुमार बंसल / NCR समाचार**

कोटपुतली कृष्णा टॉकीज के पास नंदू पटवा ने अपने बेटे विजय पटवा, की शादी दिल्ली निवासी पूजा से करवाई थी शादी के लिए बिचौलियों को दिया था डेढ़ लाख रुपए, शादी के 3 दिन बाद दुल्हन ने रात्रि में खुद के लिए बनाया पास्ता व दूध, वहीं ससुर नंदू पटवा, सास गुड्डी देवी, पति विजय

पटवा, नौरती, सुनील, मोना व लक्ष्मी को सब्जी रोटी में नशीला पदार्थ खिलाया व गहने, पैसे लेकर हुई फरार, सुबह तक घर में कोई हलचल नहीं होने की वजह से पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी जिस पर पुलिस ने सभी बेहोश हुए परिवजनों को BDM अस्पताल में भर्ती कराया। टॉमा सेंटर प्रभारी श्रीराम सराधना ने बताया कि सभी परिवजनों की हालत खतरे से बाहर है।

**संसदीय क्षेत्र लाडपुरा की विधायक कल्पना देवी ने केंद्रीय मंत्री को लिखा पत्र**

**गजेन्द्र शर्मा /NCR समाचार**

संसदीय क्षेत्र लाडपुरा में नयानोरा से केथून तक राष्ट्रीय राज मार्ग के दोनों ओर सर्विस रोड निर्माण हेतु विधायक कल्पना देवी जी ने केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी को पत्र लिखकर आवगत कराया। माननीय विधायक जी के टिवटर अकाउंट से मिली जानकारी के अनुसार जवाब में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने पत्र के माध्यम से ही सहमति देते हुए आवश्यक अतिरिक्त कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है। इसी मुद्दे को लेकर जनता की

आवाज बनकर विधायक जी प्रयासरत है। **कबड्डी खिलाड़ियों के लिए शुजालपुर में विशेष ट्रेनिंग सेशन का आयोजन** शुजालपुर,, स्टूडेंट क्लब के कबड्डी खिलाड़ियों के लिए उनके कोच आनंद परमार द्वारा विशेष Exercise बताई गई। लगभग 40 बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया, Exercise सेशन Trainer विशाल जी, की उपस्थिति में संपन्न हुआ, नयन कुलदीप, निखिल अनुज, अक्षत जय, निखिल, आयुष वासु, लकी निहाल, अश्विन प्रीतम, मोनिस पायल चहेती, प्रिया, सरिता, आशिता, आशीष, राज, आयुष, अनुराग, आदि मौजूद रहे।

**संक्षिप्त समाचार**

**राकेश कुमार मीणा को महासमिति आईटी सैल विभाग से सीकर जिलाध्यक्ष के पद पर सम्मानित किया**

**जोगाराम मैन्सन / NCR समाचार**

भारतीय मानव कल्याण महासमिति, के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री श्योरान जीवन जी के आदेशानुसार एवं राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष श्री नितेश जी खंडेलवाल के निर्देशानुसार भारतीय मानव कल्याण महासमिति के राजस्थान आईटी सैल विभाग प्रमुख श्री जोगाराम मैन्सन ने राजस्थान प्रदेश के सीकर जिले की कार्यकारिणी गठित करते हुए श्री राकेश कुमार मीणा को महासमिति आईटी सैल विभाग से सीकर जिलाध्यक्ष के पद पर सम्मानित किया, इस दौरान नवनियुक्त जिलाध्यक्ष राकेश मीणा ने बताया कि भारतीय मानव कल्याण महासमिति, के पदाधिकारियों द्वारा हमें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है उस पर हम पुर्ण इमानदारी एवं सत्यनिष्ठा से खरा उतरेंगे इस दौरान महासमिति से सभी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने राकेश मीणा को बधाई दी।

**42 मोबाईल मय चार्जर व मोबाईल एसेसरीज, मोटरसायकिल समेत 4.50 लाख रुपये का सामान बरामद**



**देवेन्द्र कुमार जैन / NCR समाचार**

पुलिस आयुक्त भोपाल श्री मकरंद देउस्कर, अति. पुलिस आयुक्त भोपाल श्री सचिन कुमार अनुलकर एवं पुलिस उपायुक्त श्री रियाज इकबाल के द्वारा सम्पत्ति संबंधी अपराधों में नियंत्रण रखते हुए निर्देशित किया गया है। प्राप्त निर्देश के पालन में अति. पुलिस उपायुक्त जेन-3 भोपाल श्री रामसनेही मिश्रा एवं सहायक पुलिस आयुक्त श्री गोपाल सिंह चौहान के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी महेन्द्र सिंह ठाकुर थाना हनुमानगंज जिला भोपाल द्वारा टीम गठित की गई। सम्पत्ति संबंधी मामले में निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुए थाना प्रभारी महेन्द्र सिंह ठाकुर द्वारा अपनी टीम के साथ मिलकर क्र 97/22 धारा 457,380 भादवि, के घटना स्थल प्रकाश मोबाईल की दुकान चैतन्य मार्केट के संबंध में चैतन्य मार्केट, घोडानक्काश, जुमेराती, हमीदिया रोड, दवा बजार, भोपाल टाकीज चौराहा, छोला रोड के CCTV फुटेज संकलित किये गये व टेक्निकल इन्वेस्टीगेशन की मदद से आरोपी पकड़े गए।

**अवैध कारोबार मादक पदार्थ के विक्रय पर अंकुश व यातायात व्यवस्था को लेकर कार्यवाही शुरु**



**ब्रज कुमार राठौर / NCR समाचार**

अकांठिया थाना का प्रभार संभालते ही नवनियुक्त थाना प्रभारी लक्ष्मणसिंह देवड़ा ने नगर की कानूनी व्यवस्था को लेकर पूरी तरह से कमर कस ली है। रविवार को प्रभार संभालते ही थाना प्रभारी देवड़ा ने सोमवार को सट्टा लिखने वालों पर कार्यवाही की। वहीं मंगलवार को यातायात व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए वाहन चालकों को सख्त हिदायत दी गई। थाना प्रभारी देवड़ा ने बस एजेंट व आटो चालकों को नगर परिषद प्रांगण में बने बस स्टैंड पर वाहन खड़े करने के निर्देश दिए। इसके बाद नगर का पुलिस जवानों के साथ दौरा कर दुकानों के बाहर जमाए हुए अतिक्रमण व अव्यवस्थित वाहनों को हटाने की हिदायत दी। मंगलवार को भी सट्टा संचालकों की हुई धड़-पकड़ नगर में मादक पदार्थों के विक्रय पर पाबंदी व सट्टा जुआ पर अंकुश लगाने के लिए थाना प्रभारी देवड़ा ने मंगलवार को भी दल बल के साथ सट्टा के अवैध व्यापार में लिप्त लोगों के ठिकानों पर भी चेकिंग अभियान चलाया गया सट्टा चलाने वाले लोगों पर कार्रवाई की गई।

**FSL को भोपाल या कहीं और स्थानांतरित नही किया जायेगा, सागर में ही यथावत रहेगी**

**मुकेश हरयाणी / NCR समाचार**

सागर के विधायक शैलेंद्र जैन ने बताया कि सागर में संचालित राज्य न्यायालय विज्ञान प्रयोगशाला (FSL) के संबंध में मुझे सोशल मीडिया एवं अन्य संसाधनों के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई थी सागर की (FSL) को भोपाल स्थानांतरित किया जा रहा है इस संबंध में मैंने भोपाल में पदस्थ उच्च अधिकारी (ADG) जी.पी सिंह से इस विषय की जानकारी ली उन्होंने बताया कि शासन का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। परंतु उच्च न्यायालय तक पहुंचे कुछ प्रकरणों को मद्देनजर रखते हुए कुछ प्रशासनिक अधिकारियों को भोपाल में अस्थाई रूप से शिफ्ट किया है सारे तकनीकी अधिकारी सागर में पदस्थ हैं और सारे कार्य सागर से ही संचालित होंगे। इस संबंध में विधायक जी ने कहा कि यह जनभावनाओं से जुड़ा हुआ विषय है और हम किसी भी कीमत पर (FSL) को भोपाल या कहीं और स्थानांतरित नही किया जायेगा और जो अस्थाई व्यवस्था शासन ने की है इसके संबंध में भी आगामी 7 मार्च से आयोजित बजट सत्र में चर्चा की जाएगी।

**पूर्व संसदीय सचिव रामस्वरूप कसाना ने तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन**

**प्रमोद कुमार बंसल / NCR समाचार**

पूर्व संसदीय सचिव रामस्वरूप कसाना द्वारा दिए गए ज्ञापन में ग्राम पंचायत पवाना अहीर में हो रही अवैध खनन एवं हैवी ब्लास्टिंग की वजह से वहां स्थित मकानों में दरारें आ रही है जिसके कारण कभी भी जान माल की हानि हो सकती है। मकानों के गिरने का भय यहां के ग्राम वासियों हमेशा बना रहता है। साथ ही अवैध खनन एवं अवैध ब्लास्टिंग से सारे दिन धूल उड़ती रहती है जिससे कि यहां के ग्राम वासियों में अनेक घातक बीमारी होने की संभावना ज्यादा बढ़ रही है।

**अभी तक विभिन्न राज्यों के सैकड़ों लोगों को बना चुकें है ठगी का शिकार**

**देवेन्द्र कुमार जैन / NCR समाचार**

वरिष्ठ अधिकारियों एवं पुलिस उपायुक्त (अपराध)-अति. पुलिस उपायुक्त (अपराध) एवं सहायक पुलिस आयुक्त (सायबर) के दिशा निर्देशन में सायबर क्राइम ब्रान्च जिला भोपाल की टीम द्वारा OLG पर कम कीमत में iPhone कम्पनी के मोबाईल फोन उपलब्ध कराने का विज्ञापन देकर कई लोगों को ठगी करने वाले शांति आरोपी को सायबर क्राइम भोपाल की टीम ने किया गिरफ्तार। फरियादी निर्मित निगम निवासी शिवा अपार्टमेंट दानिश कुंज कोलार भोपाल OLG पर कम कीमत में iPhone कम्पनी के मोबाईल फोन खरीदते समय 194233/-रु की ठगी के संबंध में लिखित शिकायत आवेदन क्र-एल सी-3043/2021



दिनांक 10/12/2021 को सायबर क्राइम भोपाल में प्राप्त हुआ। जिसमें जांच उपरान्त अज्ञात मोबाईल नम्बर व खाता धारक के विरुद्ध अपराध क्रमांक 23/22 धारा 420 भादवि का कायम कर विवेचना में लिया गया। आरोपी OLG पर कम कीमत में iPhone कम्पनी के मोबाईल फोन उपलब्ध कराने का विज्ञापन देते थे। संपर्क हेतु विज्ञापन पर

दिए गए मोबाईल नम्बरों पर जब ग्राहकों द्वारा iPhone कम्पनी के मोबाईल फोन खरीदने के लिए संपर्क किया जाता था तब आरोपी द्वारा ग्राहकों को iPhone कम्पनी के मोबाईल फोन मोबाईल के फोटो एवं ग्राहक के नाम पर फर्जी बिल तैयार कर भेजते थे जिससे फरियादी को आरोपी की बातों पर भरोसा हो जाता था। वही आरोपियों द्वारा ग्राहकों के भरोसे का

फायदा उठाकर, ग्राहकों से पिनकोड पर डिलेवरी न होना, गेटपास, डिलेवरी फीस एवं अन्य चार्ज आदि के नाम पर मोटी रकम ऐंड लेते थे, तथा फोन भी डिलेवरी नहीं करते थे तथा ग्राहक का फोन रिसीव नहीं करते थे उनसे कोई भी संपर्क नहीं करते थे उक्त रकम को बैंक खातों में जमा कराते है तथा एटीएम के माध्यम से नाद आहरण कर लेते थे। सायबर क्राइम जिला भोपाल की टीम द्वारा शिकायत आवेदन पत्र पर अपराध कायमी के पश्चात त्वरित कार्यवाही कर तकनीकी एनालिसिस एवं अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के आधार पर प्राप्त साक्ष्यों के माध्यम से गांजियाबाद से एक आरोपी को गिरफ्तार कर आरोपी के कब्जे से 5 मोबाईल फोन मय सिम, 2 डेबिट कार्ड एवं 6 सिमकार्ड को जप्त किया गया है।

**फरीदाबाद के बढ़ते आपराधिक मामलों ने दी माँ बाप की बूढ़ी आखों को रोने की वजह**

**नमिता चौहान / एनसीआर समाचार**

ओल्ड फरीदाबाद संत नगर में कल देर रात एक ऐसी आपराधिक घटना हुई जिसने माँ बाप की बूढ़ी आखों को बची खुची पूरी जिंदगी में रोने की वजह दे दी। आय दिन फरीदाबाद में कोई न कोई आपराधिक मामले होते ही रहते हैं, लेकिन हरियाणा पुलिस ने अभी तक कोई कठोर कदम नहीं उठाया है। ये सब कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन की ही लापरवाही है कि आज भी इतने क्राइम हो रहे हैं। ओल्ड फरीदाबाद के एक गरीब परिवार जो रेलवे फाटक के पास की झुग्गी में रहता है और छोटा मोटा काम करके अपना पेट पालता है। परिवार में 4 भाई और बूढ़े माँ बाप है जो बेटों के सहारे जी रहे हैं उस माँ बाप को इस बुढ़ापे में कुछ बदमाशों ने ऐसा गम दे दिया कि उन्हें अपने जिन्दा रहने पर अफ़सोस हो रहा होगा। इस परिवार का



एक पूत आज भगवान को प्यारा हो गया। मृतक का नाम हरिओम बताया जा रहा है जिसकी उम्र 38 से 39 वर्ष बताई जा रही है। बीते रात हरिओम की लूटपाट के इरादे से चाकू गोदकर हत्या कर दी गई। रात भर बाँधी यूँ ही सड़क पर पड़ी रही, लेकिन किसी ने भी न तो पुलिस को सूचित किया और न ही परिवार को। सुबह करीब 8:30 बजे जब मृतक का मालिक जहाँ वो काम करता है उस व्यक्ति ने वहाँ से गुजरते हुए जब मृतक के शरीर को यूँ पड़े देखा तो पुलिस के

साथ साथ परिवार को भी इस बात की सूचना दी। कोई भी माँ बाप कभी ये नहीं चाहता की उसके जीते जी उसके बच्चे को कोई भी परेशानी हो। ऐसे में अगर माँ बाप के सामने बच्चे की अर्थाँ उठे तो उस माँ बाप को जीते जी नर्क दिखने लगता है। पुलिस ने पोस्टमॉरम के बाद युवक के पार्थिव शरीर को परिवार को सौंप दिया। इस मामले में पुलिस का कहना है कि रोड के CCTV में इस घटना की पूरी रिकॉर्डिंग है और जल्द ही उन अपराधियों को पकड़ लिया जायेगा।

**जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट लागू कराने का सभी पत्रकार साथी एकजुट होकर करें प्रयास: अनुराग सक्सेना**

**रंजीत चौरसिया / NCR समाचार**

सभी पत्रकार साथी एकजुट होकर जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट लागू कराने का प्रयास करें, सभी के सहयोग से ही यह संभव हो सकता है। पत्रकारों पर हो रहे हमले और उनकी हत्याओं को सरकार नजर अंदाज कर रही है। अब इसके लिए सभी संगठनों को संयुक्त प्रयास करना होगा। यह विचार एक गोष्ठी के दौरान पत्रकारों की संस्था जर्नलिस्ट कार्सिल ऑफ़ इंडिया (रॉज.) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग सक्सेना ने रखे। उन्होंने कहा कि आज आवश्यकता है कि पत्रकार जन सरोकार की पत्रकारिता करें, जिससे उन्हें वह सम्मान प्राप्त हो जिसके वह अधिकारी है। चापलूसी और पीत



पत्रकारिता से बचे। अनुराग सक्सेना ने कहा कि आज सभी लोग मीडिया बदलाव की बात तो करते हैं पर इनमें कोई भी बदलना नहीं चाहता। सभी एक ही नाव पर सवार हैं पर स्थिति तो डावाडोल और नाजुक है। जो आम जनमानस की आवाज है वही कराह रही

है तो कौन खड़ा होगा समाज को आइना दिखाने के लिए, सरकार और सरकार के कार्यों पर कौन रखेगा नजर हमारी और आपकी परेशानियों को सरकार तक कौन पहुंचायेगा, विद्यार्थियों, कामगारों और आम जनता की आवाज कौन बनेगा, अब भी वक़्त है कि हम संभल

जायें, चकाचौंध, टी.आर.पी की दौड़ और पैसों के पीछे न भाग कर हम निष्पक्ष पत्रकारिता पर ध्यान दें तो शायद लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ खोखला होने से बच जाये। और पत्रकारों को अपना खोया हुआ सम्मान वापस मिल जाये। आज चाटुकारिता ने हमें दलालों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया है। कोई भी कहीं भी हम पर आक्रामक हो जाता है क्यों। इस पर सरकारों का लगातार पत्रकारों की मांगों को नजरअंदाज करना यही दर्शाता है कि हम भी अपने रास्ते और लक्ष्य से भटक चुके हैं। पत्रकारिता और पत्रकारों को अपना खोया हुआ सम्मान वापस लाने के लिए जन सरोकार की पत्रकारिता से जुड़ना होगा।

**कोरोना के नए वेरिएंट का खतरा चिकित्सा शिक्षा विभाग के आदेश अनुसार अंतरराष्ट्रीय सेमिनार एवं वर्कशॉप का आयोजन किया गया**

**नए वैक्सीन और उपचार की संभावनाओं पर देशभर के विशेषज्ञों ने किया मंथन**

**मुकेश हरयाणी / NCR समाचार**

सागर। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर में मंगलवार को मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा विभाग के आदेश अनुसार अंतरराष्ट्रीय सेमिनार एवं वर्कशॉप का आयोजन किया गया, BMC के टी.बी.वें चेरस्ट रोग और माइक्रोबायोलॉजी विभाग के संयुक्त तत्वधान से आयोजित हुए इस सेमिनार में मुख्य तौर पर अभी तक जो विभिन्न प्रकार के कोरोना वायरस के वैरीअंट जैसे अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और ओमिक्रोन से संबंधित जानकारी साझा की गई। इसके साथ ही कोरोना वायरस के नए वेरिएंट आने की संभावना तलाशी गई। जैसे कि डेल्टाक्रोन नए वेरिएंट के आने की संभावना के बारे में भी चर्चा की गई, इसके अलावा सेमिनार में नए वेरिएंट के लक्षण और नए ट्रीटमेंट के बारे में भी बात की गई। सबसे जरूरी बात जो



इस सेमिनार से संबंधित रही वह विभिन्न प्रकार के उपलब्ध वैक्सीन जो आज के समय में अभी तक जितने भी कोरोना वायरस के वेरिएंट आए हैं उनके विरुद्ध असरकारक है, लेकिन आने वाले नए वेरिएंट के लिए यह वैक्सीन जो अभी इस्तेमाल हो रही वह कितने असरकारक होगी और नए वैक्सीन की संभावनाएं कितनी हो सकती हैं, इसके बारे में भी विस्तृत तौर पर चर्चा की गई। सेमिनार के मुख्य अतिथि प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री माननीय विश्वास

सारांग थे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में चिकित्सा शिक्षा आयुक्त श्री निशांत बरबड़े, संभाग आयुक्त श्री मुकेश शुक्ला, BMC के डीन डॉ आरएस वर्मा, CMHO डॉ. सुरेश बौद्ध, सिविल सर्जन डॉ. ज्योति चौहान और IMA के अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र चउदा मौजूद रहे। इस सेमिनार के ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन डॉ. तल्हा साद एवं डॉ. अमरदीप राय थे और ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेट्री की भूमिका डॉ. सुमित रावत ने निभाई। सेमिनार में काफी बढ़-चढ़कर मेडिकल स्टूडेंट और

मेडिकल कॉलेज की फैकल्टी ने सहभागिता दी। सेमिनार में देशभर के मेडिकल एक्सपर्ट ने रखे अपने विचार: इस सेमिनार में देश प्रदेश के विभिन्न वरिष्ठ चिकित्सक ने भी अपनी जानकारी साझा की। इसमें प्रमुख तौर पर PGI चंडीगढ़ के वायरोलॉजी के हेड डॉ आरके राठी और एम्स भोपाल के पूर्व डायरेक्टर डॉ सरमन सिंह, BHU वायरासी के डॉक्टर ज्ञानेश्वर चौबे और मणिपाल के डॉक्टर किरण जे मुखोपाध्याय थे। इन्होंने कोरोना वायरस

**राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम तहसीलदार को दिया ज्ञापन**

**प्रमोद बंसल / NCR समाचार**

कोटपुतली अधिभावक संघ ने राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम कोटपुतली तहसीलदार को एक ज्ञापन सौंपा जिसमें एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट एवं अधिवक्ता कल्याण निधि में संशोधन एवं युवा अधिवक्ताओं को जिनकी वकालत नियमित तौर पर 5 वर्ष की अवधि से कम है उनके लिए मानदेय भत्ता राशि कम से कम ₹10000 रु. प्रतिमाह स्वीकृत करने की मांग की है। एवं अधिवक्ताओं के साथ आए दिन हो रही अपराधिक घटनाओं एवं मारपीट बंदसलूकी की वारदातों को देखते हुए राजस्थान सरकार से तुरंत प्रभाव से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने की मांग की है साथ ही ज्ञापन में अधिवक्ता कल्याण निधि में बार काउंसिल ऑफ राजस्थान सरकार के द्वारा लिए गए प्रस्ताव का अनुमोदन हो जौकि गट बाई साल से राज्य सरकार



के स्तर से लंबित है उसका भी तुरंत प्रभाव से अनुमोदन किए जाने की मांग ज्ञापन में अधिभाषक संघ कोटपुतली द्वारा राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित बजट सत्र 2021-2022 में पूरी करने की पुरजोर मांग की गई है की गई है। कोटपुतली अधिभावक संघ अध्यक्ष एडवोकेट अशोक कुमार यादव उपाध्यक्ष एडवोकेट रंजीत कुमार मीणा सचिव एडवोकेट ओमप्रकाश मीणा सह सचिव एडवोकेट कुमार ज्योति शर्मा कोषाध्यक्ष दिनेश कुमार अग्रवाल आदि ने कोटपुतली तहसीलदार को राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन सौंपा।

**समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश नाईट कर्फ्यू होगा समाप्त**

**देवेन्द्र कुमार जैन / NCR समाचार**

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण की परिस्थितियाँ पूरी तरह नियंत्रण में हैं इसलिए नाईट कर्फ्यू मंगलवार से समाप्त किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान निवास पर कोरोना की समीक्षा बैठक ले रहे थे। चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास सारांग, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैस, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य श्री मोहम्मद सुलेमान, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री मनीष रस्तोगी सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।



**गमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान**

केयर सेंटर बंद किए जाएं। अस्पतालों में कोरोना उपचार की पर्याप्त व्यवस्था है, अस्पताल में कम से कम एक वार्ड कोरोना के मरीजों के लिए रिक्त रखा जाए। वेंटिलेटर्स के रख-रखाव की बेहतर व्यवस्था रखें ताकि जरूरत पड़ने पर उनका उपयोग किया जा सके। कंसल्टेंट और ऑक्सिजन लाइन का मटेनेंस करते रहें। कोविड के कारण बढ़ाई गई सुविधाओं और इंफ्रस्ट्रक्चर का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करें, अस्पतालों में साफ-सफाई और मरम्मत कार्य समय पर होता रहे। स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए, अस्पतालों में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं चकाचक रहें।

बैठक में मंत्री डॉ.नरोत्तम मिश्रा, श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया, डॉ.प्रभुराम चौधरी सहित अन्य मंत्रीगण वचुंअली जुड़े, मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सावधानी और सजगता के साथ होली और रंगपंचमी के त्योहार मनायें, कोरोना अनुकूल व्यवहार करें। मास्क लगायें और सोशल डिस्टेंसिंग रखें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि कोविड-19

**हाईकोर्ट ने कोटपुतली नगरपालिका द्वारा व्यापारियों को दिए गए संपूर्ण नोटिस खारिज**



**मनोज अग्रवाल / NCR समाचार**

कोटपुतली नगर पालिका द्वारा दिए गए व्यापारियों को अवैध भूखंड एवं अवैध निर्माण से संबंधित संपूर्ण नोटिस को जयपुर न्यायालय द्वारा पूर्ण रूप से खारिज किया गया। मुख्य न्यायाधीश अंकित कुरेशी एवं न्यायाधीश सुदेश बंसल की

खंडपीठ याचिका की याचिकाएं स्वीकार करते हुए नगर पालिका कोटपुतली की ओर से दिए गए संपूर्ण नोटिस को खारिज किया गया, जिससे कोटपुली व्यापारियों में काफी हर्ष का माहौल देखने को मिला। व्यापारियों ने जगह-जगह आतिशबाजी करके खुशी जाहिर की।

के मूल स्ट्रक्चर के संबंध में जानकारी दी। इसके साथ ही AMU से डॉक्टर मोहम्मद शमीम और जबलपुर से डॉक्टर जितेंद्र भार्गव ने विभिन्न प्रकार के वैरीअंट में लक्षण मिलते हैं उससे संबंधित जानकारी दी। एम्स हैदराबाद से डॉक्टर रोहित सलूजा और एम्स भोपाल से डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कोरोना वायरस के जिनोम सीक्वेंसिंग के संबंध में जानकारी दी। बीएमसी में वायरोलॉजी विभाग के हेड डॉ सुमित रावत ने इस विभिन्न प्रकार की जिनोम सीक्वेंसिंग के प्रैक्टिकल तौर पर जो परेशानियाँ आ रही हैं उससे संबंधित जानकारी दी। टीबी एवं चेरस्ट रोग विभागाध्यक्ष डॉ तल्हा साद और AMU के डीन डॉक्टर राकेश भार्गव ने कोरोना वायरस के विभिन्न प्रकार के वैरीअंट के भिन्न-भिन्न इलाज से संबंधित जानकारी साझा की। सेमिनार के बाद दोपहर 2 बजे से वर्कशॉप का भी आयोजन किया गया। वर्कशॉप में AIIMS भोपाल से डॉक्टर आशीष व्यास और 3बी ब्लैक बायो के डॉक्टर सुधीर गुप्ता और AIIMS भोपाल से डॉ अतिरुद्ध सिंह मौजूद रहे। इन्होंने विभिन्न प्रकार के जिनोम सीक्वेंसिंग के संबंध में बताया। मंच संचालन डॉ. मनीष जैन और डॉ. नेहा सोनी ने किया। इस दौरान डॉ प्रवीण खरे, डॉ.सर्वेश जैन, डॉ.संजय जैन, डॉ.सुशील गौर, डॉ.पुण्य प्रताप सिंह, डॉ.शोहेब अख्तर, डॉ.मानसी गुप्ता, डॉ.रुचि अग्रवाल, डॉ.रश्मि उपपल, डॉ.सुरेंद्र महौर, डॉ.नीलू जैन, वायरोलॉजी लैब के वैज्ञानिक रोबिन शर्मा और नीतू मिश्रा, डॉ.प्रंजल नेमा, डॉ.अनुश्री, डॉ.प्रतिमा वर्मा आदि चिकित्सक और लैब टेक्नीशियन, अखिल जैन, अमित जैन, अमित शर्मा, ओमप्रकाश झा, जितेंद्र त्रिपाठी, अरविंद रघुवंशी आदि मौजूद थे।

**संपादकीय**

**उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में महिला मतदाता निभाएंगी अहम भूमिका**

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का चौथा चरण संपन्न हो चुका है। आगामी 10 मार्च को यह तय हो जाएगा कि इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? क्या योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा फिर से पांच साल जनता की सेवा करेगी या सपा के नेतृत्व में अखिलेश यादव कुर्सी संभालेंगे? उत्तर प्रदेश में चित्र साफ नजर आ रहा है कि इस बार चुनाव एकपक्षीय नहीं है। यह चुनाव विकास के मुद्दों पर एवं आरोप-प्रत्यारोप से घिरे हुए तमाम राजनीतिक उतार-चढ़ाव में अपना वजूद तलाश रहा है। पिछले पांच वर्षों से भाजपा नीत सरकार में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ का दावा है कि पुनः

भाजपा की सरकार बनेगी। विकास ही भाजपा के लिए चुनावी मुद्दा है। चौथे चरण के मतदान के बाद बीजेपी द्वारा अपने विकास के कार्यों में महिला सुरक्षा को सबसे बड़ा विषय बनाकर प्रचार किया जा रहा है। बि.संदेश महिलाओं के प्रति निरंतर बढ़ते अपराध समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय हैं। महिलाओं को सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने हरसंभव प्रयास किया है। महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए राज्य में सेफ सिटी परियोजना को लागू किया गया। महिलाओं एवं बालिकाओं के साथ छेड़छाड़ रोकने के लिए एंटी रोमियो स्क्वायड का गठन किया गया। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार की सेफ सिटी योजना में अभी तक राज्य का केवल लखनऊ शहर ही सम्मिलित है। राज्य सरकार ने इसे राज्य के 17 अन्य शहरों में लागू करने का निर्णय लिया है। इसके लिए बजट में 97 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। इस योजना में राज्य के सभी नगर निगम वाले शहरों को महिलाओं के लिए सेफ सिटी बनाने की व्यवस्था की जाएगी। सेफ सिटी परियोजना में केंद्र सरकार 40 प्रतिशत और राज्य सरकार 60 प्रतिशत धनराशि व्यय करेगी। केंद्र सरकार ने अपने हिस्से की 62 करोड़ 89 लाख रुपये की धनराशि जारी कर दी है। अब कानपुर, प्रयागराज, मेरठ, अलीगढ़, बनारस, अयोध्या, मथुरा, शाहजहांपुर, सहारनपुर, गाजियाबाद, फिरोजाबाद, मुद्राबाद, आगरा, गोरखपुर, झांसी एवं बरेली भी सेफ सिटी बनाए जाएंगे। सेफ सिटी में महिलाओं की सुरक्षा का दायित्व भी महिला पुलिस कर्मियों पर ही होगा। उनके पास गुलाबी रंग के स्कूटर और एसयूवी वाहन होंगे, जिससे वे अपराधिक तत्वों पर दृष्टि रखेंगी। महिलाओं के लिए पिक टॉयलेट भी बनाए जाएंगे। ऐसे क्षेत्रों को चिह्नित किया जाएगा, जहां महिलाओं का आवागमन रहता है और वहां स्ट्रीट लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है। वहां पर्याप्त प्रकाश और सुरक्षा की व्यवस्था की जाएगी। बसों में सीसीटीवी कैमरे और पैनिक बटन की भी व्यवस्था की जाएगी। यह एक ऐसा बटन है, जिसके माध्यम से संकट की स्थिति में आसानी से इमरजेंसी कॉल की जा सकेगी। इन शहरों में जगह-जगह महिला पुलिस किचोस्क बनाए जाएंगे, जहां महिला पुलिसकर्मियों को तैनात किया जाएगा। परियोजना पर निगाह रखने के लिए वूमैन पॉवर लाइन 1090 की क्षमता दोगुनी कर दी जाएगी। महिला पुलिस कर्मियों को लाने ले एवं ले जाने के लिए बस और एसयूवी की व्यवस्था की जाएगी। महिला पुलिस कर्मियों को सादे कपड़ों में स्कूल, कॉलेज, अन्य शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थानों आदि के पास भी तैनात किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि पिछले चार वर्ष की समयावधि में स्वचायड द्वारा 98 लाख 55 हजार 867 व्यक्तियों की वेंकिए करते हुए जो हजार 948 अभियोग पंजीकृत किए गए तथा 14 हजार 958 व्यक्तियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की गई, जबकि 41 लाख 21 हजार 745 व्यक्तियों को वेतानवी दी गई। महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए राज्य के सभी 1535 थानों में महिला हेल्प डेस्क स्थापित किए गए। बेहतर पुलिसिंग के लिए लखनऊ एवं नोएडा में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की गई। पहली पुलिस फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए बजट की व्यवस्था की गई। पुलिस अधीक्षक कार्यालयों में भी एफआईआर काउंटर की स्थापना की गई। महिलाओं की सुरक्षा के लिए वूमैन पावर लाइन 1090 संचालित की गई। यूपी-112 नवंबर का रिस्पॉन्स टाइम अब 10-40 मिनट का हो गया है। इससे छह लाख 46 हजार लोगों की सहायता की गई। उच्च न्यायालय, जनपदीय न्यायालय, मेट्रो स्टेशन तथा महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश सिक्वोरिटी का गठन किया गया। एक लाख 337 हजार से अधिक पुलिस कर्मियों की भर्ती की गई तथा 32 हजार 861 अराजपत्रित पुलिस कर्मियों को पदोन्नत किया गया। आतंकी गतिविधियों पर अंकुश के लिए स्पेशल पुलिस ऑपरेशन टीम का गठन किया गया। राज्य में 18 विधि विज्ञ प्रयोगशालाओं के निर्माण का कार्य जारी है। लखनऊ, वाराणसी, आगरा एवं मुद्रादाबाद में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला के भवन निर्मित किए गए तथा यूनिट क्रियाशील है। मोबाइल कम्युनिकेशन प्लान का सृजन किया गया। राज्य में 213 नये थानों की स्थापना की गई, जिनमें 75 विद्युत थाने, पांच महिला थाने, 10 सर्कलता थाने, चार आर्थिक अपराध इकाई पुलिस थाने, 36 घोषणा से आच्छादित थाने, 27 अन्य स्थापित नवीन थाने तथा 40 मानव तस्करी रोधक इकाई को पुलिस थाने का दर्जा दिया गया। लखनऊ और गौतमबुद्ध नगर में साइबर थाने क्रियाशील हैं, जबकि 16 अन्य परिक्षेत्रीय मुख्यालयों में साइबर क्राइम थानों की स्थापना की गई, जिनमें बरेली, मुद्रादाबाद, सहारनपुर, आगरा, अलीगढ़, कानपुर, प्रयागराज, चित्रकूट, गोरखपुर, देवीपाटन, बस्ती, वाराणसी, आजमपुर, मिर्जापुर एवं अयोध्या सम्मिलित है। राज्य के प्रत्येक जिले में साइबर सेल का गठन किया गया। महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन की स्थापना की गई। उल्लेखनीय यह भी है कि उत्तर प्रदेश महिला आयोग द्वारा समय-समय पर कार्यशालाओं का आयोजन कर महिलाओं को उनके अधिकारों की जानकारी दी जाती है। महिलाओं एवं बालिकाओं को त्वरित न्याय दिलाने के लिए पृथक 81 मजिस्ट्रेट स्तरीय न्यायालय एवं 81 अपर सत्र न्यायालय क्रियाशील हैं। पॉक्सो एक्ट में त्वरित न्याय दिलाने के लिए 218 नये फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित किए गए। इसके अतिरिक्त महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार प्रदान करने के उद्देश्य से राजस्व संहिता में पौत्री, भतीजी और भांजी को भी भौमिक अधिकार दिए जाने का प्रावधान किया गया है। प्रयागराज में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना का निर्णय लिया गया है। जनपदों में न्यायालयों के भवन निर्माण के लिए 450 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। माननीय न्यायमूर्तिगण के लिए आवासीय भवनों के निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया।

**अजय कुमार**

उत्तर प्रदेश में चार चरणों का मतदान हो चुका है। अब तीन चरणों का मतदान बाकी रह गया है। चौथे चरण का मतदान 23 फरवरी को सम्पन्न हुआ था और यह चरण बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के लिए काफी अहम दिखाई दिया। भले ही अधिकांश सीटों पर भाजपा-समाजवादी प्रत्याशियों के बीच कांटे की टक्कर होती नजर आ रही थीं, लेकिन कई सीटों पर कांग्रेस और बसपा के प्रत्याशी भी पर मजबूती के साथ चुनाव लड़ते दिखाई दीं। इसमें लखनऊ मध्य से लेकर तमाम जिलों की सीटें शामिल हैं। बसपा और कांग्रेस प्रत्याशियों के मुकाबले में दिखाई पड़ने का भाजपा या सपा में से किसको ज्यादा नुकसान होगा, इसको लेकर राजनैतिक पंडित भी दुविधा में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जहां त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है और मुस्लिम वोट बंटते नजर आए, वहां बीजेपी की जीत आसान हो सकती है तो कांग्रेस की मजबूती भाजपा को नुकसान पहुंचा सकती है। सिलसिलेवार सीटों की समीक्षा की जाए तो लखनऊ में मतदान का रद्धान बता रहा है कि लखनऊ पश्चिम,बख्शी का तालाब (बीकेटी), मध्य और मोहनलालगंज सीटों पर कांटे की लड़ाई है। इन सीटों पर बसपा ने ठीकठाक तरीके से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, जो चौकाने वाली बात हो सकती है। लखनऊ ग्रामीण की सीटों मोहनलालगंज व मलिहाबाद में बसपा भी ठीक लड़ी। उत्तर सीट पर सपा और

**चौथे चरण में गांधी परिवार की भी परीक्षा हुई। रायबरेली की सदर, ऊंचाहार व हरचंदपुर विधानसभा सीटों पर भाजपा और सपा मुख्य मुकाबले में दिखी। यहां की सदर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी डॉ. मनीष चौहान और हरचंदपुर से सपा से कांग्रेस में आए पूर्व मंत्री सुरेंद्र विक्रम सिंह उर्फ पंजाबी सिंह ने विरोधी दलों को टक्कर दी।**

भाजपा के बीच ही मुख्य मुकाबला रहा। सरोजननगर, कैट व पूर्वी सीट पर भी सपा और भाजपा में मुकाबला है। चौथे चरण में गांधी परिवार की भी परीक्षा हुई। रायबरेली की सदर, ऊंचाहार व हरचंदपुर विधानसभा सीटों पर भाजपा और सपा मुख्य मुकाबले में दिखी। यहां की सदर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी डॉ. मनीष चौहान और हरचंदपुर से सपा से कांग्रेस में आए पूर्व मंत्री सुरेंद्र विक्रम सिंह उर्फ पंजाबी सिंह ने विरोधी दलों को टक्कर दी। ऊंचाहार में पूर्व मंत्री डॉ. मनोज कुमार पांडेय ने इस बार हैट्रिक के लिए जोर लगाया, वहीं भाजपा के प्रत्याशी अमरपाल मौर्य ने भी पूरा दम लगाया। बहरावां विधानसभा सीट पर भाजपा-अपना दल गठबंधन के प्रत्याशी लक्ष्मीकांत रावत, सपा के श्याम सुंदर भारती, कांग्रेस प्रत्याशी सुशील पासि के बीच तगड़ा मुकाबला रहा। सरेंनी में चतुकोणीय मुकाबला देखने को मिला। हरदोई में आश्चर्यजनक रूप से दो विधान, जहां



सीटों पर भाजपा का सीधा मुकाबला सपा की जगह बसपा से होला दिख रहा है। बाकी सीटों पर भाजपा-सपा में लड़ाई रही। संडीला में भाजपा व बसपा, तो बिलग्राम मल्लावां में भाजपा, बसपा व कांग्रेस लड़ाई में रहे। शाहाबाद में भाजपा व सपा प्रत्याशियों के साथ ही निर्दलीय प्रत्याशी अखिलेश पाठक के बीच त्रिकोणीय मुकाबला दिखा। अन्य पांच सीटों सवायजपुर, हरदोई सदर, गोपामऊ, सांडी व बालामऊ में भाजपा और सपा मुख्य लड़ाई में रहे। सीतापुर की आठ सीटों पर भाजपा-सपा में सीधा मुकाबला दिखा, जबकि महमूदाबाद सीट पर त्रिकोणीय लड़ाई है। पिछले चुनाव में सात सीटें भाजपा को मिली थीं, जबकि एक-एक सीट पर सपा-बसपा के प्रत्याशी जीते थे। उन्नाव की चार सीटों पर सपा और भाजपा के बीच सीधा मुकाबला दिखा। दो सीटों पर त्रिकोणीय संघर्ष के आसार हैं। मोहान, पुरवा और भगवंतनगर में सपा व भाजपा के बीच कांटे की लड़ाई नजर आई, जबकि बांगरमऊ में सपा, भाजपा और कांग्रेस के बीच मुकाबला देखने को मिल रहा है। सफीपुर में सपा, भाजपा और बसपा के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। सबसे कड़ा मुकाबला सदर विधानसभा सीट पर सपा-भाजपा के बीच नजर आ रहा है। लखीमपुर खीरी और पीलीभीत की कुल 12 सीटों में से 10 सीटों पर भाजपा-सपा के बीच कांटे की टक्कर दिखी। वहीं दो सीटों पर बसपा भी दौड़ता हुआ दिखाई दिया। लखीमपुर खीरी में आठ विधानसभा सीटों में से सात पर भाजपा और सपा के बीच मुख्य मुकाबला रहा। वहीं, सदर पर बसपा ने सपा-भाजपा को भी अच्छी टक्कर दी। पलिया, निघासन, गोला, श्रीनगर, धौरहा, लखीमपुर, कस्ता और मोहम्मदी सीट पर किसी पार्टी के पक्ष में लहर या नाराजगी न होने के बावजूद मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह दिखाई दिया। पीलीभीत में कुल कुल चार सीटें हैं। यहां से भाजपा नेता वरूण गांधी सांसद हैं जो पिछले

काफी समय से अपनी ही मोदी-योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। पीलीभीत की पूरनपुर, बरखेड़ा और पीलीभीत सदर पर भाजपा और सपा में सीधी टक्कर है। बीसलपुर में बसपा ने मुकाबला त्रिकोणीय बना दिया है। बीसलपुर में भाजपा और सपा के बीच की लड़ाई होती दिखी जिसे बसपा प्रत्याशी ने त्रिकोणीय बनाने में कोई कोरकसर नहीं छोड़ी। पूरनपुर में सिख बहुल बुधों पर साइकिल खूब चली। भाजपा से बगावत कर बसपा उम्मीदवार बने अशोक राजा भाजपा को ठीकठाक नुकसान पहुंचाने में सफल नजर आ रहे हैं। बरखेड़ा में सपा और भाजपा में सीधी टक्कर दिखी। यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार हरप्रीत सिंह चब्बा ने भी ठीकठाक तरीके से अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। फतेहपुर की चार सीटों पर भाजपा-सपा में सीधी टक्कर जबकि जहानाबाद विधानसभा सीट पर भाजपा, सपा व बसपा और हुसैनगंज सीट पर भाजपा, सपा व कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होता दिखा। फतेहपुर, खागा सुरक्षित व अयाहशाह सीट पर भाजपा और सपा का सीधा आमना-सामना रहा। बांदा की बांदा, तिंदवारी व नरेंनी सीटों पर भाजपा की पकड़ दिखाई दी। बबेरू में जरूर मतदाताओं का रद्धान परिवर्तन की ओर जाता दिख रहा है। लम्बोतुआब यह है कि बसपा और कांग्रेस को राजनीति के जानकार भले ही हलके में ले रहे थे, लेकिन मतदाताओं ने बता दिया है कि बसपा का हाथी अभी भी दौड़ लगाने में पीछे नहीं है। प्रियंका की मेहनत भी फीकी रहेगी, यह भले ही कहा जाता रहा हो, लेकिन चौथे चरण के बाद कांग्रेस की तस्वीर बदल सकती है। यहां यह भी नहीं भूलना चाहिए की भाजपा के रणनीतिकार और केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपनी प्रासंगिकता नहीं खोई है। उनकी पार्टी को उत्तर प्रदेश में वोट मिलेगा। केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा था कि जाटव वोट बसपा के साथ रहा है। एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में अमित शाह ने कहा था कि बसपा ने अपनी प्रासंगिकता बनाए रखी है। मुझे विश्वास है कि उन्हें वोट मिलेगा। शाह ने कहा मुझे नहीं पता कि कितनी सीटों में तब्दील होगा लेकिन बसपा को वोट मिलेगा। शाह ने कहा कि मायावती की जमीन पर अपनी पकड़ है। जाटव वोट बैंक मायावती के साथ जाएगा। मुस्लिम वोट भी बड़ी मात्रा में मायावती के साथ जाएगा। जब शाह से पूछा गया कि क्या इससे भाजपा को फायदा होगा तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि इससे भाजपा को फायदा होगा या नुकसान। यह उस सीट पर निर्भर करता है। लेकिन, यह सच नहीं है कि मायावती का रेलवेस खत्म हो चुका है। दावा किया जाता है कि इस बार के चुनाव में मायावती ने अपने आप को लो प्रोफाइल रखा है। इस पर शाह ने कहा कि इसका मतलब यह नहीं है कि उनका सपोर्ट बेस खत्म हो चुका है।

**अखिलेश की पहले पलायन-दंगाइयों पर चुप्पी और अब आतंकवाद पर खामोशी**

**संजय सक्सेना**

उत्तर प्रदेश में तीन चरणों का मतदान हो चुका है। चौथे चरण का मतदान 23 फरवरी को सम्पन्न हो जाएगा। विधिन दलों नेताओं के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर लगातार बना हुआ है। समाजवादी पार्टी जहां भाजपा को मंहगाई और बेरोजगारी को हथियार बनाए हुए हैं तो वहीं बीजेपी ने रणनीति के तहत पहले दो चरणों के चुनाव में पश्चिमी यूपी से हिन्दुओं के पलायन, दंगे और दंगाइयों को टिकट देने के बहाने समाजवादी पार्टी के मुख्य अखिलेश यादव को घेरा तो तीसरे चरण में बीजेपी ने परिवारवाद के नाम पर सपा पर तंज कसे। चौथे चरण में आतंकवाद की इंद्रि हो गई। गुजरात में सीरियल ब्लास्ट के 38 आरोपियों को कोर्ट द्वारा दोषी करार देते हुए फांसी से लेकर 11 को आजीवन कारावास तक की सजा सुनाई तो बीजेपी ने गुजरात के सीरियल ब्लास्ट की घटना का कनेक्शन समाजवादी पार्टी से जोड़ दिया। क्योंकि ब्लास्ट की जिस घटना में आजमगढ़ के रहने वाले एक आतंकवादी को फांसी की सजा सुनाई गई थी, उसके पिता समाजवादी पार्टी के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहे थे। कोर्ट का फैसला आते ही प्रधानमंत्री मोदी से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित तमाम बीजेपी नेताओं ने अखिलेश को घेरने में कोई कोरकसर नहीं रखी। उन्नाव में प्रधानमंत्री मोदी के तो हरदोई में योगी के निशाने पर अखिलेश रहे। उन्नाव में मोदी ने सपा के चुनाव निशान साइकिल को लेकर अखिलेश पर खूब शब्दगण चलाए। बीजेपी वालों ने गुजरात में सीरियल ब्लास्ट पर कोर्ट के फैसले पर तो अखिलेश को घेरा ही इसके अलावा आतंकवाद के वह बंद पन्ने भी खोल दिए जिसकी इबारत अखिलेश सरकार के समय तमाम खूंखार आतंकवादियों से मुकदमें वापस लेकर लिखी गई थी। इसी लिए राजनीति के जानकार भी कहते हैं कि आतंकी हमले के आरोपितों के प्रति सपा द्वारा साफ्ट कान्नर अपनाने का भाजपा का आरोप पूरी तरह निराधार नहीं है। अखिलेश सरकार के दौरान 2013 में सात जिलों में आतंकी हमले से जुड़े 14 केस एक साथ वापस लिए गए थे। हालांकि, कुछ

मामलों में अदालत के मना करने के बाद आरोपितों को 20-20 साल तक की सजा तक हुई थी। सौम्य रहते अखिलेश ने जिन 14 मामलों को वापस लेने का आदेश दिया था। उनमें लखनऊ के छह और कानपुर के तीन मामले थे। इसके अलावा वाराणसी, गोरखपुर, बिजनौर, रामपुर और बाराबंकी का एक-एक मामला था। पांच मार्च, 2013 को वाराणसी के जिस मामले को वापस लिया गया था, वह सात मार्च 2006 में संकट मोचन मंदिर एवं रेलवे स्टेशन कैट पर हुए सिलसिलेवार बम धमाके से जुड़ा था। वाराणसी में एक प्रेशर कुकर में घड़ी लगा विस्फोटक दशरथमधेघ घाट पर किया गया था। इस आतंकी हमले में 28 लोगों की मौत हुई थी और 101 से अधिक लोग घायल हो गए थे। इसमें मुख्य आरोपित आतंकी संगठन हूजो से जुड़ा शमीम अहमद है। वैसे केस वापस लेने के बावजूद यह मामला अदालत में लंबित है। इसी तरह से 20 मई, 2007 को गोरखपुर के बलदेव प्लाजा, जरकल बिल्डिंग और गणेश चौराहा पर हुए सिलसिलेवार विस्फोट के मामले को राज्य सरकार ने वापस ले लिया। वैसे अदालत ने सरकार के आदेश को मानने से इन्कार कर दिया और बाद में दोषियों को 20 साल सश्रम कारावास की सजा हुई। वहीं कई मामलों में अदालत ने सरकार के फैसले को मानते हुए केस को खत्म कर दिया और आरोपित पूरी तरह से दोषमुक्त हो गए। चौथे चरण के मतदान के लिए हरदोई में पार्टी प्रत्याशियों के लिए जनसभा करने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा पर खूब निशाना साधा। शाहाबाद की जनसभा में मुख्यमंत्री बोले, गुजरात में आतंकियों को फांसी की सजा सुनाई गई तो सपा को बहुत तकलीफ हुई। देश के दुश्मन भी इनके दोस्त हैं। उन्होंने कहा, क्या अखिलेश प्रदेश की जनता को बताएंगे कि उन्होंने राम मंदिर और सीआरपीएफ कैंप पर हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमें क्यों वापस लिए थे। सौएम योगी बोले, आज मैं इसीलिए आयेक पास आया हूं, जब 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार आई थी तो इन्होंने सबसे पहले आतंकवादियों के मुकदमें

वापस लिया। एक-दो नहीं बल्कि, डेढ़ दर्जन आतंकवादियों के मुकदमें वापस लिया था। मैं आज समाजवादी पार्टी के मुखिया से पूछना चाहता हूं कि उनको जनता की अदालत में स्पष्टीकरण देना चाहिए कि उन्होंने किस हैसियत से उत्तर प्रदेश और देश की सुरक्षा के लिए घातक बने आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का दुस्साहस किया था। आखिर सपा को आतंकियों से इतनी हमदर्दी क्यों है। गौरतलब हो, गुजरात के एक न्यायालय ने गुजरात में सीरियल ब्लास्ट के मामले में 38 आतंकवादियों को फांसी की सजा सुनाई थी। उसमें आठ आतंकियों का संबंध आजमगढ़ से है। एक आतंकी का बाप समाजवादी पार्टी का प्रचारक है। हरदोई में सपा प्रमुख अखिलेश पर तंज कसते हुए योगी ने कहा, 'मैं अब्बा जान तभी बोलता था, क्योंकि मैं इनकी हरकतों को देखता था। सपा को जनता से माफी मांगनी चाहिए। सपा उत्तर प्रदेश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है। मैं पूछना चाहता हूं क्या राजनीति इतनी बड़ी हो गई कि देश की सुरक्षा के लिए कोई जगह नहीं है। सपा को इस पर विचार करना चाहिए। लम्बोतुआब यह है कि बीजेपी आलाकमान अखिलेश राज में हुए साम्प्रदायिक दंगों, आतंकवाद,गुंडा-माफियाओं को संरक्षण, लव जेहाद, लुट्टिकरण की सियासत और पारिवारिक कलह के सहारे घेरकर सपा प्रमुख की बोलती बंद करने में लगी है, जिसमें वह कामयाब भी होती दिख रही है। अखिलेश बीजेपी नेताओं के किसी भी आरोपों का जवाब नहीं दे रहे हैं। इसी वजह से सपा प्रमुख की विश्वसनीयता पर तो सवाल खड़े हो ही रहे हैं आम जनता के बीच भी अखिलेश की इमेज को नुकसान हो रहा है। वही राजनीति के कुछ जानकार यह भी कह रहे हैं सपा प्रमुख अखिलेश यादव बीजेपी के उठाए मुद्दों पर बयानबाजी करने के बजाए अपने द्वारा तैयार की गई सियासी पिच पर बेंटिंग करने में लगे हैं, यदि अखिलेश बीजेपी नेताओं के बयान का उत्तर या सफाई देने लगे तो वह अपने द्वारा तैयार किए गए मुद्दों से भटक जाएंगे जो वह नहीं चाहते हैं।

**कांग्रेस के बगैर अधूरा ही रहेगा क्षेत्रीय दलों का गठबंधन**

**योगेन्द्र योगी**

तेलंगाणा के मुख्यमंत्री चन्द्रशेखर राव ने भाजपा और कांग्रेस के खिलाफ क्षेत्रीय दलों की एकजुटता को लेकर एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्ध ठाकरे से मुलाकात की। राव से पहले क्षेत्रीय दलों को एक जाजम पर लाने का ऐसा ही प्रयास पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी कर चुकी हैं। ममता को इसमें कोई सफलता नहीं मिली। पवार ने पहले ही कहा था कि कांग्रेस को शामिल किए बगैर ऐसा कोई गठबंधन कामयाब नहीं होगा। पवार कांग्रेस को शामिल करने की पैरवी कर चुके हैं। क्षेत्रीय दलों के सामने संकट यह है कि फिलहाल कांग्रेस उनकी प्रतिद्वन्दी हो या नहीं कि किन्तु गठबंधन के बाद कांग्रेस के विस्तार से बचना संभव नहीं है। ऐसे में क्षेत्रीय दलों के अस्तित्व को भाजपा के साथ कांग्रेस से भी उतना बड़ा खतरा नजर आता है। फर्क सिर्फ इतना है कि भाजपा से खतरा प्रत्यक्ष है और कांग्रेस से पदों के पीछे। यही वजह है कि भाजपा के साथ ही क्षेत्रीय दल कांग्रेस से भी समान दूरी बनाने रखने की कवायद में जुटे हुए हैं। पवार को इस बात का एहसास है कि कांग्रेस के बगैर भाजपा विपक्षी गठबंधन बेहद कमजोर साबित होगा, इसीलिए पंवार कांग्रेस को शामिल करने पर जोर देते रहे हैं। पंवार को यह बात क्षेत्रीय दलों के गले नहीं उतरती। इसका कारण भी साफ है कि कांग्रेस से भी क्षेत्रीय दलों को उनके राज्य में उतनी ही बड़ी चुनौती है, जितनी कि भाजपा से। ऐसे में सीटों के बंटवारे में कांग्रेस का सबसे बड़ा हिस्सा रहेगा। विशेषकर ऐसे राज्यों में जहां विपक्षी पार्टी के तौर पर सिर्फ कांग्रेस का मजबूत आधार है। कांग्रेस ही एकमात्र ऐसा दल है जिनका सांठनिक आधार पूरे देश में मौजूद है। ऐसे में विपक्षी एकता में कांग्रेसी की हिस्सेदारी सभी राज्यों में होगी। कांग्रेस को शामिल करने का मतलब यह है भी है कि जिन राज्यों में क्षेत्रीय दलों की सत्ता है, उनमें सीटों में हिस्सेदारी भी करना, जिसके क्षेत्रीय दल प्राथं से ही सख्त खिलाफ हैं। दरअसल क्षेत्रीय दल अपने जनाधार वाले राज्यों को छोड़ कर दूसरे राज्यों में सत्ता में भागीदारी चाहते हैं। उन राज्यों में भी कांग्रेस प्रमुख विपक्षी दल के रूप में मौजूद है। ऐसे में कांग्रेस को अकेला छोड़ना आसान नहीं है। भाजपा के खिलाफ एकजुटता में क्षेत्रीय दलों का कांग्रेस को साथ नहीं लेना भी दर्शाता है कि उन्हें घर में संघ लगने की चिन्ता है। क्षेत्रीय दलों ने अपनी सत्ता बढ़ाने के लिए दूसरे राज्यों में पहल भी की तो इसमें खास सफलता हाथ नहीं लगी। दरअसल क्षेत्रीय दलों की एकजुटता में कांग्रेस गले की फांस बनी हुई है। कांग्रेस के बगैर इनकी एकजुटता अधूरी है। भाजपा से राजनीतिक जंग कांग्रेस को शामिल किए बगैर नहीं लड़ी जा सकती। किन्तु अन्य क्षेत्रीय दलों को जितना डर भाजपा से सतताता है, उतना ही कांग्रेस से भी है। कांग्रेस भी उनकी उतनी बड़ी प्रतिद्वन्दी है, जितनी की भाजपा। अंतर यही है कि क्षेत्रीय दल कांग्रेस का नाम लेने से कतराते हैं। इसी वजह से कांग्रेस को गठबंधन में शामिल करने से भी कतराते हैं। क्षेत्रीय दलों की एकजुटता में बाधा सिर्फ कांग्रेस ही नहीं है, बल्कि ऐसे दूसरे महत्वपूर्ण मुद्दे भी हैं, जिन पर एकराय कायम करना टेड़ी खीर है। जिन राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियों का संगठन और सत्ता नहीं है, वहां चुनाव में किस आधार पर आह्वान करने का फायदा क्या होगा। ऐसे राज्यों में फायदा तो कांग्रेस या भाजपा को ही होना है। कुछ छुटपैय्या किस्म के राजनीतिक दल यदि ऐसे राज्यों में हैं भी तो जनमानस को उनकी तरफ मोड़ना इतना आसान नहीं हैं। कागजी जैसे राजनीतिक दलों के पास भी पूरे राज्य में मजबूत संगठन मौजूद नहीं है। कुछ क्षेत्रीय और जातीय बेल्ट तक ही उनकी राजनीतिक सीमित है। फिर भी सारे क्षेत्रीय दल यदि एकजुट होकर अपना प्रत्याशी भाजपा और कांग्रेस के खिलाफ उतार भी दें तो उनके टिकट वितरण में ही सिर फुटव्वल की नौबत आ जाएगी।

**NCR**  
समाचार

**संपादकीय कार्यालय**  
जौ-12/276, संगम विहार, नई दिल्ली-110062. सोमवार से शनिवार प्रातः 9:00 से सायं 9:00  
फोन: 8888883968, 9811111715

**आवश्यक सूचना**

एनसीआर समाचार के समस्त पाठकों तथा पत्र के साथ जुड़े समस्त पत्रकारों, व्यावसायिक संयोजक, सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं/संस्थानों को यह सूचित किया जाता है कि गत वर्षों से श्री बलबीर सिंह के नेतृत्व व स्वामित्व में चले आ रहे वर्तमान एनसीआर समाचार पत्र का प्रकाशन व स्वामित्व मो. हनीफ, पुत्र श्री इस्माईल खान मास्टरजी, संगम विहार के स्वामित्व व नेतृत्व में हो रहा है। अतः भविष्य में समस्त प्रकार की व्यावसायिक, कानूनी एवं सामाजिक गतिविधियों के संचालन हेतु मो. हनीफ/ नये कार्यालय जी 12/276, संगम विहार, नई दिल्ली - 110062, दूरभाष (मोबाईल) 8888883968, 9811111715 से सम्पर्क करें

**संक्षिप्त समाचार**

**ममता बनर्जी ने सरकारी बैंकों से छात्रों के क्रेडिट कार्ड आवेदनों को तेजी से मंजूरी देने को कहा**



**कोलकाता।** पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से कहा है कि वे छात्र-छात्राओं के क्रेडिट कार्ड के आवेदनों को तेजी से मंजूरी दें। उन्होंने इस बात को दोहराया कि सरकार उनके लिए 'गारंटी' देगी। मुख्यमंत्री ने बृहस्पतिवार को विद्यार्थियों को क्रेडिट कार्ड के वितरण कार्यक्रम में कहा कि उनकी सरकार पहले ही छात्र-छात्राओं को 5,000 कार्ड जारी कर चुकी है। इसके अलावा 20,000 क्रेडिट कार्ड को मंजूरी दी जा चुकी है। राज्य सरकार की योजना के तहत विद्यार्थी आसान ब्याज पर 15 साल के लिए 10 लाख रुपये तक शिक्षा ऋण ले सकते हैं। बनर्जी ने कहा कि उनकी सरकार ने इस योजना के लिए 5,042 करोड़ रुपये का आवंटन किया है। उन्होंने कहा, "सहकारी बैंक पहले से अपनी भूमिका बेहतर तरीके से निभा रहे हैं। मैं चाहूंगी कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक भी इसी भावना के साथ आगे आए। इन प्रस्तावों को तेजी से मंजूरी दी जाए। सरकार प्रत्येक कर्ज लेने वाले के लिए 'गारंटी' देगी। ऐसे में बैंक जो कर्ज देंगे उसपर गारंटी होगी।

**भारत में दिवटर की सार्वजनिक नीति टीम का नेतृत्व करेंगे समीरन गुप्ता**



**नई दिल्ली।** समीरन गुप्ता भारत और दक्षिण एशिया में सोशल मीडिया मंच दिवटर की सार्वजनिक नीति और परामर्श कार्यों का नेतृत्व करेंगे। गुप्ता दिवटर से जुड़ने से पहले दक्षिण एशिया में इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइन्ड नेम्स एंड नंबरस (आईसीएनएन) के द्वितीयक संबंधी कार्यों के प्रमुख थे। गुप्ता ने बृहस्पतिवार को द्वीट कर कहा, "भारत और दक्षिण एशिया में सरकारों, गैर-सरकारी संगठनों और हितधारकों के साथ काम करने तथा दिवटर के साथ जुड़ने को लेकर मैं बहुत खुश हूँ।

**अर्थव्यवस्था का पुनरुद्धार समान नहीं, सरकार प्रभावित क्षेत्रों को समर्थन जारी रखे : रिपोर्ट**

**मुंबई।** भारतीय अर्थव्यवस्था का पुनरुद्धार अभी समान नहीं है और सरकार को प्रभावित क्षेत्रों को आय समर्थन उपचारों को जारी रखना चाहिए। स्विट्जरलैंड की ब्रोकरेज कंपनी यूबीएस सिक्वोरिटीज की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अर्थव्यवस्था का पुनरुद्धार अभी व्यापक नहीं है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अर्थव्यवस्था पुनरुद्धार की राह पर है और मध्यम से दीर्घावधि अवधि में इसके 6 से 6.5 प्रतिशत की दर से बढ़ने की संभावना है। सर्वे में शामिल प्रतिभागियों ने कहा कि महामारी की तीन लहरों के बाद अर्थव्यवस्था में अच्छा-खासा सुधार देखने को मिल रहा है। यूबीएस की मुख्य अर्थशास्त्री तन्वी गुप्ता जैन ने कहा कि अर्थव्यवस्था में पुनरुद्धार हो रहा है, लेकिन अभी यह व्यापक नहीं है। उन्होंने कहा कि असंगठित क्षेत्र को पर्याप्त नीतिगत समर्थन से वृद्धि को प्रोत्साहन दिया जा सकता है। इसके लिए बजट में निर्धारित खर्च को पूरा किया जाना चाहिए। "सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उपक्रमों (एमएसएमई) को वित्तपोषण देने की जरूरत है।" रिपोर्ट में शामिल भागीदारों ने कहा कि भारत में 6 से 6.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करने की क्षमता है। इसकी वजह है कि डिजिटलीकरण पर ध्यान दिया जा रहा है जिससे उंची उत्पादकता लाभ हासिल हो रहा है। जैन ने कहा कि उपभोक्ता की धारणा अब सुधार रही है, लेकिन कोई भी आंकड़ा यह नहीं दर्शाता है कि धारणा महामारी-पूर्व के स्तर के करीब है। 20 फरवरी को समाप्त सप्ताह में किए गए उपभोक्ता सर्वे में परिवारों की अपनी आमदनी को लेकर उम्मीदें बेहतर हुई हैं। 13 प्रतिशत परिवारों ने कहा कि उनकी मौजूदा आमदनी पिछले साल की तुलना में अधिक है।

**गडकरी ने मध्य प्रदेश में 5,722 करोड़ रुपये की 11 राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी**



**नई दिल्ली।** केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बृहस्पतिवार को मध्य प्रदेश में 5,722 करोड़ रुपये की 11 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं की लंबाई 534 किलोमीटर है। एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई है। इस मौके पर गडकरी ने कहा कि इन परियोजनाओं से श्रद्धालुओं तथा पर्यटकों को सुगम परिवहन की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। उन्होंने बताया कि उज्जैन के साथ कृषि बाजारों से बेहतर संपर्क उपलब्ध होगा। बयान में मंत्री के हवाले से कहा गया है कि उज्जैन-देवास औद्योगिक गलियारे का विकास किया जाएगा और इससे रोजगार के नए अवसरों का सृजन होगा। गडकरी ने बताया कि इसके अलावा समूचे मालवा-निमाड़ क्षेत्र का भी विकास होगा। सीमा क्षेत्रों को भंडार केंद्रों के रूप में विकसित किया जाएगा। इन परियोजनाओं से समय के अलावा ईंधन की बचत होगी और यात्रा भी अधिक सुरक्षित हो सकेगी।

**कच्चे तेल की आपूर्ति बाधित होने की आशंका नहीं, कीमत को लेकर चिंता जरूर: अधिकारी**

**एजेंसी** नई दिल्ली। रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत बढ़कर सात साल के उच्चस्तर 103 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गयी। लेकिन भारत के लिये आपूर्ति व्यवस्था पर अभी कोई असर नहीं हुआ है। सरकार के एक शीर्ष अधिकारी ने यह कहा। अधिकारी ने भरोसा जताया कि अगर लड़ाई तेज होती है, तो भी ईंधन आपूर्ति पर असर नहीं पड़ेगा। ग्राहकों के लिये वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल के दाम में तेजी का फिलहाल सीधा असर नहीं होगा। क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र की खुदरा ईंधन कंपनियों ने पेट्रोल, डीजल और एलपीजी दरों को मौजूदा स्तर पर कायम रखा हुआ है। अधिकारी ने कहा, "आपूर्ति व्यवस्था बनी हुई है। रूस के हमले से इसपर कोई असर नहीं हुआ है। बाजार में अभी पर्याप्त आपूर्ति है। हमारे आपूर्तिकर्ता पश्चिम एशिया, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका में हैं। उनपर इस हमले का कोई असर नहीं है और वे पहले की तरह तेल तथा गैस की



**सरकार के एक शीर्ष अधिकारी ने यह कहा। अधिकारी ने भरोसा जताया कि अगर लड़ाई तेज होती है, तो भी ईंधन आपूर्ति पर असर नहीं पड़ेगा। ग्राहकों के लिये वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल के दाम में तेजी का फिलहाल सीधा असर नहीं होगा।**

आपूर्ति करते रहेंगे। अगर यूक्रेन संकट गहरता भी है, तो भी स्थिति जस-की-तस बनी रहने की उम्मीद है।" अधिकारी ने नाम देने से मना किया। हालांकि, मुद्रास्फीति पर पड़ने वाले असर को देखते हुए कीमतों में तेजी जरूर चिंता का विषय है। उसने कहा, "खुदरा कीमतों में फिलहाल कोई बढ़ोतरी नहीं की गयी है। लेकिन अंततः इसे बढ़ाना ही पड़ेगा।" ब्रेंट क्रूड की कीमत बढ़कर 103.78 डॉलर प्रति बैरल तक चली गयी। यह 14 अगस्त, 2014 के बाद सर्वाधिक है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता देश है और अपनी 85 प्रतिशत जरूरतों के लिये आयात पर निर्भर है। आयातित कच्चे तेल को पेट्रोल, डीजल और एलपीजी (रसोई गैस) में बदला जाता है। कुल आयात में सऊदी अरब, इराक और अन्य पश्चिम एशियाई देशों की हिस्सेदारी 63.1 प्रतिशत है। अफ्रीका दूसरा सबसे

बड़ा आपूर्तिकर्ता है और कुल आपूर्ति में उसकी 14 प्रतिशत हिस्सेदारी है। वहीं उत्तरी अमेरिका की हिस्सेदारी 13.2 प्रतिशत है। रूस यूरोप की एक-तिहाई प्राकृतिक गैस की जरूरतों को रूस पूरा करता है। जबकि वैश्विक तेल उत्पादन में उसकी हिस्सेदारी करीब 10 प्रतिशत है। यूरोप को करीब एक-तिहाई गैस की आपूर्ति यूक्रेन से गुजरने वाली पाइपलाइन के जरिये होती है। हालांकि भारत, रूस से काफी कम तेल लेता है। देश ने 2021 में रूस से 43,400 बैरल प्रतिदिन तेल का आयात किया। यह उसके कुल आयात का करीब एक प्रतिशत है। अन्य ईंधनों में 2021 में कोयले का आयात 18 लाख टन रहा जो कुल कोयला आयात का 1.3 प्रतिशत है। भारत, रूस की गाजप्रोम से सालाना 25 लाख टन एलएनजी (तरलीकृत प्राकृतिक गैस) भी खरीदता है। देश की सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी) के एक अधिकारी ने कहा, "उपलब्धता को लेकर चिंता की कोई बात नहीं है।

**रूस-यूक्रेन संकट से भारत का चाय निर्यात प्रभावित होने की आशंका**



**एजेंसी** कोलकाता। चाय बागान मालिक और निर्यातक रूस-यूक्रेन संकट के मद्देनजर चिंतित हैं, क्योंकि रूस भारतीय चाय का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है। बृहस्पतिवार को यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद पश्चिमी प्रतिबंधों और डॉलर के भुगतान में व्यवधान के साथ-साथ रूस को निर्यात प्रभावित होने की आशंका है। भारतीय चाय संघ की चेयरपर्सन नयनराना पालचौधरी ने कहा, भारतीय चाय के लिए रूसी बाजार बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इरान को निर्यात में भुगतान को लेकर समस्या है, जो एक दूसरा महत्वपूर्ण चाय निर्यात गंतव्य है। भारत का

**रूस के हमले से सेंसेक्स में 2 साल में सबसे बड़ी गिरावट, 13.6 लाख करोड़ का नुकसान**

**अंशुप्रिया / NCR समाचार**

आपको बता दे की व्वादिमीर पुतिन के यूक्रेनी क्षेत्र में आगे बढ़ने से शेयर बाजार के बैलें में विस्फोट हो गया, जिसने दलाल स्ट्रीट पर सभी बचावों को भी तोड़ दिया। बेंचमार्क सूचकांकों ने गुरुवार को इतिहास में अपनी चौथी सबसे खराब गिरावट दर्ज की है। निवेशक कवर की तलाश में थे क्योंकि गहन बिकवाली ने उन्हें 13.57 लाख करोड़ रुपये से कम कर दिया, क्योंकि बीएसई-मार्केट कैप, जो उनकी संपत्ति को दर्शाता है, वह घटकर 242.11 लाख करोड़ रुपये हो गया। 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 2702.15 अंक या 4.72 प्रतिशत की गिरावट के साथ 54,529.91 पर बंद हुआ। इसका व्यापक समकक्ष एनएसई निफ्टी 815.30 अंक या 4.78 प्रतिशत की गिरावट के साथ 16,247.95 पर बंद हुआ। दोनों सूचकांकों ने लगातार सातवें दिन गिरावट दर्ज की, यूरोप में



संकट गहराने के साथ, मुद्रास्फीति में और वृद्धि होना तय है। कच्चे तेल की कीमतों में 104 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर का उछाल आया। यूरोपीय गैस की कीमतों में 30 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई। इस बीच, रूस के शेयरों में 50 फीसदी तक की गिरावट आई। हम मानते हैं कि कच्चे तेल की गति आगे बढ़ने के लिए देखने की कुंजी होगी। हम बड़े प्रतिबंधों की उम्मीद नहीं करते हैं, जो कच्चे तेल में बड़ी वृद्धि कर सकते हैं, यूरोप और अमेरिका को समान रूप से नुकसान पहुंचा सकते हैं,

**रूस-यूक्रेन संघर्ष से वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए पैदा हुआ बड़ा जोखिम**

**एजेंसी**

**वाशिंगटन।** एक कमजोर वैश्विक अर्थव्यवस्था को जिस संघर्ष की जरूरत नहीं थी, वह आखिरकार शुरू हो गया है। इससे मुद्रास्फीति बढ़ सकती है, शेयर बाजारों में भारी गिरावट का दौर शुरू हो सकता है, और दुनिया में सभी के लिए परेशानी बढ़ सकती है। यूक्रेन पर रूस के हमले और जवाब में पश्चिम की ओर से प्रतिबंध से पूरी दुनिया मंदी में धिर जाएगी, यदि यह सोचा जा रहा है तो ऐसा नहीं है। दोनों देश मिलकर वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में दो प्रतिशत से कम का योगदान करते हैं। कई क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाएं मजबूत स्थिति में हैं और महामारी की मंदी के बाद तेजी से पुनरुद्धार दर्ज कर रही हैं। फिर भी संघर्ष से कुछ देशों और उद्योगों को गंभीर आर्थिक नुकसान का खतरा है। रूस पेट्रोलियम का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और प्राकृतिक गैस का प्रमुख निर्यातक है। यूक्रेन के खेत दुनियाभर में लाखों लोगों का पेट भरते हैं। दूसरी ओर वित्तीय बाजार एक अनिश्चित स्थिति में हैं, क्योंकि केंद्रीय बैंक ब्याज दरों को बढ़ाने के लिए तैयार हैं। ऐसे में खर्च कम होने तथा एक और मंदी का खतरा बढ़ सकता है। बैंकों के एक कारोबारी समूह अंतरराष्ट्रीय वित्त संस्थान को उप मुख्य अर्थशास्त्री एलिना रिवाकोवा ने कहा, "मैं केवल जीडीपी हिस्सेदारी की गणना करके गुमराह नहीं



होऊंगी... विशेष रूप से ऐसे वकत में जब जिस कीमतें पहले ही बढ़ी हुई हैं, मुद्रास्फीति पहले से ही अधिक है।" उन्होंने कहा, "वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिति को देखते हुए यह एक मुश्किल क्षण है।" रूस का हमला पहले से ही ऊंची ऊर्जा कीमतों को और बढ़ा सकता है, जिससे यूरोप में आर्थिक पुनरुद्धार धीमा हो सकता है। कोलंबिया विश्वविद्यालय के यूरोपीय संस्थान के निदेशक एडम टूज ने कहा, "यूरोप में गैस की कीमतें पहले से ही उपभोक्ताओं को परेशान कर रही हैं, खासतौर से निम्न आय वाले परिवारों को।" महंगी गैस ने उर्वरक उत्पादकों और कुछ अन्य भारी औद्योगिक विनिर्माताओं को उत्पादन घटाने के लिए मजबूर कर दिया है। यूक्रेन दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा गेहूं निर्यातक है, और वहां तनाव बढ़ने से प्रमुख कृषि उत्पादों के भाव बढ़ सकते हैं।

**वित्तीय संस्थान अधिक जन केंद्रित बने: सीतारमण**

**एजेंसी**

**नई दिल्ली।** वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को अर्थव्यवस्था को वृद्धि के उच्चस्तर पर ले जाने के लिये लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) जैसे वित्तीय संस्थानों से अगले 25 साल में अधिक-से-अधिक लोगों के अनुकूल यानी जन केंद्रित बनने को कहा। सरकार ने देश की स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ के अगले 25 साल को 'अमृत काल' घोषित किया है। सीतारमण ने तीसरी 'नेशनल माइक्रोफाइनेंस कांग्रेस' को संबोधित



करते हुए कहा, "...अगले 25 साल के लिये हमें (वित्तीय संस्थानों को) बहुत अधिक जन-केंद्रित होना होगा। यह देखने की कोशिश करें कि वे क्या चाहते हैं।" उन्होंने कहा, "इससे पिछड़े क्षेत्र के लोग आकर्षित होंगे...मुझे लगता है कि इससे हम उन क्षमताओं

को एक दिशा दे पाएंगे, जो निष्क्रिय पड़े हैं।" वित्त मंत्री ने कहा कि कई राज्यों में काफी चालू और बचत खाता (कासा) कोष हैं। उस कोष का प्रभावी तरीके से क्षेत्रों में उपयोग नहीं हो रहा क्योंकि वहां कोई बड़ी कंपनियां नहीं हैं। उन्होंने कहा कि इसके कारण चालू और बचत खातों में जमा पैसा उन राज्यों से औद्योगिक क्षेत्रों में जाता है, जहां बड़े कारोबारी हैं और कर्ज की मांग है। सीतारमण ने कहा, "अब यह धीरे-धीरे ऐसी स्थिति पैदा कर सकता है जहां हमारी बचत का उपयोग हमारे

**भारत सरकार ने रेमडेसिवीर के निर्यात पर लगी पाबंदी हटायी**

**नई दिल्ली।** सरकार ने बृहस्पतिवार को रेमडेसिवीर इंजेक्शन और इसमें उपयोग होने वाले प्रमुख रसायनों (एपीआई) के निर्यात पर रोक हटा ली है। कोविड-19 के घटते मामलों के बीच यह कदम उठाया गया है। इसके अलावा, केंद्र ने 'आर्गेनिक' एलईडी (लाइट एमिटिंग डायोड) और लिक्विड क्रिस्टल के निर्यात पर भी पाबंदी को समाप्त कर दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने अधिसूचना में कहा, "रेमडेसिवीर इंजेक्शन और रेमडेसिवीर एपीआई, एम्फोटेरिसिन-बी इंजेक्शन, एनोक्सपारिन (फॉर्मेशन और एपीआई) और इंटर-वेनस इन्फ्यूजोबुलिन (आईवीआईजी) (फॉर्मेशन और एपीआई) ... की निर्यात नीति को तत्काल प्रभाव से मुक्त कर दिया गया है।" पिछले साल अप्रैल में देश में महामारी की स्थिति सुधरने तक कोविड-19 के इलाज में प्रभावी माने जाने वाले रेमडेसिवीर इंजेक्शन और उसके रसायन के निर्यात पर पाबंदी लगा दी गयी थी।

**भारत को गेहूं का निर्यात बढ़ाने का अवसर दे सकता है रूस-यूक्रेन संकट**

**एजेंसी**

**नई दिल्ली।** रूस-यूक्रेन संकट भारत को वैश्विक बाजारों को अधिक गेहूं का निर्यात करने का अवसर दे सकता है और घरेलू निर्यातकों को इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। सूत्रों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारत का केंद्रीय पूल में 2.42 करोड़ टन अनाज है, जो बफर और रणनीतिक जरूरतों से दोगुना है। दुनिया के गेहूं के निर्यात का एक-चौथाई से अधिक हिस्सा रूस और यूक्रेन से होता है। रूस गेहूं का विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक है, जिसका अंतरराष्ट्रीय निर्यात में 18 प्रतिशत से अधिक का योगदान है। वर्ष 2019 में रूस और यूक्रेन ने मिलकर दुनिया के एक-चौथाई (25.4 प्रतिशत) से अधिक गेहूं का निर्यात

**यूक्रेन संकट से अर्थव्यवस्था पर प्रभाव के आकलन में जुटे अधिकारी**



किया। उन्होंने कहा कि मिस्र, तुर्की और बांग्लादेश ने रूस से आधे से ज्यादा गेहूं खरीदा। मिस्र दुनिया में गेहूं का सबसे बड़ा आयातक है। यह अपनी 10 करोड़ से अधिक की आबादी को खिलाने के लिए सालाना चार अरब डॉलर से अधिक खर्च करता है। रूस और यूक्रेन, मिस्र की आयातित गेहूं की 70 प्रतिशत से अधिक मांग को पूरा करते हैं। तुर्की, रूसी और यूक्रेनी गेहूं पर भी एक बड़ा खर्च करने वाला देश है। वर्ष 2019 में इन दोनों देशों से उसका आयात 74 प्रतिशत या 1.6 अरब डॉलर रहा। सूत्रों ने कहा, "यूक्रेन का संकट भारत को अधिक गेहूं निर्यात करने का अवसर दे सकता है, बशर्तें हम और अधिक निर्यात करें, क्योंकि हमारा केंद्रीय पूल 2.42 करोड़ टन का है।

**यूक्रेन संकट से अर्थव्यवस्था पर प्रभाव के आकलन में जुटे अधिकारी**

**एजेंसी**

**नई दिल्ली।** यूक्रेन के खिलाफ रूस के सैन्य अभियान से घरेलू अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करने के लिए सरकारी अधिकारी पूरी तरह से जुट गए हैं। सरकारी अधिकारियों ने तेल की कीमतों में वृद्धि और देश के बाहरी व्यापार के प्रभावित होने के कारण मुद्रास्फीति में संभावित वृद्धि से निपटने के लिए पहले से योजनाओं को तैयार करना शुरू कर दिया है। वहीं आपूर्ति बाधित होने या व्यापार मार्गों के अवरुद्ध होने की फिलहाल कोई आशंका नहीं दिख रही है। लेकिन कच्चे तेल की कीमतें सात साल के उच्चस्तर यानी 105 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गई हैं। इसका अर्थव्यवस्था पर लघु गई है। अधिकारी में असर पड़ेगा। इस बीच, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वह रूस के

**यूक्रेन संकट से अर्थव्यवस्था पर प्रभाव के आकलन में जुटे अधिकारी**

तेल की कीमतों में तेजी से लागत और बिक्री मूल्य के बीच अंतर बढ़ गया है। उद्योग के सूत्रों ने कहा कि यह अंतर 10 रुपये प्रति लीटर से अधिक है, जो अगले महीने चुनाव पूरा होने के बाद बढ़ाया जा सकता है। वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, सरकार तेजी से सामने आ रही स्थिति के आर्थिक प्रभाव का आकलन करने में जुट गई है। अधिकारी ने बताया कि विभिन्न मंत्रालयों से अंदरूनी जानकारी जुटाई जा रही है। रूस पर अमेरिका

निर्यातकों के संघ फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन (फियो) ने कहा कि यूक्रेन-रूस के बीच सैन्य संकट से माल की आवाजाही, भुगतान और तेल की कीमतें प्रभावित होंगी और फलस्वरूप इसका असर देश के व्यापार पर भी पड़ेगा। भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय व्यापार इस वित्त वर्ष में अब तक 9.4 अरब डॉलर का रहा। इससे पिछले वित्त वर्ष 2020-21 में यह 8.1 अरब डॉलर का था।

**संक्षिप्त समाचार**

**दो देशों के युद्ध के बीच फंसी जनता कौन पड़ेगा किसपर भारी**

अंशुप्रिया / NCR समाचार

रूस और यूक्रेन के बीच चल रही युद्ध को देखते हुए रूस के राष्ट्रपति पुतिन द्वारा कार्यवाही रोकने के आदेश के बाद यूक्रेन पर लगातार मिसाइलों से हमला किया जा रहा है बता दे की अभी तक रूस ने यूक्रेन के कई ठिकानो तो तबाह कर चुके है ये युद्ध लगभग एक हफ्ते पहले से जयदा अफवाओं में आने लगी थे जिसके बाद देखते ही देखते इन देशो ने युद्ध का विक्राल रूप ले लिया है जिसमे एक दूसरे को तबाह करने की बात भी की गई है। आपको बता दे की रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे इस युद्ध से वहां की आम जनता को भी काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। बता दे की भारत और बाकि देशो के कुछ विध्यर्थी है जो वह फसे हुए है उन्हें भारत वापस लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अपील की गई है की उन्हें जल्द से जल्द अपने देश लाया जाय क्योंकि वहां का माहौल कब कैसा होगा इसका कुछ अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। अब हम बात करते है इन दोनों देशो के बारे में आखिर कोन पड़ेगा किसपर भारी वैसे दोनों ही देश काफी शक्ति-शाली माने जाते है लेकिन यहां रूस शक्तिशाली देशो के मामले में दूसरे पायदान पर है जबकि यूक्रेन की बात करें तो यह काफी पीछे 22 वें स्थान पर है। रूस के पास सक्रिय सैनिकों की संख्या की बात करें तो यह 8.50 लाख है। वहीं यूक्रेन के पास सक्रिय सैनिक बहुत कम हैं। वही हम फाइटर जेट की बात करें तो ये 772 है जबकि यूक्रेन के पास केवल 69 फाइटर जेट्स हैं। जहां रूस पैरामिलिट्री फोर्स और फाइटर जेट्स के मामले में काफी आगे है वही यूक्रेन की बात करते तो उनके पास 50 हजार पैरामिलिट्री फोर्स ही हैं इंसबको देखते हुए ऐसा लग रहा है ये युद्ध जल्दी शांत नहीं होने वाला, वही इस युद्ध के छिढ़ते ही शेरार मार्केट का भी बड़ा नुकसान हुआ है, वही यूक्रेन ने मदद के लिए कई अन्य देशो से मदद भी मांगी, और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मदद की अपील की है।

**रूस ने अपने हवाई क्षेत्र में ब्रिटेन की उड़ानों पर प्रतिबंध लगाया, गैर मैत्रीपूर्ण निर्णय के जवाब में उठाया कदम**

मास्को। एयरोप्लोत की उड़ानों पर ब्रिटेन के प्रतिबंधों के बाद रूस के नागर विमानन प्राधिकरण ने अपने हवाई क्षेत्र में ब्रिटिश उड़ानों पर पाबंदी लगा दी है। नागर विमानन प्राधिकरण रोसावित्सिया ने कहा कि ब्रिटेन आने जाने वाली सभी उड़ानों के साथ-साथ पारगमन उड़ानों पर शुक्रवार से प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्राधिकरण ने कहा कि ब्रिटिश प्राधिकारों के 'गैर मैत्रीपूर्ण निर्णय' के जवाब में यह कदम उठाया गया है। ब्रिटेन ने यूक्रेन पर रूसी हमले के जवाब में उसकी विमान कंपनी एयरोप्लोत की उड़ानों पर पाबंदी लगाई है।

**फ्रांस का रूस को दो टूक जवाब, कहा- हमारे पास भी है परमाणु हथियार**

कीव। रूसी सैनिकों ने यूक्रेन में हमला कर दिया है। ऐसे में विश्व के कई बड़े देश रूस पर तरह-तरह प्रतिबंध लगा रहे हैं। इसी बीच रूस और यूक्रेन के बीच जारी लड़ाई अब परमाणु धमकियों तक आ पहुंची है। जिसके बाद फ्रांस ने भी दो टूक जवाब देते हुए कहा कि हमारे पास भी परमाणु हथियार हैं। बीते दिनों रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ जंग का ऐलान करते हुए दूसरे देशों को चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि रूसी कार्यवाही में किसी प्रकार के हस्तक्षेप के प्रयास के ऐसे परिणाम होंगे, जो उन्होंने कभी नहीं देखे होंगे। विशेषज्ञ इसे परमाणु हमले की धमकी के तौर पर देख रहे हैं। माना जा रहा है कि रूसी सेना युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार है। फ्रांस के विदेश मंत्री जीन-यवसे ले ड्रियन ने इशारों-इशारों में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा परमाणु धमकी दिए जाने पर कहा कि उन्हें यह समझने की जरूरत है कि नाटो भी एक परमाणु गठबंधन है। उन्होंने स्थानीय मीडिया के साथ बातचीत में कहा कि मुझे लगता है कि व्लादिमीर पुतिन को यह समझना चाहिए कि अल्ट्राटिक गठबंधन एक परमाणु गठबंधन है। मैं इस बारे में बस इतना ही कहूंगा।



यूक्रेन के राष्ट्रपति के सलाहकार मिहेलो पोदोल्याक ने बताया कि रूसी सैनिकों के साथ भयंकर युद्ध के बाद यूक्रेन ने चेर्नोबिल परमाणु स्थल से नियंत्रण खो दिया है। उन्होंने कहा कि रूसी बलों के बिलकुल सख्ततापूर्ण हमले के बाद यह कहना असंभव है कि चेर्नोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र सुरक्षित है। आपको बता दे कि चेर्नोबिल में अप्रैल, 1986 में दुनिया की सबसे भीषण परमाणु दुर्घटना हुई थी, जब एक परमाणु रिएक्टर में विस्फोट के बाद पूरे यूरोप में रेडियोधर्मी विकिरण फैल गया था। यह संयंत्र कीव के उत्तर में 130 किमी की दूरी पर स्थित है। जिस रिएक्टर में विस्फोट हुआ था, उसमें से विकिरण रोकने के लिए उसे एक सुरक्षात्मक उपकरण से ढका गया था और पूरे संयंत्र को निष्क्रिय कर दिया गया था।

**रूस के हमले में 137 नागरिक और सैन्य कर्मी मारे गए : यूक्रेन के राष्ट्रपति**

कीव। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेन्स्की ने बताया कि रूस के हमले में अभी तक 137 नागरिक और सैन्य कर्मी मारे गए हैं। जेलेन्स्की ने शुक्रवार सुबह एक वीडियो संदेश में इन लोगों को 'सोझा' बताया। उन्होंने कहा कि हमले में सैकड़ों लोग घायल भी हुए हैं। जेलेन्स्की ने कहा कि रूस का दावा है कि वह केवल सैन्य ठिकानों पर हमला कर रहा है लेकिन आवासीय क्षेत्रों पर भी हमला किया गया है। उन्होंने कहा, '‘ वे लोगों को मार रहे हैं और शहरी इलाकों को भी निशाना बना रहे हैं। यह गलत है और इसकी माफ़ी कभी नहीं मिलेगी।' राष्ट्रपति ने कहा कि ओडेसा क्षेत्र के जमीनीय द्वीप के सभी सहीना रक्षक बृहस्पतिवार को मारे गए। यूक्रेन की सीमा सुरक्षा सेवा ने तड़के बताया कि रूस ने द्वीप को अपने कब्जे में ले लिया है।



**बेबस यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेन्स्की बोले-**

**हमें अकेला छोड़ दिया गया, कोई देश नहीं कर रहा मदद**

एजेंसी

कीव। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने वोलोदिमिर जेलेन्स्की ने कहा कि उन्हें रूस से लड़ने के लिए अकेला छोड़ दिया गया है। उनका यह बयान ऐसे समय पर आया है जब रूस की सेना यूक्रेन में पूरी तरह से दाखिल हो गई है। बता दें कि, यूक्रेन की राजधानी कीव में एक के बाद एक मिसाइल हमले हो रहे हैं। रूस लगातार यूक्रेन पर हमला कर रहा है जिससे युद्ध के पहले दिन यूक्रेन में 137 लोगों की मौत हो गई है। इसकी जानकारी खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेन्स्की द्वारा दी गई है। वहीं यूक्रेन दावा कर रहा है कि, उसने रूस को काफी नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन के रक्षा मंत्री हना मलयार के मुताबिक, रूस के 7 एयरक्राफ्ट, 6 हेलिकॉप्टर, 30 टैंक को नष्ट किया गया है। बेबस नजर आ रहे यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेन्स्की



रूसी हमलों के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेन्स्की काफी बेबस नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां अमेरिका ने यूक्रेन को मदद करने से साफ इंकार कर दिया है वहीं दूसरी ओर यूक्रेन में मिलाइली हमलों से मासूम लोगों की मौत हो रही है। इसी बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ने वोलोदिमिर जेलेन्स्की ने कहा कि उन्हें रूस से लड़ने के लिए अकेला छोड़ दिया गया है। उनका यह बयान ऐसे समय पर आया है जब रूस की सेना यूक्रेन में पूरी तरह से दाखिल हो गई है। बता दें कि, यूक्रेन की राजधानी कीव में एक के बाद एक मिसाइल हमले हो रहे हैं जिससे अब लोगों को यूक्रेन के मेट्रो स्टेशन और बंकर में छिपने के लिए सजबूर होना पड़ रहा है। रूस के लड़ाकू यूक्रेन के शहरों पर बम बरसा रहे हैं। वहीं अमेरिका ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। जो बाइडेन ने साफतौर पर कह दिया है कि, वह अपने सेना यूक्रेन नहीं भेजेगा। सीएनएन की खबर के मुताबिक यूक्रेन

**यूक्रेन और रूस के बिच फंसे भारतीय, मोदी जी का कहना नहीं होगा किसी का भी बाल बांका**

अंशुप्रिया / NCR समाचार

आज हम बात करने जा रहे है रूस और यूक्रेन के बिच चल रहे युद्ध के बारे में जी हां आपको बता दे की रूस और उक्रेन के बीच चल रही जंग में लगभग पूरा देश ही पिस रहा है शीतयुद्ध के बारे में आप सभी को पता ही होगा। बता दें की पूरे 40 साल बाद एक बार फिर पूरी दुनिया पर संकट के बदल मंडरा रहे हैं। ऐसे में भारत को छोड़ लगभग सभी देशों ने अपनी-अपनी पार्टी का चुनाव कर लिया है। रूस और उक्रेन के बीच चल रही इस जंग का परिणाम बेहद भयंकर होने वाला है। लम्बे समय से इस जंग को लेकर गरमा-गर्मी का माहौल बना हुआ था और बीते दिनों उसका नतीजा भी देखने को मिला। जहा यूक्रेन अभी काफी मुसीबतों का सामना कर रहा है वहीं उसे अन्य देशो से सिर्फ आर्थिक मदद मिलने की संभावना जताई जा रही है वो इसलिये



क्योंकि वो युद्ध से लड़ रहा है लेकिन उसे बचने को कोई भी सामन नहीं आ रहा है,रूस से लड़ाई लड़ने के लिए कोई भी देश सामने नहीं आ रहा सबको अपनी जान मान और शान की परवाह है। साथ ही बता दे की रूस और यूक्रेन के बिच चल रहे इस युद्ध से वहां की आम जनता को भी काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। की भारत और बाकि देशो के कुछ विध्यर्थी है जो वहां फसे हुए है उन्हें भारत वापस लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अपील की गई है की उन्हें जल्द से जल्द अपने देश लाया जाय क्योंकि वहां का माहौल कब कैसा होगा

इसका कुछ अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। 30,000 से ज्यादा विधार्थी यूक्रेन में फसे हुए है उन्हें जल्द से जल्द लाने की कोशिश जारी है ,वही भारत के प्रधानमंत्री ने कहा है की एक भी भारतीय छात्रों का वहां बाल

भी बांका नहीं होगा वह अभी आराम से रुके सबको जल्द से जल्द भारत की जमीन पे लाया जायगा। इन सबसे जूझता हुआ यूक्रेन हर देश से मदद मांग रहा है लेकिन उसकी मदद को कोई भी सामने नहीं आ रहा वहीं उसने भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी से मदद की गुहार लगाई है, तभी कल रात में तकरीबन 20 से 25 मिनट तक युद्ध को लेकर मोदी जी ने उनसे फ़ोन पे बात किया व लगातार उन्हें समझाने की कोशिश भी करते रहे उन्होंने वहां फसे हुए भारतीयों के लिए भी बात करी और उन्हें सुरक्षित लाने की कोशिस कर रहे है।

**सिम्पसन्स ने 1998 में ही कर दी थी यूक्रेन संकट की भविष्यवाणी**

एजेंसी

रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है। रूसी सेना यूक्रेन की राजधानी कीव में भी दाखिल हो चुकी है। दुनियाभर में विश्व युद्ध की आशंका जताई जा रही हैं। लेकिन विश्व युद्ध की आहटों के बीच सोशल मीडिया पर कई लोग एनिमेटेड कॉर्टून सीरिज सिम्पसन के एक क्लिप को साझा कर रहे हैं। ये वीडियो क्लिप रूसी हमले की भविष्यवाणी करता प्रतीत हो रहा है। सोशल मीडिया पर इस वायरल वीडियो को लेकर काफी सारी प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। वायरल हो रही ये शॉर्ट क्लिप सिम्पसन 29 मार्च, 1998 को प्रसारित हुए कॉर्टून सीरिज सिम्पसन की है। 30 सेकंड के वीडियो में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की बिल्डिंग



में रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिनिधियों के बीच एक चर्चा होते हुए दिखाया गया है। अमेरिकी प्रतिनिधि की तरफ से कहा जाता है कि उन्हें लगा कि यूएसएसआर का पतन हो गया है। इस पर रूसी राजनयिक हंसते हुए कहते हैं कि ये वही था जो देश चाहता था कि हर कोई विश्वास करे। फिर वह अपने डेस्क पर नेमप्लेट को 'रूस' से 'सोवियत जन' में बदल देते

हैं। घटनाओं के मोड़ पर पागलपन से हंसता है। वीडियो में मास्को सैन्य टैंकों को चलते हुए दिखाया जाता है। इसके साथ ही बर्लिन की दीवार का पुनर्निर्माण किया जा रहा है और सोवियत संघ के संस्थापक व्लादिमीर लेनिन को फिर से जीवित दिखाया जाता है। क्लिप का अंत लेनिन के जोंबी की तरह चलने और पूंजीवाद को कुचलने की बातों के साथ होता है।

**पुतिन इज हिटलर!** यूक्रेन के खिलाफ युद्ध खत्म करने के लगाए नारे

**रूस की जनता राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ सड़कों पर उतरी**

एजेंसी

विश्व में इस समय तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है क्योंकि दुनिया की दूसरी ताकत रूस ने यूक्रेन के खिलाफ जंग छेड़ दी है। रूस ने यूक्रेन का राजधानी पर सिलसिलेवार तरीके से लगातार बमबारी करके युद्ध की घोषणा की। यूक्रेन में रूसी सैनिको ने कब्जा करना शुरू कर दिया है। मीडिया के जरिए यूक्रेन के हालात को पूरा विश्व देख रहा है। युद्ध के दौरान कमजोर देश की क्या स्थिति हो जाती है इसका गवाह यूक्रेन बन रहा है। यूक्रेन के लोग की जिंदगी पर बन



आयी है शहर में अफरा-तफरी मची हुई है। अब तक यूक्रेन के 137 आम नागरिकों के मारे जाने की खबर आयी है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेन्स्की ने दावा किया है कि अब तक

800 रूसी सैनिकों को मार दिया गया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के यूक्रेन के खिलाफ युद्ध के फैसले को लेकर पूरी दुनिया में उनकी आलोचना हो रही है। दुनिया के साथ-साथ रूस

के राष्ट्रपति जेलेन्स्की ने यूरोप के 27 नेताओं से बात की और पूछा कि क्या यूक्रेन नाटो में होगा। जेलेन्स्की ने कहा कि सब डरते हैं, कोई जवाब नहीं देना

चाहता है। जेलेन्स्की ने कहा कि आज हम जो सुन रहे हैं यह रॉकेट विस्फोट, लड़ाई और विमान की गर्जना नहीं है बल्कि सभ्य दुनिया के साथ रूस के

रिस्ते को खत्म करने के लिए लोहे के पदों की आवाज है। बता दें कि, यूक्रेन को नाटो देशों की ओर से भी कोई मदद नहीं मिल रही है।

**मैं गद्दार नहीं हूँ, दुश्मन का पहला टारगेट मैं फिर मेरे पत्नी और बच्चे!**

यूक्रेन पर गुरूवार को रूसी लड़ाकू की तरफ से हमले किए गए जिससे पूरे यूक्रेन में तबाही छा गई। राजधानी कीव को घेरने के लिए रूस ने कई हमले किए हैं। बताया जा रहा है कि, अब तक 135 लोगों की मौत हो गई है। इसी बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेन्स्की का एक भावुक वीडियो सामने आ रहा है जिसमें वह राष्ट्र को संदेश दे रहे हैं। राष्ट्रपति जेलेन्स्की वीडियो में अपनी पत्नी और बच्चों के बारे में बात करते हुए काफी भावुक हो रहे हैं। वह कह रहे हैं कि, रूस के निशाने पर सबसे पहले मैं हूँ और दूसरे नंबर पर मेरा पूरा परिवार। उन्होंने यूक्रेन के अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि, रूस पूरी तरह से कीव में घुस चुका है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेन्स्की ने अपनी इस वीडियो में कहा कि, मैं और मेरा परिवार गद्दार नहीं है और यूक्रेन छोड़कर नहीं भागेंगे। उन्होंने कहा कि, मैं यूक्रेन में हूँ। मेरा

परिवार यूक्रेन में है। मेरे बच्चे यूक्रेन में हैं। वे गद्दार नहीं हैं, वे यूक्रेन के नागरिक हैं। हमें जानकारी मिली है कि दुश्मन ने मुझे पहला टारगेट बनाया है। मेरा परिवार उनका दूसरा टारगेट है।' रूस मुझे खत्म कर देना चाहता है। जेलेन्स्की ने अपने भावुक संदेश में आगे कहा कि रूस की सरकार उन्हें खत्म कर देना चाहती है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने दावा किया है कि, रूस देश के प्रमुख को खत्म कर यूक्रेन को राजनिर्ति नुकसान पहुंचाना चाहता है। सीएनएन की खबर के मुताबिक यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेन्स्की ने यूरोप के 27 नेताओं से बात की और पूछा कि क्या यूक्रेन नाटो में होगा। जेलेन्स्की ने कहा कि सब डरते हैं, कोई जवाब नहीं देना चाहता है। जेलेन्स्की ने कहा कि आज हम जो सुन रहे हैं यह रॉकेट विस्फोट, लड़ाई और विमान की गर्जना नहीं है बल्कि सभ्य दुनिया के साथ रूस के रिस्ते को खत्म करने के लिए लोहे के पदों की आवाज है।

**कीव के एक अपार्टमेंट से टकराया रूस का रॉकेट, तीन घायल; रूस का हो रहा कब्जा**

एजेंसी

कीव/पेरिस। यूक्रेन की राजधानी कीव में शुक्रवार को एक रॉकेट एक बहुमंजिला अपार्टमेंट से जा टकराया, जिससे इमारत आग लग गई और कम से कम तीन लोग घायल हो गए। कीव के मेयर विटाली क्लिचको ने यह जानकारी दी। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेन्स्की ने कहा कि रूसी सेना का यह दावा 'बुढ़ा' है कि वह रिहायशी इलाकों को निशाना नहीं बना रही है।



उन्होंने कहा कि यूक्रेन में सैन्य और रिहायशी, दोनों ही क्षेत्र रूसी हमलों का सामना कर रहे हैं। इस बीच, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने शुक्रवार को कहा कि फ्रांस और उसके यूरोपीय सहयोगियों ने सैन्य, ऊर्जा, वित्त सहित अन्य क्षेत्रों से जुड़े रूसी नागरिकों और कंपनियों पर प्रतिबंध लगाकर मास्को पर 'बेहद कड़ा प्रहार' करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि प्रतिबंधों से जुड़े कानूनी मसौदे को अंतिम रूप देकर उसे यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों की मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। मैक्रों ने यह भी कहा कि यूरोपीय संघ ने यूक्रेन को 1.5 अरब यूरो (लगभग 1.68 अरब डॉलर) की आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने यूक्रेन पर रूस के सैन्य आक्रमण में बेलारूस की सरकार को भी 'भागीदार' करार दिया और कहा कि जल्द ही उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। उधर, कीव में प्रवेश करने

की कोशिशों में जुटी रूसी सेना शुक्रवार को सूभी शहर में दाखिल हो गई, जो यूक्रेन की राजधानी की ओर जाने वाले राजमार्ग पर स्थित है। क्षेत्रीय गवर्नर दमित्रो जिवित्स्की ने यह जानकारी दी। जिवित्स्की ने बताया कि यूक्रेनी सैनिकों ने बृहस्पतिवार रात सूभी में रूसी सैनिकों का कड़ा मुकाबला किया, लेकिन रूसी सेना पश्चिम में कीव की तरफ बढ़ती चली गई। उन्होंने कहा, 'सूभी से सैन्य वाहन कीव की ओर बढ़ रहे हैं। बहुत से वाहन पश्चिम की तरफ गुजर चुके हैं।' जिवित्स्की के मुताबिक, रूसी सैन्य बलों ने उत्तर-पूर्वी शहर कोनोतोप पर भी कब्जा कर लिया है। उन्होंने क्षेत्र के बाशिंदों से रूसी सेना का मुकाबला करने की अपील की। इस बीच, अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय के अभियोजक करीम खान ने कहा कि वह 'यूक्रेन और उसके आसपास के क्षेत्रों के हालिया घटनाक्रमों को पूरी गंभीरता के साथ देख रहे हैं।'

**6.2 की तीव्रता की भूकंप से हिला पश्चिमी इंडोनेशिया, अभी तक कोई नुकसान नहीं**

जकार्ता।

इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के तटीय इलाकों में शुक्रवार को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप के कारण लोग घबराकर अपने-अपने घरों से बाहर निकल आए। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भूकंप से जान-माल के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग के मुताबिक रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 6.2 मापी गई। भूकंप का केंद्र पश्चिम सुमात्रा प्रांत के पहाड़ी शहर बुकिटिंगी के उत्तर-उत्तर पश्चिम में 66 किलोमीटर दूर 12 किलोमीटर की गहराई पर था। इंडोनेशिया की मौसम एवं जलवायु विज्ञान और भूभौतिकीय एजेंसी की प्रमुख द्विकोशिता कर्णावती ने कहा कि भूकंप के कारण सुनामी का कोई खतरा नहीं है, लेकिन उन्होंने भूकंप के बाद और झटकों की चेतावनी दी है। तेलीविजन रिपोर्ट में पश्चिमी सुमात्रा प्रांत की राजधानी पंडांग में सड़कों पर घबराए हुए लोगों को दिखाया गया। गौरतलब है कि जनवरी 2021 में इंडोनेशिया के पश्चिम सुलावेसी प्रांत में आए 6.2 तीव्रता के भूकंप के कारण कम से कम 105 लोगों की मौत हो गयी थी जबकि करीब 6500 लोग घायल हो गए थे।



(16:00 GMT) ऐतिहासिक गोस्तिन्-इवोर शॉपिंग आर्केड के बाहर स्टैंड पीटर्सबर्ग सहित कई अन्य शहरों में भी सड़कों पर उतरे। भारी पुलिस बल की पृष्ठभूमि में कुछ लोगों ने राष्ट्रपति की कठोर निंदा की। एरोसिएटैड प्रेस ने बताया कि 54 रूसी शहरों में करीब 1,745 लोगों को हिरासत में लिया गया था, जिनमें से कम से कम 957 मास्को में थे। न केवल रूस, बल्कि यूक्रेन के आक्रमण की निंदा करने के लिए गुरूवार को टोक्यो से तेल अवीव और न्यूयॉर्क तक के शहरों में सार्वजनिक चौकों और रूसी दूतावासों के बाहर

प्रदर्शनकारी निकले। रिविस राजधानी बर्न में, सैकड़ों लोग यूक्रेन के झंडे पकड़े हुए और र्यूक्रेन के लिए शांति इ का नारा लगाते हुए एकत्र हुए। संयुक्त राष्ट्र के यूरोपीय मुख्यालय के बाहर नोबेल शांति पुरस्कार विजेता अंतर्राष्ट्रीय अभियान टू एबोलिश् न्यूक्लियर वेपन्स (ICAN) द्वारा आयोजित जिनेवा में एक छोटा सा प्रदर्शन, समूह ने जो कहा वह परमाणु हथियारों का उपयोग करने के लिए पुतिन की निंदा करने के लिए अवीव, डबलिन और प्राग में आयोजित किए गए।

**संक्षिप्त समाचार**

**ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम से मुलाकात की**

**भुवनेश्वर।** ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने सोमवार को यहां कलिंगा स्टेडियम में भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम के खिलाड़ियों से मुलाकात की और उन्हें एफआईएफ हॉकी प्रो लीग के आगामी घरेलू चरण के मुकाबलों के लिए शुभकामनाएं दीं। भारतीय पुरुष टीम 26 और 27 फरवरी को स्पेन से भिड़ेगी। ओलंपिक कांस्य पदक विजेता भारत के खिलाफ दो चरण के प्रो लीग मुकाबले से पहले स्पेन की पुरुष टीम सोमवार को यहां पहुंची। इसी महीने इंग्लैंड के खिलाफ अपने दोनों शुरुआती मुकाबले हारने वाली दुनिया की नौवें नंबर की टीम स्पेन मौजूदा सत्र में प्रो लीग में पहली जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेगी। भारतीय टीम ने प्रतियोगिता में खेले अब तक चार मैच में से तीन में जीत दर्ज की है।

**भविष्य में ब्राजील नहीं इसके लिए खेलना चाहते हैं दिग्गज फुटबॉलर नेमार साओ पाउलो।**

दिग्गज फुटबॉलर नेमार भविष्य में अपने देश ब्राजील के बजाय अमेरिका में खेलना चाहते हैं। इस 30 वर्षीय फुटबॉलर ने हाल में पेरिस सेंट जर्मेन (पीएसजी) के साथ अपना अनुबंध 2025 तक बढ़ाया था। नेमार ने 'फेनोमेनोस' पॉडकास्ट में कहा, "मैं नहीं जानता कि मैं फिर से ब्राजील में खेलूंगा या नहीं। मेरी विली इच्छा अमेरिका में खेलने की है।" मैं कम से कम एक सत्र के लिये वहां खेलना चाहता हूँ।" उन्होंने कहा, "ब्राजील में खेलने को लेकर मैं नहीं जानता। कुछ अवसरों पर मुझे लगता है कि वहां खेलना चाहिए लेकिन कभी मैं ऐसा नहीं चाहता।" इस स्ट्राइकर ने अमेरिका में खेलने के बारे में मजाकिया अंदाज में कहा, "क्योंकि वहां चैंपियनशिप जल्दी समाप्त हो जाती है, इसलिए चार महीने का अवकाश मिल जाता है। इस तरह से आप वहां वर्षों तक खेल सकते हैं।" नेमार से पूछा गया कि क्या वह संन्यास की योजना बना रहे हैं, उन्होंने कहा कि वह अपने दोस्तों से मजाक में कहते हैं कि वह 32 साल की उम्र में संन्यास ले लेंगे। उन्होंने कहा, "मैं जब तक मानसिक रूप से नहीं थक जाता तब तक खेलता रहूंगा। मेरा शरीर कुछ साल तक खेलने के लिये फिट रहेगा लेकिन मानसिक रूप से तैयार रहना जरूरी है। लेकिन इसके कोई निश्चित उम्र तय नहीं है।" नेमार ने कहा कि ब्राजील की राष्ट्रीय टीम 'ब्राजील के प्रशंसकों से बहुत दूर' हो गयी है। उन्होंने कहा, "मैं नहीं जानता कि यह क्यों और कब शुरू हुआ, लेकिन मैं इसे अपने मैचों में देखता हूँ। लोग इसके बारे में बात नहीं करते। उन्हें पता नहीं होता कि हम कब खेलते हैं। यह बुरा है।" नेमार ने कहा, "ऐसी पीढ़ी में रहना दुखद है जहां ब्राजील का खेलना महत्वपूर्ण नहीं है। जब मैं बच्चा था तो यह उत्सव जैसा होता था।

**राष्ट्रीय अंतर विश्वविद्यालय चैंपियनशिप में दुती चंद ने जीता स्वर्ण**

दिग्गज फरटा धाविका दुती चंद ने अपने सत्र की शुरुआत 100 मीटर फरटा दौड़ में स्वर्ण पदक के साथ की जबकि 400 मीटर में प्रिया मोहन ने निजी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ राष्ट्रीय अंतर विश्वविद्यालय महिला एथलेटिक्स चैंपियनशिप के दूसरे दिन खिताब जीता। विश्व विश्वविद्यालय खेल 2019 की स्वर्ण पदक विजेता दुती ने 100 मीटर फाइनल में 11.44सेकंड के समय के साथ स्वर्ण पदक जीतकर सत्र की शुरुआत की। वह केआईआईटी विश्व विद्यालय का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। पिछले साल 400 मीटर में भारत की सबसे तेज महिला धावक रही 18 साल की प्रिया ने फाइनल में 52.58 सेकंड के समय के साथ खिताब जीता। उन्होंने 2021 अंडर-20 विश्व चैंपियनशिप में चौथे स्थान पर रहने के दौरान 52.77 सेकंड के अपने पिछले निजी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन में सुधार किया। बैंगलुरु के जैन विश्व विद्यालय का प्रतिनिधित्व कर रही प्रिया का यह प्रदर्शन मीट रिकॉर्ड भी है। उन्होंने 2005 में अनिल्डा थॉमस के 52.99 सेकंड के समय में सुधार किया। मेरली ग्रेसोना ने 1.84 मीटर के मीट रिकॉर्ड और निजी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की बराबरी करते हुए ऊंची कूद का स्वर्ण पदक जीता। पटियाला के पंजाब विश्व विद्यालय की बलजीत कौर ने 20 किमी पैदल चल जबकि पुणे की सावित्रीबाई फुले विश्व विद्यालय की कोमल जगदाले ने 3000 मीटर स्टीपलचेज का खिताब मीट रिकॉर्ड बनाकर जीता।

**गांगुली-द्रविड़ पर टिप्पणी कर साहा ने किया नियमों का उल्लंघन, बीसीसीआई मांग सकता है स्पष्टीकरण नयी दिल्ली।**

भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) विकेटकीपर बल्लेबाज ऋद्धिमान साहा से राष्ट्रीय टीम से बाहर किये जाने के बाद बोर्ड अध्यक्ष सोरव गांगुली और मुख्य कोच राहुल द्रविड़ पर की गयी टिप्पणी के लिये स्पष्टीकरण मांग सकता है, क्योंकि उसे लगता है कि केंद्रीय अनुबंधित खिलाड़ी होने के कारण उन्होंने नियमों का उल्लंघन किया है। केंद्रीय अनुबंध में युप बी में शामिल साहा के बारे में पता चला है कि उन्होंने नियम 6.3 का उल्लंघन किया है। इस नियम के अनुसार, कोई भी खिलाड़ी खेल, अधिकारियों, खेल में हुई घटनाओं, प्रौद्योगिकी के उपयोग, चयन मामलों या खेल से संबंधित किसी भी अन्य मामले के बारे में किसी तरह के मीडिया में ऐसी टिप्पणी नहीं करेगा जो बीसीसीआई की राय में प्रतिकूल है या खेल, टीम या बीसीसीआई के हित में नहीं है।

**ईशान ने फॉर्म में वापसी का रोहित को दिया श्रेय लखनऊ।**

पिछली श्रृंखला में प्रवाहमय बल्लेबाजी करने में नाकाम रहे युवा सलामी बल्लेबाज ईशान किशन ने श्रीलंका के खिलाफ पहले टी20 में फॉर्म में वापसी का श्रेय कप्तान रोहित शर्मा और मुख्य कोच राहुल द्रविड़ को दिया। बायें हाथ का यह बल्लेबाज वेस्टइंडीज के खिलाफ अच्छी शुरुआत को बड़े स्कोर में नहीं बदल पाया था लेकिन श्रीलंका के खिलाफ पहले मैच में उन्होंने भारत की 62 रन से जीत में 56 गेंदों पर 89 रन की पारी खेली। ईशान किशन ने मैच के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कोई भी सीनियर खिलाड़ी चाहता है कि एक युवा खिलाड़ी अच्छी मनोस्थिति में रहे। चाहे वह (कोच), विराट या रोहित भाई हों, वे सभी इस दौर से गुजर चुके हैं।



**प्रागननंदा ने विश्व के नंबर एक खिलाड़ी कार्लसन को हराया**

**एजेंसी चेन्नई।** भारत के युवा ग्रैंडमास्टर आर प्रागनंदा ने ऑनलाइन रैंपिड शतरंज टूर्नामेंट एयरथिंस मास्टर्स के आठवें दौर में दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी मैगनस कार्लसन को हराकर बड़ा उलटफेर किया। प्रागनंदा ने सोमवार की सुबह खेली गयी बाजी में काले मोहरों से खेलते हुए कार्लसन को 39 चाल में हराया। उन्होंने इस तरह से कार्लसन के विजय अभियान पर भी रोक लगायी जिन्होंने इससे पहले लगातार तीन बाजियां जीती थीं। भारतीय ग्रैंडमास्टर के इस जीत से आठ अंक हो गये हैं और वह आठवें दौर के बाद संयुक्त 12वें स्थान पर हैं। पिछले दौर की बाजियों में अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाने वाले प्रागनंदा



**भारतीय ग्रैंडमास्टर के इस जीत से आठ अंक हो गये हैं और वह आठवें दौर के बाद संयुक्त 12वें स्थान पर हैं। पिछले दौर की बाजियों में अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाने वाले प्रागनंदा की कार्लसनपर जीत अप्रत्याशित रही। उन्होंने इससे पहले केवल लेव आरोनियन के खिलाफ जीत दर्ज की थी।**

की कार्लसनपर जीत अप्रत्याशित रही। उन्होंने इससे पहले केवल लेव आरोनियन के खिलाफ जीत दर्ज की थी। इसके अलावा प्रागनंदा ने दो बाजियां हार खेली जबकि चार बाजियों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा


**ऑबमार्येग की हैट्रिक से बार्सिलोना ने वेलेंसिया पर दर्ज की बड़ी जीत**

**एजेंसी मैड्रिड।** बार्सिलोना ने हाल में टीम से जुड़ने वाले पिपरे एमरिक ऑबमार्येग की हैट्रिक की मदद से स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लिगा में वेलेंसिया पर 4-1 से बड़ी जीत दर्ज की। बार्सिलोना ने ऑबमार्येग को हाल में अर्सनल से लिया था और इस खिलाड़ी ने अपनी नयी टीम की तरफ से रविवार को अपना पहला गोल भी किया। ऑबमार्येग ने 23वें, 38वें और 63वें मिनट में गोल किये। बार्सिलोना की तरफ से अन्य गोल फ्रेंकी डि जॉंग ने 32वें मिनट में किया। इस जीत से बार्सिलोना फिर से चौथे स्थान पर पहुंच गया है जो कि चैंपियंस लीग में जगह बनाने के लिये

अंतिम स्थान है। मौजूदा चैंपियन एटलेटिको मैड्रिड पांचवें स्थान पर है। उसने एक अन्य मैच में ओसासुना को 3-0 से पराजित किया। बार्सिलोना शीर्ष पर चल रहे रीयल मैड्रिड से 15 अंक पीछे है लेकिन उसने एक मैच कम खेला है। दूसरे स्थान पर काजिज सेविला है कि ये एस्पेन्योल से अपना मैच 1-1 से ड्रा खेला जिससे वह रीयल मैड्रिड से छह अंक पीछे हो गया है। रीयल मैड्रिड ने शनिवार को अलावेस को 3-0 से हराया था। तीसरे स्थान की टीम रीयल बेटिस ने मालोका पर 2-1 से जीत दर्ज की। इससे उसके और सेविला के बीच अब केवल पांच अंक का अंतर रह गया है।

**विराट कोहली को पीछे कर इस मामले में नंबर वन बने रोहित शर्मा, एक और रिकॉर्ड किया अपने नाम**

**एजेंसी नई दिल्ली।** भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा इन दिनों सुर्खियों में हैं। वेस्टइंडीज का क्लोन स्वीप करने के बाद श्रीलंका के खिलाफ पहले टी-20 मुकाबले में भी भारत में शानदार जीत हासिल की। टी20 अंतरराष्ट्रीय और वनडे की कप्तानी के बाद मुंबई के रोहित को चेतन शर्मा की अगुआई वाले चयन पैनल ने श्रीलंका श्रृंखला से पहले टेस्ट कप्तान नियुक्त किया। इस मैच में रोहित शर्मा ने एक शानदार रिकॉर्ड भी हासिल कर लिया। रोहित शर्मा ने 32 गेंदों पर 44 रनों की पारी खेली जिसमें 2 चौके और एक छक्का शामिल है। पहले विकेट के लिए रोहित शर्मा ने ईशान किशन के साथ मिलकर 111 रन की साझेदारी की। हालांकि इस नोट में जैसे ही रोहित शर्मा 37 रन पर पहुंचे उन्होंने टी-20 मुकाबलों में शानदार रिकॉर्ड



अपने नाम कर लिया। रोहित शर्मा फिलहाल T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। रोहित शर्मा के पास दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड के बल्लेबाज मार्टिन गुट्टिल का नाम है जबकि तीसरे नंबर पर विराट कोहली हैं। कोहली ने 3296 रन बनाए। इसके अलावा रोहित शर्मा की चर्चा एक और वनडे से खूब सुर्खियों में हो रही है। दरअसल, रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ने लगातार सबसे ज्यादा मुकाबले अपने घर में जीते हैं। रोहित शर्मा ने अब तक 16 मैचों में कप्तानी

की है जिसमें हार सिर्फ एक में मिली है। दूसरे नंबर पर मॉरिन हैं जिन्होंने 15 मुकाबले जीते हैं और 9 में हार का सामना किया है। कोहली पांचवें नंबर पर हैं। कोहली ने 13 मुकाबलों में जीत हासिल की थी जबकि 9 में हार का सामना करना पड़ा है। कुल मिलाकर देखें तो घर में खेलें जाने वाले मुकाबलों में रोहित शर्मा ने अब तक सबसे ज्यादा मुकाबले जीते हैं। सलामी बल्लेबाज ईशान किशन (56 गेंद में 89 रन) और श्रेयस अय्यर (नाबाद 56 रन) की अर्धशतकीय पारियों से भारत ने पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में श्रीलंका को 62 रन से शिकस्त देकर तीन मैचों की श्रृंखला में 1-0 से बढ़त हासिल कर ली। वेस्टइंडीज के खिलाफ पिछली सफेद गेंद की श्रृंखला में सुपड़ा साफ करने के बाद आत्मविश्वास से ओत प्रोत भारतीय टीम ने इस श्रृंखला में भी सकरात्मक शुरुआत की। यह भारत की टी20 अंतरराष्ट्रीय में लगातार 10वीं जीत है। टीम ने ईशान और श्रेयस की पारियों से दो विकेट पर 199 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया। श्रीलंका की टीम चरिथ असालंका (नाबाद 53 रन) के अर्धशतक के बावजूद 20 ओवर में छह विकेट पर 137 रन रन ही बना सकी। भारत ने सात गेंदबाजों से गेंदबाजी करायी, जिसमें अनुभवी भुवनेश्वर कुमार (दो ओवर में नौ रन देकर दो विकेट) ने श्रीलंका को दो शुरुआती झटके दिये जिससे टीम उबर नहीं सकी। जसप्रीत बुमराह हालांकि विकेट नहीं चटक सके, उन्होंने तीन ओवर में 19 रन दिये। वेंकटेश अय्यर ने तीन ओवर में 36 रन देकर दो विकेट हासिल किये जबकि युजवेंद्र चहल और रविंद्र जडेजा को एक एक विकेट मिला।

**सीरीज जीतने के इरादे से उतरेगा भारत, श्रीलंका करेगा वापसी की कोशिश**

**एजेंसी धर्मशाला।** अपने बल्लेबाजी दृष्टिकोण में बदलाव के बाद लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ शनिवार को यहां होने वाले दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच को जीतकर लगातार दूसरी श्रृंखला अपने नाम करने की कोशिश करेगी। पिछले साल टी20 विश्व कप के शुरू में बाहर हो जाने के बाद भारत को अपने दृष्टिकोण में बदलाव करने के लिये मजबूर होना पड़ा। उसने युवा खिलाड़ियों को मौका दिया और अब वह एक बदली हुई टीम नजर आ रही है। आस्ट्रेलिया में अक्टूबर-नवंबर में होने वाले टी20 विश्व कप में अभी समय है लेकिन रोहित शर्मा की अगुवाई वाली टीम में खिलाड़ियों का एक समूह तैयार है जिसका इस



दूर्नामेंट में खेलना तय माना जा रहा है। वेस्टइंडीज के खिलाफ रन बनाने के लिये जूझने वाले युवा सलामी बल्लेबाज ने ईशान किशन ने श्रीलंका के खिलाफ पहले मैच में बड़ी पारी खेलकर आत्मविश्वास हासिल किया। यदि रतुराज गायकवाड़ की कलाई में चोट नहीं लागती तो वह किशन के साथ पारी का आगाज कर सकते थे और ऐसे में रोहित मध्यक्रम में उतरते जैसा कि उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ किया था। यदि गायकवाड़ फिट होकर वापसी करते हैं तो रोहित शनिवार को फिर से ऐसा कर सकते हैं। रोहित अच्छी लय में दिख रहे हैं और उन्होंने

**मेदवेदेव ने मैक्सिको ओपन के दूसरे दौर में किया प्रवेश**

**एजेंसी अकापुल्को (मैक्सिको)।** डेनियल मेदवेदेव ने मैक्सिको ओपन टैनिस टूर्नामेंट में वेनोइट पायर को 6-3, 6-4 से हराकर दूसरे दौर प्रवेश करने के साथ नंबर एक रैंकिंग हासिल करने की अपनी कवायद जारी रखी। यह 26 वर्षीय रूसी खिलाड़ी यदि यहाँ खिताब जीतने में सफल रहता है तो वह, नोबाक जोकोविच को हटाकर शीर्ष पर काबिज हो जाएगा। पिछले साल यूएस ओपन के विजेता और इस साल आस्ट्रेलियाई ओपन में उप विजेता रहे मेदवेदेव पहली बार मैक्सिको में खेल रहे हैं। मेदवेदेव अगर टूर्नामेंट जीत जाते हैं या फाइनल में पहुंचते हैं और जोकोविच दुबई में नहीं जीत पाते हैं तो फिर वह 2004 के बाद नंबर



एक पर पहुंचने वाले पांचवें खिलाड़ी बन जाएंगे। पिछले 18 वर्षों में जोकोविच, रोजर फेडरर, राफेल नडाल और एंडी मरे ही शीर्ष पर पहुंचे हैं। अन्य मैचों में टॉमी पॉल ने पांचवीं वरीयता प्राप्त मैटियो बेरेट्टिनी को दूसरे सेट में पेट दर्द के कारण बाहर होने के बाद दूसरे दौर में जगह बनायी जबकि योशिहितो निशियोका ने फेलिसियानो लोपेज को 2-6, 6-0, 6-4 से हराया। पॉल अगले दौर में डुसान लाजोविच से भिड़ेगे।

**हमने आईपीएल नीलामी में आधा काम कर लिया, अब खिताब की जिम्मेदारी खिलाड़ियों पर: नेस वाडिया**

**एजेंसी नई दिल्ली।** पंजाब किंग्स के सह-मालिक नेस वाडिया का मानना है कि उन्होंने हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) नीलामी में 'बेहतरीन खिलाड़ियों' से सजी टीम चुनकर आधा काम कर लिया है और अब फ्रैंचाइजी को उम्मीद है कि ये खिलाड़ी उन्हें पहली बार आईपीएल चैंपियन बनने में मदद करेंगे। आईपीएल की शुरुआत से ही पंजाब किंग्स का प्रदर्शन उत्साहजनक नहीं रही है। टीम इस लीग के 14 सत्रों में से सिर्फ एक बार फाइनल में पहुंची है। पिछले तीन सत्रों में टीम कुछ अच्छे प्रदर्शन के बाद भी आठ टीमों के लीग में छठे स्थान पर रही है। टीम



आईपीएल की पिछले नीलामी में सबसे ज्यादा 72 करोड़ रुपये के साथ पहुंची थी नीलामी के बाद क्रिकेट के जानकारों ने फ्रैंचाइजी की तारीफ की। वाडिया ने पीटीआई-से कहा, " टीम में सही खिलाड़ियों के संयोजन से आधी जंग जीती जा सकती है। हम ऐसा करने में सफल रहे हैं। अब यह खिलाड़ियों, कोच अनिल (कुंबले), जॉटी (रोड्स) और डेमियन (राइट) पर निर्भर है कि हमें वास्तव में उस

खिताब तक ले जाये जिसका हम इतने लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। कम से कम शीर्ष चार में तो जगह सुनिश्चित करें क्योंकि हमारे लिए पिछले चार-पांच साल अच्छे नहीं रहे हैं।" मयंक अग्रवाल और युवा तेज गेंदबाज अशदीप सिंह के रूप में केवल दो खिलाड़ियों को रिटल करने के बाद, पंजाब ने जॉनी बेयरस्टो, शिखर धवन, राहुल चाहर, कागिसो रबाडा, ओडियन स्मिथ और लियाम लिविंगस्टोन को टीम में शामिल किया। टीम में निरंतरता बनाए रखने के लिए, उन्होंने बड़े शॉट खेलने वाले शाहरुख खान और बाएं हाथ के स्पिनर हरप्रीत बरार को वापस खरीदा, इसके अलावा पहले भी पंजाब का प्रतिनिधित्व कर चुके

**कीव में अपने अपार्टमेंट में फंसे हुए है भारतीय शतरंज खिलाड़ी अन्वेश उपाध्याय**

**एजेंसी चेन्नई।** पूर्व राष्ट्रीय रैंपिड शतरंज चैंपियन अन्वेश उपाध्याय उन कई भारतीयों में शामिल हैं जो यूक्रेन में फंसे हैं जहाँ रूस ने हमला कर दिया है और वह स्वदेश लौटने के लिये बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अन्वेश अपने अपार्टमेंट में अकेले हैं और भयभीत भी हैं। कीव के एक अस्पताल में 'गैस्ट्रोएंट्रोलाजी' (पेट और आंत के विकार से संबंधित) में प्रशिक्षण कर रहे 30 साल के अन्वेश ने मार्च में भारत लौटने की योजना बनायी थी लेकिन रूस ने गुरुवार को ही सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी जिससे उड़ान निर्लंबित हो गयी है और उन्हें नहीं पता कि आगे क्या होगा। वर्ष 2017 के राष्ट्रीय रैंपिड शतरंज चैंपियन ने कीव से पीटीआई से कहा, "इस तरह की कार्रवाई की उम्मीद नहीं थी। यह पूरी तरह से सैन्य हमला है। इसकी उम्मीद नहीं की थी।" भारत के विदेश सचिव हर्ष वर्धन श्रींगला ने गुरुवार को यूक्रेन



में सभी भारतीयों को आश्वस्त किया कि सरकार उन्हें सुरक्षित वापस लाने के लिये सभी कदम उठायेगी। अन्वेश ने कहा कि यूक्रेन में करीब 20,000 भारतीय हैं और इसमें से करीब 4,000 पिछले कुछ दिनों में वापस लौट चुके हैं। उन्होंने भुवनेश्वर में बसे अपने परिवार के बारे में बात करते हुए कहा, "भारत में मेरे माता पिता काफी चिंतित हैं, इसलिए मैंने मार्च के पहले हफ्ते में जाने की योजना बनायी थी।" उन्होंने कहा, "व मुझे लगातार बुला रहे थे और मेरे स्कूल के कुछ शिक्षक भी। मैं यहां अपने अपार्टमेंट में अकेला हूँ। नहीं जानता कि क्या होगा। यह हमला अचानक हो गया। इसलिए कुछ नहीं कर सका।" उन्होंने पहले यूक्रेन से रवाना होने की कोशिश की थी।

**टीम इस प्रकार है : भारत-रोहित शर्मा (कप्तान), ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर, संजू सैमसन, रविंद्र जडेजा, दीपक हुड्डा, वेंकटेश अय्यर, हर्षल पटेल, भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह, युजवेंद्र चहल, रतुज गायकवाड़, रवि बिशनोई, अवेश खान, मोहम्मद सिराज कुलदीप यादव। श्रीलंका-पशुम निसांका, कामिल मिशरा, चरित असलंका, दिनेश चांदीमल (विकेटकीपर), जेथिन लियानगे, दासुन शानका (कप्तान), चमिका करुणारत्ने, दुम्भुथा चमीरा, प्रवीण जयविक्रमा, जेफरी वेंडरसे, लाहिरू कुमारा, दनुका गुणाथिलका, एशियाई डेनियल, शिरान फर्नांडो , विनुरा फर्नांडो। मैच भारतीय समयानुसार शाम सात बजे शुरू होगा।**

टीम इस प्रकार है : भारत-रोहित शर्मा (कप्तान), ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर, संजू सैमसन, रविंद्र जडेजा, दीपक हुड्डा, वेंकटेश अय्यर, हर्षल पटेल, भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह, युजवेंद्र चहल, रतुज गायकवाड़, रवि बिशनोई, अवेश खान, मोहम्मद सिराज कुलदीप यादव। श्रीलंका-पशुम निसांका, कामिल मिशरा, चरित असलंका, दिनेश चांदीमल (विकेटकीपर), जेथिन लियानगे, दासुन शानका (कप्तान), चमिका करुणारत्ने, दुम्भुथा चमीरा, प्रवीण जयविक्रमा, जेफरी वेंडरसे, लाहिरू कुमारा, दनुका गुणाथिलका, एशियाई डेनियल, शिरान फर्नांडो , विनुरा फर्नांडो। मैच भारतीय समयानुसार शाम सात बजे शुरू होगा।

## अरशद वारसी ने किया रूस-यूक्रेन युद्ध पर कमेंट

भड़के हुए फैस बोलें- 'बिल्कुल भी शर्म नहीं आती आपको'

एक लंबे तनाव के बाद 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन पर हमला किया और युद्ध की घोषणा की। रूस ने यूक्रेन की सेना पर तीनों साइड से हमला किया और संभलने का मौका नहीं दिया। यूक्रेन की सेना रूस के आक्रमण का सामना कर रही है और जवाब भी दे रही है। यूक्रेन में हालात काफी खराब हैं राजधानी छोड़ कर लोग दूसरी जगहों पर भाग रहे हैं स्थिति काफी गंभीर होती जा रही है। यूक्रेन की जनता सड़कों पर है और अबतक 200 से ज्यादा लोगों ने मरने की आशंका जताई जा रही है। जहां एक तरफ इतने गंभीर माहौल है दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की संभानवाओं के अधर में है वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध को लेकर कई तरह के मीम बनाये जा रहे हैं। संवेदनशील स्थिति पर इस तरह के मीम निंदनीय है। ऐसी ही एक मीम बॉलीवुड अभिनेता अरशद वारसी ने भी अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया जिसके बाद उन्हें काफी अलोचनाओं का सामना करना पड़ा। बॉलीवुड अभिनेता अरशद वारसी ने



यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध की स्थिति पर उनकी फिल्म गोलमाल से जुड़ा एक मीम साझा किया, जिसे गंभीर प्रतिक्रिया मिली। कई बॉलीवुड हस्तियों ने रूस-यूक्रेन युद्ध पर अपनी राय रखने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया। अभिनेता अरशद वारसी ने भी युद्ध पर एक गोलमाल मीम साझा करने के लिए ट्विटर का सहारा लिया, जो नेटिजन्स के साथ अच्छा नहीं हुआ। उन्होंने अभिनेता के 'असंवेदनशील' ट्वीट के लिए उनकी अलोचना की। 24 फरवरी को अरशद वारसी ने गोलमाल मीम शेयर किया था। क्लिप में उन्हें अजय देवगन, शरमन जोशी, मुकेश तिवारी,

तुषार कपूर और रिमी सेन के साथ दिखाया गया था। मीम में, पात्रों को अमेरिका, रूस, यूक्रेन और यूक्रेन के विद्रोहियों के कब्जे वाले वर्गों के रूप में चिह्नित किया गया था। उन्होंने इसे कैप्शन दिया, 'स्व-व्याख्यात्मक, गोलमाल एक ऐसी फिल्म थी जो अपने समय से असाधारण रूप से आगे थी। हालांकि, बाद में उन्होंने बैकलैश के बाद ट्वीट को डिलीट कर दिया। मीम ने नेटिजन्स को परेशान कर दिया और उन्होंने अरशद वारसी को 'असंवेदनशील' बताया। एक ट्विटर यूजर ने लिखा, 'रमुझे इसमें कॉमेडी नहीं मिलती है। यह वास्तविक समय

है। कहीं युद्ध चल रहा है जो बहुत खतरनाक है। एक अन्य यूजर ने कमेंट किया, 'रकहने के लिए सारी, लेकिन उम्मीद नहीं थी आपसे, यह बिल्कुल भी फनी नहीं है, इतने मासूमों को जान खतरे में है, हमें उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए, न कि उन पर मीम बनाने चाहिए। अरशद वारसी से निराश एक फैन ने ट्वीट किया, 'मैं एक कलाकार के तौर पर आपका चिन्ता सम्मान करता हूँ, युद्ध की स्थिति का मजाक बनाने की कोशिश करना मेरे स्वाद के प्रति थोड़ा असंवेदनशील है। इस बीच, यूक्रेन के राष्ट्रपति वलॉडिमिर जेलेन्स्की ने कहा कि 27-ब्लॉक नाटो अपने देश को वैश्विक निकाय में जाने से डरता है। कथित तौर पर, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को फोन करके संकट के शांतिपूर्ण समाधान का आग्रह किया। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि यूक्रेन में रहने वाले 20,000 भारतीयों में से 4,000 को सुरक्षित निकाल लिया गया है।

## श्रीदेवी की पुण्यतिथि पर, बेटी जान्हवी कपूर ने कहा 'नफरत का एक और साल तुम्हारे बिना जीवन में जोड़ा गया



श्रीदेवी / NCR समाचार  
दिग्गज अभिनेत्री श्रीदेवी का 24 फरवरी, 2018 को 54 वर्ष की आयु में निधन हो गया। श्रीदेवी की बेटियों जान्हवी कपूर और खुशी कपूर ने गुरुवार को उनकी मृत्यु की चौथी वर्षगांठ पर सोशल मीडिया पर अपनी मां को श्रद्धांजलि दी। भारतीय सिनेमा की पहली महिला सुपरस्टार के रूप में प्रसिद्ध, श्रीदेवी का 54 वर्ष की आयु में 24 फरवरी, 2018 को दुबई में निधन हो गया। अनुभवी अभिनेता की शायी फिल्म निर्माता बोनी

कपूर से हुई थी और उन्होंने बेटियों जान्हवी और खुशी को उनके साथ साझा किया। एक इंस्टाग्राम पोस्ट में, कपूर ने श्रीदेवी के साथ अपनी एक पुरानी तस्वीर साझा की और एक भावनात्मक नोट लिखा कि कैसे उनकी मां के बिना उनका जीवन अंधा है। हमें अभी भी अपने जीवन में आपके साथ बिना जीवन के अधिक वर्षों से जीया है।



लेकिन मुझे नफरत है कि आपके बिना मेरे जीवन में एक और वर्ष जोड़ा गया है। मुझे आशा है कि हम आपको गंवित करेंगे माँ, क्योंकि यही एकमात्र चीज है जो हमें चलती रहती है। प्यार आप हमेशा के लिए, उसने पोस्ट को कैप्शन दिया। जान्हवी कपूर की छोटी बहन खुशी ने भी इंस्टाग्राम स्टोरी पर श्रीदेवी के साथ अपने बचपन के दिनों की एक तस्वीर पोस्ट करके अपनी माँ को श्रद्धांजलि दी। इस बीच, बोनी कपूर कथित तौर पर दक्षिण सुपरस्टार अजित अभिनीत अपने नवीनमान प्रोडक्शन रचलीमाइर की रिलीज के लिए चेन्नई में हैं। तमिल एक्शन-थ्रिलर गुरुवार को सिनेमाघरों में खुल गई।



स्विमिंग पूल में पोज देते हुए उर्फी जावेद ने फ्लॉन्ट किया बिकिनी लुक, ट्रोल्स बोले- 'मौलाना आते होंगे उर्फी को...

बिग बॉस ओटीडी फेम मॉडल और एक्ट्रेस उर्फी जावेद अपने अजीबोगरीब ऑउटफिट्स के कारण सुर्खियों में छाई रहती हैं। उर्फी के फैस को उनकी नई तस्वीरों का बेसवरी से इंतजार रहता है। अपने फैस को खुश करने के लिए वे आए दिन सोशल मीडिया पर अपनी फोटोज और वीडियो शेयर करती रहती हैं। उर्फी अपने अतर्गम कपड़ों के कारण अक्सर ट्रोल् होती रहती हैं। सोशल मीडिया पर उर्फी रिवीलिंग और छोटे कपड़ों में तस्वीरें डालती रहती हैं। हाल ही में उर्फी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में उर्फी बिकिनी पहने हुए बेहद हॉट लग रही हैं। सोशल मीडिया यूजर्स को उर्फी का यह बोल्ट अंदाज काफी पसंद आ रहा है। उर्फी के फैस उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। वहीं, कुछ लोग उन्हें ट्रोल् भी कर रहे हैं। कुछ लोग उर्फी जावेद को सबसे सेक्सी बता रहे हैं तो वहीं कुछ लोग उन्हें अटेंशन पाने के लिए बेताब बता रहे हैं। आपको बता दें कि इस वीडियो में उर्फी ब्लू कलर की बिकिनी पहने हुए स्विमिंग पूल से बाहर निकली हुई दिख रही हैं। पूल से बाहर

निकलते हुए वे अपने गोले बालों को हाथों से पीछे करती हैं। यह वीडियो देखकर सोशल मीडिया यूजर्स बेकाबू हो रहे हैं। उर्फी के फैस उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, बहुत ही हॉट हो यार। वहीं एक फैन ने कमेंट किया, इस लड़की को प्यार करोड़ वह अद्भुत खूबसूरत है, अद्भुत और बहुत हॉट है। एक फैन ने उर्फी की तारीफ में लिखा, स्विमिंग पूल में नहाकर और भी नमकीन हो गईं हो। वहीं कुछ सोशल मीडिया यूजर्स अ सेल्फी को कॉल कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा हम पक गए हैं इसको ऐसे देख देखकर। वहीं एक अन्य यूजर ने कमेंट किया अब यह सोच रही है और क्या नया दिखाऊंगी। वहीं एक यूजर ने लिखा मौलाना आते होंगे उर्फी को गाली देने। एक ने लिखा, एक दिन ऐसा भी आएगा जब कपड़े भी नहीं होंगे। आपको बता दें कि हाल ही में उर्फी ने एक कार्टिंग डायरेक्टर के खिलाफ उन पर यौन उत्पीड़न का प्रयास करने का आरोप लगाया है। उर्फी ने अपनी इंस्टा स्टोरी में दावा किया है कि कार्टिंग डायरेक्टर ने अनुचित बयान और अश्लील हरकतों की हैं।



कपड़े देखकर लोग बोले- ऊपर मनाली नीचे गोवा



एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा अपने बोल्ट अंदाज के लिए जानी जाती हैं। सोशल मीडिया पर अकसर वह अपनी बोल्ट तस्वीरें शेयर करती हैं। अर्जुन कपूर के साथ अपने अफेयर के बाद से ही मलाइका काफी चर्चा में रही हैं क्योंकि उन्होंने अर्जुन के लिए उन्होंने अपनी 19 साल की शादी तोड़ दी। मलाइका की उम्र 48 साल है और वह अपने से 10 साल छोटे अर्जुन कपूर के साथ रिलेशनशिप में हैं। अर्जुन कपूर

## बिना पैट पहनें सड़क पर निकली मलाइका अरोड़ा

बॉलीवुड की सेक्सी हसीना मलाइका अरोड़ा अपने लुक्स की वजह से अक्सर सुर्खियों में छाई रहती हैं। अभिनेत्री की फैशन चॉइस चाहें पार्टी के लिए हो या जिम के लिए लोगों को बखूबी पसंद आती है। आज अभिनेत्री मुंबई की सड़कों पर घूमती नजर आयीं। उनके द्वारा पहने हुए ऑउटफिट की सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है और मलाइका की एक वीडियो भी काफी वायरल हो रही है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस वीडियो को मशहूर पैराजि वायरल भयानी ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। वीडियो में मलाइका अरोड़ा ने ओवर साइज व्हाइट कलर की शर्ट के साथ ओवर साइज ब्राउन स्वेटर पहनी हुई हैं। अपने इस ऑउटफिट के साथ मलाइका ने हाई हील्स बूट्स डाले हुए हैं। अभिनेत्री को सेक्सी टांगे लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। लोगों को मलाइका का यह लुक पसंद आ रहा है तो कई लोग उन्हें जमकर ट्रोल् कर रहे हैं। एक सोशल मीडिया यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, जल्दी में पैट घर पर रह गयी दीदी की। एक अन्य ने कमेंट में लिखा, ऊपर मनाली नीचे गोवा। एक अन्य ने लिखा, मास्क पहनना जरूरी है पैट नहीं। अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रही हैं और अक्सर अपनी दिलकश तस्वीरें फैस के साथ शेयर करती रहती हैं।

के साथ उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी कई तस्वीरें शेयर की हैं जिसके माध्यम से उन्होंने अपने रिलेशनशिप को ओपन किया हुआ है। मलाइका की हाल की में प्रजेट फरहान अख्तर की शादी की पार्टी में देखी गयी। दरअसल फरहान अख्तर ने शिबानी के साथ एक प्राइवेट फंक्शन में शादी की उसके बाद उन्होंने एक बॉलीवुड के दोस्तों के लिए पार्टी रखी जिसमें तमाम लोगों ने शिरकत की। मलाइका अरोड़ा भी अपने गर्लफ्रेंड के साथ पार्टी में शामिल हुईं। मलाइका अरोड़ा की बोल्ट ड्रेस ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। 48 साल की मलाइका अरोड़ा ने ब्लैक कलर की ड्रेस पहली थी जिसके ऊपर का पार्ट एक स्विमसूट जैसा था और ऊपर से उन्होंने एक जालीदार गार्डन डाला हुआ था। इस दौरान उन्होंने कैमरे के सामने पोज भी दिए।

स्विमसूट पर जाली ओढ़ कर शादी में पहुंची मलाइका अरोड़ा

## यूक्रेन पर रूसी सैन्य हमले पर आया प्रियंका चोपड़ा जोनास का रिएक्शन

मुंबई। अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा जोनास ने यूक्रेन पर रूसी सैन्य हमले को भयावह करार देते हुए शुरुवार को कहा कि यह समझना मुश्किल है कि स्थिति कैसे विनाशकारी सीमा तक पहुंच गई है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आदेश के बाद रूसी सैनिकों ने बृहस्पतिवार को यूक्रेन पर हमला कर दिया। पुतिन ने रूसी हमलों की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो रही निंदा और उसके खिलाफ प्रतिबंधों को दरकिनार करते हुए अन्य देशों को चेतावनी दी है कि किसी भी देश ने यदि हस्तक्षेप करने की कोशिश की तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे, जो उन्होंने 'कभी नहीं देखे होंगे।' प्रियंका चोपड़ा जोनास, जो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ) की सद्भावना राजदूत भी हैं, ने यूक्रेन के मौजूदा हालात को भयावह बताया। अभिनेत्री ने सोशल मीडिया ऐप इंस्टाग्राम पर यूक्रेन संकट की एक समाचार क्लिपिंग साझा की और यूक्रेन में शीघ्र शांति बहाली पर जोर दिया। प्रियंका (39) ने लिखा, यूक्रेन में जो स्थिति पैदा हो रही है वह बेहद भयानक है। निर्दोष लोग अपने अपने प्रियजनों की जिंदगी को लेकर डर और भय के माहौल में जी रहे हैं। यूक्रेन के लोग अपने भविष्य की अनिश्चितता को लेकर चिंतित हैं। प्रियंका ने यूक्रेन में बच्चों की मदद करने के लिए अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के बायो में यूनिसेफ का एक लिंक भी संलग्न किया। फिक्मकार ऑनिर, राहुल टोलकिया और अभिनेत्री तिलोत्तमा शोम ने भी रूसी हमले की निंदा करते हुए यूक्रेन के प्रति एकजुटता व्यक्त की है।



## गले पर 'लव बाईट' वाली खबरों को देखकर भड़कीं उर्वशी रौतेला, गुस्से में कहा- किसी भी लड़की..



रहा है कि वे किसी को भी छवि खराब करने के लिए कुछ भी लिख सकते हैं खासकर लड़कियों की। आप लोग अपने फायदे के लिए फेक न्यूज फैलाने के बजाय मेरी उपलब्धियों के बारे में क्यों नहीं लिखते। बता दें कि इस वीडियो में उर्वशी रौतेला ने रेड कलर का सिक्विन टॉप और ब्लैक मिनी स्कर्ट पहनी है। गॉंग्लस लगाए हुए उर्वशी बेहद खूबसूरत दिख रही हैं। उन्होंने कैमरे के सामने पोज देते हुए फोटो भी बिलक करवाए। उर्वशी ने खुद भी अपनी इंस्टाग्राम अकाउंट पर यह वीडियो शेयर किया था और लोगों को वॉलटुइन डे की विशेष दी थी।

बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला अपने फैशन सेस और महंगे मेकअप के लिए सुर्खियों में रहती हैं। उर्वशी जहां भी जाती हैं सबकी नजरें उन पर टिक जाती हैं। हाल ही में उर्वशी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जम कर वायरल हुआ। इस वीडियो में एक्ट्रेस के गले पर पड़े निशान ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। लोग इस वीडियो को शेयर करने लगे और इस निशान को लव बाइट बताने लगे। एक मीडिया पोर्टल पर ऐसी ही एक खबर को देखकर उर्वशी रौतेला भड़क उठीं। उन्होंने न्यूज पोर्टल को ऐसी खबर छापने के लिए खूब खरी-खोटी सुनाई। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, बेहूदा और हास्यास्पद !!!!! यह मेरी लाल लिपस्टिक है जो मेरे मास्क से फैल गई है। किसी भी लड़की से पुछिए कि रेड लिपस्टिक को मेटेन करना कितना मुश्किल होता है। विश्वास नहीं हो रहा है कि वे किसी को भी छवि खराब करने के लिए कुछ भी लिख सकते हैं खासकर लड़कियों की। आप लोग अपने फायदे के लिए फेक न्यूज फैलाने के बजाय मेरी उपलब्धियों के बारे में क्यों नहीं लिखते। बता दें कि इस वीडियो में उर्वशी रौतेला ने रेड कलर का सिक्विन टॉप और ब्लैक मिनी स्कर्ट पहनी है। गॉंग्लस लगाए हुए उर्वशी बेहद खूबसूरत दिख रही हैं। उन्होंने कैमरे के सामने पोज देते हुए फोटो भी बिलक करवाए। उर्वशी ने खुद भी अपनी इंस्टाग्राम अकाउंट पर यह वीडियो शेयर किया था और लोगों को वॉलटुइन डे की विशेष दी थी।

## येलो बिकिनी के साथ जालीदार टॉप पहनकर समुद्र किनारे कातिलाना पोज देती नजर आईं नुसरत जहां



TMC सांसद होने के साथ साथ नुसरत जहां पश्चिम बंगाल की मशहूर अभिनेत्रियों में भी शुमार हैं। नुसरत अक्सर अपने बोल्ट लुक्स सोशल मीडिया पर शेयर करके लोगों के दिलों को धड़कने बहाती रहती हैं। इसी कड़ी को जारी रखते हुए अभिनेत्री ने बीते दिनों अपनी कुछ हॉट तस्वीरें पोस्ट करके इंटरनेट पर आग लगा दी है। लोग अभिनेत्री की इन हॉट तस्वीरों को देखकर आहें भर रहे हैं। इंटरनेट पर आग लगा रही इन तस्वीरों को अभिनेत्री नुसरत जहां ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किया है। इन्हें शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा, रमुझे वापस में ले चलो। अभिनेत्री नुसरत इन तस्वीरों में पीले कलर की बिकिनी पहने हुए दिख रही हैं और बिकिनी के ऊपर उन्होंने जालीदार टॉप पहना हुआ है। येलो बिकिनी में नुसरत बेहद हॉट लग रही हैं और समुद्र किनारे बड़े कातिलाना पोज देखकर लोगों को आहें भरने पर मजबूर कर रही हैं। हजारों लोग नुसरत के हॉट लुक पर फिदा हो गए हैं और हार्ट, दिल वाले इमोजी के साथ तस्वीरों पर जमकर प्यार लुटा रहे हैं।

